



**TELEGRAM CHANNEL:** <https://t.me/patrioticIAS>

**YOUTUBE CHANNEL:** <https://www.youtube.com/@PatrioticIAS>

**CONTACT: 9971932488**



# PATRIOTIC IAS

THE HINDU NEWSPAPER

DAILY CURRENT AFFAIRS

11 APRIL 2025

To watch an in-depth discussion on the topic, click on the YouTube link below: <https://www.youtube.com/@PatrioticIAS>

For regular updates on UPSC and PCS preparation, join our Telegram Channel: <https://t.me/patrioticIAS>

11\_04\_2025 DAILY CURRENT AFFAIRS

TOPICS COVERED (GS Paper I: History, Society and Geography)

1. Phule: a constant gardener of social revolution

फुले: सामाजिक क्रांति के एक निरंतर माली

2. Tanzanian Opposition leader Lissu charged with treason following arrest

तंजानियाई विपक्षी नेता लिस्सु पर गिरफ्तारी के बाद देशद्रोह का आरोप लगाया गया

Address : 3rd Floor, KV Tower, Padleyganj Road, Gorakhpur

Email Id : [info@patrioticias.in](mailto:info@patrioticias.in)

Contact Number : **9971932488**

Website : [patrioticias.in](http://patrioticias.in)



**BIBLIOGRAPHY**

# Phule: a constant gardener of social revolution

Mahatma Jyotiba Phule continues to be a source of inspiration to many progressives even today; we look back at his actions and opinions from his life and writings, where he envisions a society liberated of orthodox shell

**GS Paper I: Social Reformers**

Jyotiba Phule was born on April 11, 1827, in the Mali caste, a community traditionally occupied with gardening and floristry. In 1848, Phule was invited to attend a wedding of one of his Brahmin friends. The relatives of the groom insulted and abused him while referring to his 'lower' caste. Phule left the procession, having made up his mind to defy the prevailing social system and its incumbent caste oppression. He visited a girls' school in Ahmednagar run by missionary Cynthia Farrar, and also came into contact with Thomas Paine's *Age of Reason*, which had criticised Christian orthodoxy much in the same way as Phule would come to contend with its Hindu counterpart.

The very same year, Phule and his wife Savitribai cofounded the first school for girls in India. Phule was only 21 years old at the time; the couple opened 18 more schools in the next three years. By 1855, Phule had also opened night schools in Pune, intended as a centre of learning for workers, farmers, and working women who were busy during the day. Phule's rapid success in this emancipatory revolution was opposed by the orthodox.

In his later years, Phule had vociferously opposed first Vishnu Shashtri Chiplunkar, and then his protégé Bal Gangadhar Tilak. Phule preferred to work with the British government to improve the lot of the untouchables and the depressed castes and the emancipation of women, while Tilak and other orthodox nationalists saw the British government as an occupying force intent on changing what they felt was the fundamental character of the Hindu religion. Nonetheless, Phule had the discernment to aid the deliverance of an opponent when he bailed out an imprisoned Tilak and Gopal Ganesh Agarkar from Mumbai's Dongri Jail.

Phule also founded the *Satyashodhak Samaj* (Society of Truth Seekers) in September 1857. The body was intended as an alternative to the largely upper-caste dominated reform movements that had been surging in India. These included the Brahma Samaj, the Prarthana Samaj, as well as the Arya Samaj movements.

**Breaking the chain**

Revolution is a vehicle for change – social, economic, and political. The *Bombay Times* and *Journal of Commerce* had in 1857 called the sepy revolt "a deadly national rebellion". However, Phule could not come to affiliate with the sepy revolt, seeing it as a retrogression towards the ascendant theocracy of the Peshwa rule. He could not see a way to reconcile his social revolution with the tempest of 1857. Phule felt that the obstinacy of the orthodox upper-caste Hindus would consign the Dalits back into a state of deprecation.

Writing in *Gulamgiri* (Slavery), Phule says, "This system of slavery, to which the Brahmins reduced the lower classes, is in no respects inferior to that which obtained a few years ago in America. In the days of rigid Brahmin dominance, so lately as that of the time of the Peshwa, my Sudra brethren had even greater hardships and oppression practised upon them than what even the slaves in America had to suffer. To this system of selfish superstition and bigotry, we are to attribute the stagnation and all the evils



**Defiant spirit:** In 1848, Phule and wife Savitribai cofounded the first school for girls in India. FILE PHOTO

under which India has been groaning for many centuries past."

"Only slaves can understand what it is to be a slave and what joy it is to be delivered from the chains of slavery. Now the only difference between them and the slaves in America is that whereas the blacks were captured and sold as slaves, the shudras and atishudras were conquered and enslaved by the bhats and brahmins," he states.

But Phule was also able to see that economic strengthening of the working poor among the lower castes could be a key to overthrowing the social imbalances. In his 'A Statement for the information of the Education Commission', Phule writes, "In villages also most of the cultivating classes hold aloof, owing to extreme poverty, and also because they require their children to tend cattle and look after their fields. Besides an increase in the number of schools, special inducements in the shape of scholarships and half-yearly or annual prizes, to encourage them to send their children to school and thus create in them a taste for learning, is most essential. I think primary education of the masses should be made compulsory up to a certain age, say at least 12 years."

In his *Satsar* (The Essence of Truth), Phule defended the right of Pandita Ramabai to convert to Christianity, the only non-Christian defence of its sort. The text is imagined as a dialogue between a Brahman and a Shudra.

"Brahman: But Tatya (younger brother), which religion do you belong to? Shudra: Forget God and serve the brahmins! Do you think this ought to be our religion? We shall adopt Christianity or Islam whenever we feel like for our convenience. Or perhaps we shall ask for a religion for us from our Creator. You do not have to worry about us."

**A constructive approach**  
In his *Shetkaryanche Asud* (Farmer's Whip), Phule argues for a constructive

approach on the part of the administration.

Many of his ideas therein provide a secular alternative to resolving the extant questions of cow slaughter, the increase in crop production, and the development of civil infrastructure.

"The benevolent government should educate all the farmers, and until they become mature enough to use machines to do the usual things on the farms like European farmers, all the white people and the Mussalmans should slaughter goats and sheep instead of slaughtering cows and oxen; or they should import cattle and slaughter and eat them here, because otherwise there will not be sufficient supply of cattle for the farms, and there will not be enough compost and other fertiliser as well, and so neither the farmer, nor the government will benefit," Phule writes.

Arguing for the involvement of military administration in the work of civil construction, Phule says, "...construct small dams and bunds in such a way that this water would seep into the ground, and only later go and meet streams and rivers. This would make the land very fertile, and the soldiers in general, having got used to working in open air, will also improve their health and become strong. Even if they labour to the value of one anna every day, this will mean an increase in the government's earnings to the tune of twenty-five lakh per year, because our careful government has, including the police department, at least two lakh sepyos."

"...the government should allow the farmer to collect all the silt and other things extracted from rivers and lakes, as in the olden times, and it should also return all the cow pastures to the villages, which it has included in its 'forest'; it should, however, make sure that no firewood is collected, or land tilled in the areas that belong to it, and it should also forbid the cutting of wood for selling as wood for construction and destroy the

oppressive the Forest Department," Phule contends.

**The flowering of a true faith**

Phule shared a complex and evolving relationship with both doctrinal religion and the idea of God. In his early years, he credits his childhood Muslim friends for revealing to him the fallacy of the Brahminical faith, and later still the work of the Christian missionaries likewise provides him with a robust critique of Hindu orthodoxy. Phule even wrote an abhang titled *Manav Mahammad* (Muhammad the man), which extolls the prophet of Islam as having liberated his people from the yoke of superstition and orthodoxy of his age. But Phule was also inspired by Paine's *Age of Reason*, and in his later years drew on the deistic strain of humanistic faith therein.

An echo of this rationalist tendency is most evident in his *Sarvajaniik Satya Dharma Pustak*, a sort of last testament of his beliefs and convictions. In it, Phule responds to a query regarding the existence or lack thereof of a true scripture in this manner. "All the religious and revelatory books that man has produced on our planet, one and all, do not contain a consistent universal truth. This is so because in every such book are to be seen passages interpolated into those texts by certain groups of individuals as the situation in their view warranted and as their dogmatism and mulishness dictates. Consequently, those religions or faiths did not in the final analysis work towards the good of all. This in turn resulted in sects and sectarianism. Small wonder that these sects hated and turned against each other."

Rejecting sectarianism and supremacism, Phule reminds the reader that, "In sum, this solar system and naturally the planet earth which we inhabit are created by one Creator. Why is it then that the human beings living in different States and nations hate each other? How and why are the foolish passions of religions and national hatreds generated? There are any number of rivers on our planet. All of them eventually meet the sea. How and why, then can only one of those rivers be sacred? Does that sacred river ever hesitate to carry dogs' excreta to the sea?"

Denying any fundamental sacredness of some human beings over others, Phule stipulates that this is "clearly untenable". "All human beings on our planet are equipped with similar physical and intellectual facilities. How can some of them be 'sacred' generation after generation? Are they not born and do they not die like everyone else, and do they not have qualities good and bad like everyone else?" he writes.

Writing against the unevenness of polygamy, Phule presents a polyandrous argument to offset his counterposition. "Some lustful men who marry more than once, maintain almost a harem; justify their action with reference to some senseless religious text written by equally mulish men. How would they take it if some women were to marry more than one man to satisfy their lust? Would not these men think of right and wrong and be critical of their behaviour?" Phule contends therein.

Phule reminds the reader that the pernicious practice of caste is a human invention. Of it he opines, "Animals, birds, etc., all differ from each other anatomically. Likewise, two-legged human beings are different from four-legged animals. It is said that the Arya Brahma has created the four castes. He would have done so for the animals as well. Can you tell me then who are the brahmins among the donkeys, crows, etc.?"

Phule's life and times continue to be a source of inspiration to many progressives to date. His struggles, sometimes at risk to his own life and limb, and his tenacious pursuit of the ideal of a society liberated of its orthodox shell, are something worth learning from for our own age.

## Phule: a constant gardener of social revolution

**Address : 3rd Floor, KV Tower, Padleyganj Road, Gorakhpur**

**Email Id : info@patrioticias.in**

**Contact Number : 9971932488**

**Website : patrioticias.in**



TELEGRAM CHANNEL: <https://t.me/patrioticIAS>

YOUTUBE CHANNEL: <https://www.youtube.com/@PatrioticIAS>

CONTACT: 9971932488



## फुले: सामाजिक क्रांति के एक निरंतर माली

Mahatma Jyotiba Phule continues to be a source of inspiration to many progressives even today; we look back at his actions and opinions from his life and writings, where he envisions a society liberated of orthodox shell.

महात्मा ज्योतिबा फुले आज भी कई प्रगतिशील लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं; हम उनके जीवन और लेखन से उनके कार्यों और विचारों की ओर देखते हैं, जहाँ वह एक ऐसी समाज की कल्पना करते हैं जो रूढ़िवादी बंधनों से मुक्त हो।

### Early Life and Turning Point

#### प्रारंभिक जीवन और बदलाव का मोड़

• Jyotiba Phule was born on **April 11, 1827**, in the **Mali caste**, a community traditionally occupied with gardening and floristry.

ज्योतिबा फुले का जन्म 11 अप्रैल 1827 को माली जाति में हुआ था, जो परंपरागत रूप से बागवानी और फूलों के काम से जुड़ी थी।

• In **1848**, Phule was invited to attend a wedding of one of his **Brahmin friends**.

1848 में, फुले को अपने एक ब्राह्मण मित्र की शादी में आमंत्रित किया गया।

• The relatives of the groom insulted and abused him while referring to his '**lower**' caste.

दूल्हे के रिश्तेदारों ने उनकी 'निम्न' जाति का हवाला देते हुए उनका अपमान और दुर्व्यवहार किया।

• Phule left the procession, having made up his mind to defy the prevailing **social system** and its **caste oppression**.

फुले ने बारात छोड़ दी और प्रचलित सामाजिक व्यवस्था और जातिगत उत्पीड़न का विरोध करने का संकल्प लिया।

• He visited a **girls' school** in **Ahmednagar** run by missionary **Cynthia Farrar**, and also came into contact with **Thomas Paine's "Age of Reason"**, which had criticised **Christian orthodoxy**, similar to how Phule would later challenge **Hindu orthodoxy**.

उन्होंने अहमदनगर में सिंथिया फैरर द्वारा चलाए जा रहे बालिका विद्यालय का दौरा किया और थॉमस पेन की "एज ऑफ रीजन" पुस्तक के संपर्क में आए, जिसमें ईसाई रूढ़िवादिता की आलोचना की गई थी, जैसे कि फुले बाद में हिंदू रूढ़िवादिता का विरोध करने वाले थे।

Address : 3rd Floor, KV Tower, Padleyganj Road, Gorakhpur

Email Id : [info@patrioticias.in](mailto:info@patrioticias.in)

Contact Number : 9971932488

Website : [patrioticias.in](http://patrioticias.in)



**TELEGRAM CHANNEL:** <https://t.me/patrioticIAS>

**YOUTUBE CHANNEL:** <https://www.youtube.com/@PatrioticIAS>

**CONTACT: 9971932488**



## Pioneer of Girls' Education

### बालिका शिक्षा के अग्रणी

• The very same year (1848), Phule and his wife **Savitribai** cofounded the **first school for girls in India**.

उसी वर्ष (1848), फुले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई ने भारत का पहला बालिका विद्यालय शुरू किया।

• Phule was only **21 years old** at the time; the couple opened **18 more schools** in the next **three years**.

उस समय फुले की उम्र मात्र 21 वर्ष थी; इस दंपति ने अगले तीन वर्षों में 18 और स्कूल खोले।

• By **1855**, Phule had also opened **night schools** in **Pune**, intended as a centre of learning for **workers, farmers, and working women** who were busy during the day.

1855 तक, फुले ने पुणे में रात्रि विद्यालय भी खोले, जो मजदूरों, किसानों और कामकाजी महिलाओं के लिए शिक्षा का केंद्र थे।

• Phule's rapid success in this **emancipatory revolution** was opposed by the **orthodoxy**.

इस मुक्ति आंदोलन में फुले की तेज़ सफलता का रूढ़िवादियों ने विरोध किया।

## Ideological Conflicts and British Support

### वैचारिक संघर्ष और ब्रिटिश समर्थन

• In his later years, Phule had vociferously opposed first **Vishnu Shashtri Chiplunkar**, and then his protege **Bal Gangadhar Tilak**.

अपने बाद के वर्षों में, फुले ने पहले विष्णु शास्त्री चिपलूनकर और फिर उनके शिष्य बाल गंगाधर तिलक का कड़ा विरोध किया।

• Phule preferred to work with the **British government** to improve the lot of the **untouchables, depressed castes**, and the **emancipation of women**.

फुले ने अस्पृश्यों, दलित जातियों और महिलाओं की मुक्ति के लिए ब्रिटिश सरकार के साथ काम करना अधिक उचित समझा।

• On the other hand, Tilak and other **orthodox nationalists** saw the British as an **occupying force** threatening the **Hindu religion's character**.

दूसरी ओर, तिलक और अन्य रूढ़िवादी राष्ट्रवादी ब्रिटिश सरकार को हिंदू धर्म के स्वरूप को बदलने वाली विदेशी सत्ता मानते थे।

• Nonetheless, Phule had the **discernment** to aid the deliverance of an opponent when he **bailed out** an imprisoned **Tilak** and **Gopal Ganesh Agarkar** from **Mumbai's Dongri Jail**.

**Address : 3rd Floor, KV Tower, Padleyganj Road, Gorakhpur**

**Email Id : info@patrioticias.in**

**Contact Number : 9971932488**

**Website : patrioticias.in**



**TELEGRAM CHANNEL:** <https://t.me/patrioticIAS>

**YOUTUBE CHANNEL:** <https://www.youtube.com/@PatrioticIAS>

**CONTACT: 9971932488**



फिर भी, फुले ने समझदारी दिखाते हुए अपने विरोधी तिलक और गोपाल गणेश आगरकर को मुंबई की डोंगरी जेल से जमानत पर रिहा कराकर मदद की।

## Formation of Satyashodhak Samaj

### सत्यशोधक समाज की स्थापना

• Phule also founded the **Satyashodhak Samaj (Society of Truth-Seekers)** in **September 1873**.

फुले ने सितंबर 1873 में सत्यशोधक समाज (सत्य की खोज करने वालों का समाज) की स्थापना की।

• The body was intended as an **alternative** to the **largely upper-caste dominated** reform movements in India.

यह संस्था भारत में मुख्यतः सवर्णों द्वारा नियंत्रित सुधार आंदोलनों का विकल्प थी।

• These included the **Brahmo Samaj**, the **Prarthana Samaj**, as well as the **Arya Samaj** movements.

इन आंदोलनों में ब्रह्मो समाज, प्रार्थना समाज और आर्य समाज शामिल थे।

## Breaking the chain

### जंजीरों को तोड़ना

• Revolution is a vehicle for **change — social, economic, and political**.

क्रांति परिवर्तन — सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक — का एक माध्यम है।

• The **Bombay Times and Journal of Commerce** had in **1857** called the **sepoy revolt** 'a deadly national rebellion'.

1857 में बॉम्बे टाइम्स और जर्नल ऑफ कॉमर्स ने सिपाही विद्रोह को 'एक घातक राष्ट्रीय विद्रोह' कहा था।

• However, Phule could not come to affiliate with the **sepoy revolt**, seeing it as a **retrogression** towards the **ascendant theocracy of the Peshwa rule**.

हालाँकि, फुले सिपाही विद्रोह से खुद को जोड़ नहीं पाए, क्योंकि वे इसे पेशवाकालीन धार्मिक सत्ता की ओर एक पिछड़ा कदम मानते थे।

• He could not see a way to reconcile his **social revolution** with the **tempest of 1857**.

वह अपनी सामाजिक क्रांति को 1857 के तूफान के साथ जोड़ने का कोई रास्ता नहीं देख सके।

• Phule felt that the **obstinacy of the orthodox upper-caste Hindus** would consign the **Dalits** back into a state of **depredation**.

फुले को लगा कि रुढ़िवादी सवर्ण हिंदुओं की हठधर्मिता दलितों को फिर से दमन और शोषण की स्थिति में डाल देगी।

**Address : 3rd Floor, KV Tower, Padleyganj Road, Gorakhpur**

**Email Id : info@patrioticias.in**

**Contact Number : 9971932488**

**Website : patrioticias.in**



## Slavery and Gulamgiri

### गुलामी और गुलामगिरी

• Writing in **Gulamgiri (Slavery)**, Phule says, "This system of **slavery**, to which the **Brahmins** reduced the **lower classes**, is in no respects inferior to that which obtained a few years ago in **America**.

गुलामगिरी (गुलामी) में फुले लिखते हैं, "यह गुलामी की व्यवस्था, जिसमें ब्राह्मणों ने निम्न वर्गों को डाला, किसी भी तरह से कुछ वर्ष पहले अमेरिका में प्रचलित व्यवस्था से कम नहीं थी।"

• In the days of **rigid Brahmin dominancy**, so lately as that of the time of the **Peshwa**, my **Sudra brethren** had even **greater hardships and oppression** practised upon them than what even the **slaves in America** had to suffer.

कड़े ब्राह्मणवादी प्रभुत्व के दिनों में, विशेष रूप से पेशवाकाल के समय में, मेरे शूद्र भाइयों को भी उन कठिनाइयों और उत्पीड़न का सामना करना पड़ा जो अमेरिका के दासों को भी नहीं सहना पड़ा।

• To this system of **selfish superstition and bigotry**, we are to attribute the **stagnation** and all the **evils** under which **India** has been groaning for many **centuries** past."

इस स्वार्थी अंधविश्वास और कट्टरता की व्यवस्था को हम भारत की सदियों पुरानी दुर्दशा और ठहराव का कारण मानते हैं।"

• "Only **slaves** can understand what it is to be a slave and what **joy** it is to be delivered from the **chains of slavery**.

"सिर्फ गुलाम ही समझ सकते हैं कि गुलामी क्या होती है और गुलामी की जंजीरों से मुक्ति पाकर कैसी खुशी मिलती है।

• Now the only difference between them and the **slaves in America** is that whereas the **blacks were captured and sold**, the **shudras and atishudras were conquered and enslaved by the bhats and brahmans**," he states.

अब उनमें और अमेरिका के दासों में बस इतना फर्क है कि वहाँ काले लोगों को पकड़ा और बेचा गया, जबकि शूद्रों और अतिशूद्रों को भटों और ब्राह्मणों द्वारा जीता और गुलाम बनाया गया," वे कहते हैं।

## Vision for Economic Upliftment and Education

### आर्थिक उत्थान और शिक्षा के लिए दृष्टिकोण

• Phule was also able to see that **economic strengthening** of the **working poor** among the **lower castes** could be a key to overthrowing the **social imbalances**.

फुले यह भी समझते थे कि निम्न जातियों के मेहनतकश गरीबों का आर्थिक सशक्तिकरण, सामाजिक असंतुलन को समाप्त करने की कुंजी हो सकता है।



**TELEGRAM CHANNEL:** <https://t.me/patrioticIAS>

**YOUTUBE CHANNEL:** <https://www.youtube.com/@PatrioticIAS>

**CONTACT: 9971932488**



- In his 'A Statement for the information of the Education Commission', Phule writes, अपने "एजुकेशन कमिशन को दी गई जानकारी" शीर्षक बयान में फुले लिखते हैं,
  - "In **villages** also most of the **cultivating classes** hold aloof, owing to **extreme poverty**, and also because they require their children to **tend cattle and look after their fields**.
  - गांवों में भी अधिकांश **कृषक वर्ग घोर गरीबी** के कारण शिक्षा से दूर रहते हैं, और इसलिए भी क्योंकि उन्हें अपने बच्चों से **पशु चरवाना और खेत देखना** होता है।
  - Besides an increase in the number of **schools**, special **inducements** in the shape of **scholarships** and **half-yearly or annual prizes**, to encourage them to send their children to school and thus create in them a **taste for learning**, is most essential.
  - **विद्यालयों** की संख्या बढ़ाने के साथ-साथ, **छात्रवृत्तियों** और **अर्धवार्षिक या वार्षिक पुरस्कारों** के रूप में विशेष **प्रोत्साहन** देना आवश्यक है, जिससे वे अपने बच्चों को स्कूल भेजें और उनमें **पढ़ाई की रुचि** विकसित हो।
  - I think **primary education** of the **masses** should be made **compulsory** up to a certain age, say at least **12 years**."
  - मैं मानता हूँ कि **जनसामान्य की प्रारंभिक शिक्षा** को कम से कम **12 वर्ष** की आयु तक **अनिवार्य** किया जाना चाहिए।"

## Religious Freedom and Satsar

### धार्मिक स्वतंत्रता और सत्सार

- In his **Satsar (The Essence of Truth)**, Phule defended the **right of Pandita Ramabai** to convert to **Christianity**, the only **non-Christian defence** of its sort.  
अपने **सत्सार (सत्य का सार)** में, फुले ने पंडिता रमाबाई के **ईसाई धर्म अपनाने** के अधिकार का बचाव किया — यह अपनी तरह की **एकमात्र गैर-ईसाई रक्षा** थी।
- The text is imagined as a **dialogue** between a **Brahman** and a **Shudra**.  
यह पाठ **ब्राह्मण** और **शूद्र** के बीच की **संवाद** शैली में लिखा गया है।
- "Brahman: But Tatya (younger brother), which **religion** do you belong to?"
- "ब्राह्मण: लेकिन तात्या (छोटे भाई), तुम किस **धर्म** से हो?"
- Shudra: Forget **God** and serve the **brahmins**! Do you think this ought to be our religion?"
- शूद्र: **ईश्वर** को भूल जाओ और **ब्राह्मणों** की सेवा करो! क्या यही हमारा धर्म होना चाहिए?"
- We shall adopt **Christianity** or **Islam** whenever we feel like for our **convenience**.
- हम जब चाहें अपनी **सुविधा** के अनुसार **ईसाई धर्म** या **इस्लाम** अपना लेंगे।
- Or perhaps we shall ask for a **religion** for us from our **Creator**. You do not have to worry about us."



◦ या फिर हम अपने सृष्टिकर्ता से हमारे लिए एक धर्म मांग लेंगे। आपको हमारे लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है।”

## The Flowering of a True Faith

### एक सच्चे विश्वास का प्रस्फुटन

- Phule shared a **complex relationship** with both **doctrinal religion** and the **idea of God**. He credits his **Muslim childhood friends** for exposing the **fallacies of Brahminical faith**, and **Christian missionaries** for critiquing **Hindu orthodoxy**. He wrote an **abhang** titled **Manav Mahamand**, praising the **Prophet of Islam**. He was also influenced by **Paine's Age of Reason** and drew on its **deistic and humanist beliefs**.

फुले का धार्मिक मतों और ईश्वर की धारणा के साथ जटिल संबंध था। वे अपने मुस्लिम बचपन के मित्रों को ब्राह्मणवादी विश्वास की कमजोरियों को उजागर करने का श्रेय देते हैं, और ईसाई मिशनरियों से उन्हें हिंदू रुढ़िवाद की आलोचना मिली। उन्होंने 'मानव महम्मद' नामक एक अभंग लिखा जिसमें उन्होंने इस्लाम के पैगंबर की प्रशंसा की। वे पेन की 'एज ऑफ़ रीजन' से भी प्रभावित थे और उसमें निहित दैववादी और मानवतावादी विश्वासों को अपनाया।

- This **rationalist tendency** is seen in his **Sarvajanik Satya Dharma Pustak** – his **final testament**. He writes, “All **religious books** produced by **humans** lack **consistent universal truth**, as they contain **interpolations** made by **dogmatic groups**. This leads to **sectarianism** and **mutual hatred**.”

यह तार्किक प्रवृत्ति उनके 'सार्वजनिक सत्य धर्म पुस्तक' में देखी जाती है – जो उनके विश्वासों का अंतिम बयान है। वे लिखते हैं, “मनुष्यों द्वारा रचित सभी धार्मिक ग्रंथों में एकसमान सार्वभौमिक सत्य नहीं होता, क्योंकि इनमें कट्टर समूहों द्वारा स्थिति के अनुसार बदलाव किए गए हैं। इससे संप्रदायवाद और आपसी द्वेष पैदा होता है।”

- Rejecting **sectarianism** and **supremacism**, Phule writes: “This **solar system**, and the **Earth**, are created by **one Creator**. Why then do **humans** living in **different nations** hate each other? Why do **religions** create **foolish passions** and **national hatreds**?”

संप्रदायवाद और श्रेष्ठतावाद को खारिज करते हुए, फुले लिखते हैं: “यह सौरमंडल और पृथ्वी एक ही सृष्टिकर्ता द्वारा बनाई गई हैं। फिर क्यों विभिन्न देशों में रहने वाले मनुष्य एक-दूसरे से घृणा करते हैं? क्यों धर्म मूर्खतापूर्ण भावनाएं और राष्ट्रीय द्वेष पैदा करते हैं?”

- “There are many **rivers**, and all meet the **sea**. Then how can **one river** alone be **sacred**? Does that sacred river **hesitate** to carry **dogs' excreta** to the sea?”

“इस पृथ्वी पर कई नदियाँ हैं, और सभी समुद्र से मिलती हैं। तो फिर कैसे केवल एक नदी पवित्र हो सकती



है? क्या वह पवित्र नदी कुत्तों की गंदगी को समुद्र तक ले जाने से हिचकिचाती है?"

- Denying the **inherent sacredness** of any **human group**, Phule says: "All **humans** have **similar physical and intellectual abilities**. How can some be called **sacred generation after generation**?"  
किसी भी **मानव समूह** की **जन्मजात पवित्रता** को नकारते हुए फुले कहते हैं: "सभी **मनुष्यों** के पास **समान शारीरिक और बौद्धिक क्षमताएं** हैं। तो कुछ को कैसे **पीढ़ी दर पीढ़ी पवित्र** कहा जा सकता है?"
- On **polygamy**, Phule criticizes **lustful men** who marry **multiple times**, and questions why **women** can't do the same. "Would men accept **polyandry** the same way?"  
**बहुविवाह** पर फुले **कामुक पुरुषों** की आलोचना करते हैं जो **कई बार विवाह** करते हैं, और पूछते हैं कि **महिलाएं** भी ऐसा क्यों नहीं कर सकतीं। "क्या पुरुष **बहुपति प्रथा** को उसी तरह स्वीकार करेंगे?"
- On **caste**, Phule mocks its **artificial origin**, saying: "If **Arya Brahma** created **four castes**, then who are the **Brahmins** among **donkeys** and **crows**?"  
**जाति** पर, फुले इसके **कृत्रिम निर्माण** का मज़ाक उड़ाते हुए कहते हैं: "अगर **आर्य ब्रह्मा** ने **चार जातियाँ** बनाई हैं, तो **गधों** और **कौवों** में **ब्राह्मण** कौन हैं?"
- **Phule's life** continues to inspire **progressive thinkers**. His **courageous struggles** and pursuit of a **society free from orthodoxy** are worth learning from even **today**.  
फुले का जीवन आज भी **प्रगतिशील विचारकों** के लिए प्रेरणा है। उनका **साहसिक संघर्ष** और **रूढ़ियों** से **मुक्त समाज** की खोज आज के लिए भी **सीखने योग्य** है।



# Tanzanian Opposition leader Lissu charged with treason following arrest

**GS Paper I: Mapping**

**Agence France-Presse**

DAR ES SALAAM

Tanzania's main Opposition leader Tundu Lissu was charged on Thursday with treason, which carries the death penalty, a day after being detained following a rally, one of his lawyers said.

The east African nation has increasingly cracked down on its Opposition, with Mr. Lissu's Chadema party accusing President Samia Suluhu Hassan of returning to the repressive tactics of her predecessor months before October's general election.

Mr. Lissu and other party members were detained on Wednesday after attending a rally in Mbinga, a town in the southern Ruvuma region, where Chadema said police officers dispersed the crowds with tear gas.



**Tough times:** Chadema Party leader Tundu Lissu arrives at the magistrate's court in Dar es Salaam on Thursday. AFP

"Lissu has been charged with treason which has no bail," one of his lawyers Jebra Kambole said following his appearance in court in the economic capital Dar es Salaam.

While Mr. Lissu has been arrested before – and released soon after – this is the first time the Opposition leader has faced such

a serious charge.

Mr. Kambole added that Mr. Lissu had also been charged with the "publication of false information" but did not give details.

Earlier, regional police commander Marco Chilya told reporters the opposition leader was questioned "regarding allegations of inciting the population to

block the general elections".

Tanzanian human rights lawyer Tito Magoti said on X the "plan is to dump him in jail for President Suluhu to party without opposition."

Tanzania is scheduled to hold presidential and National Assembly elections in October. President Hassan's party Chama Cha Mapinduzi (CCM) swept local elections last year.

Chadema said the elections had been manipulated, and would petition the High Court to demand reforms ahead of the upcoming polls.

Mr. Lissu warned last year Chadema would "block the elections through confrontation" unless the electoral system was reformed.

The opposition's demands have long been ignored by the ruling party.

## Tanzanian Opposition leader Lissu charged with treason following arrest

तंजानियाई विपक्षी नेता लिसु पर गिरफ्तारी के बाद देशद्रोह का आरोप लगाया गया

Tanzania's main Opposition leader Tundu Lissu was charged on Thursday with treason, which carries the death penalty, a day after being detained following a rally, one of his lawyers said.

तंजानिया के प्रमुख विपक्षी नेता टुंडु लिसु पर गुरुवार को देशद्रोह का आरोप लगाया गया,



**TELEGRAM CHANNEL:** <https://t.me/patrioticIAS>

**YOUTUBE CHANNEL:** <https://www.youtube.com/@PatrioticIAS>

**CONTACT: 9971932488**



जिसकी सजा मृत्युदंड है, एक दिन पहले एक रैली के बाद हिरासत में लिए जाने के बाद, उनके एक वकील ने कहा।

• The **east African** nation has increasingly **cracked down on its Opposition**, with Mr. Lissu's **Chadema** party accusing **President Samia Suluhu Hassan** of returning to the **repressive tactics** of her predecessor months before **October's general election**.

यह पूर्वी अफ्रीकी देश अपनी विपक्षी पार्टियों पर दबाव बढ़ाता जा रहा है, और श्री लिसु की चडेमा पार्टी ने राष्ट्रपति सामिया सुलुहू हसन पर अक्टूबर के आम चुनाव से कुछ महीने पहले अपने पूर्ववर्ती की दमनकारी रणनीति को फिर से अपनाने का आरोप लगाया है।

• Mr. Lissu and other party members were detained on **Wednesday** after attending a rally in **Mbinga**, a town in the **southern Ruvuma region**, where **Chadema** said police officers dispersed the crowds with **tear gas**.

श्री लिसु और पार्टी के अन्य सदस्यों को बुधवार को मबिंगा नामक शहर में, जो दक्षिणी रुवुमा क्षेत्र में स्थित है, एक रैली में भाग लेने के बाद हिरासत में लिया गया, जहां चडेमा ने कहा कि पुलिस ने भीड़ को आंसू गैस से तितर-बितर कर दिया।

• "Lissu has been charged with **treason** which has **no bail**," one of his lawyers **Jebra Kambole** said following his appearance in court in the economic capital **Dar es Salaam**.

"लिसु पर देशद्रोह का आरोप लगाया गया है, जिसकी जमानत नहीं होती," उनके वकील जेब्रा कांबोले ने दार एस सलाम में अदालत में पेश होने के बाद कहा।

• While Mr. Lissu has been **arrested before** — and **released soon after** — this is the **first time** the Opposition leader has faced such a **serious charge**.

हालांकि श्री लिसु को पहले भी गिरफ्तार किया गया है और जल्द ही रिहा कर दिया गया था — यह पहली बार है जब इस विपक्षी नेता पर इतना गंभीर आरोप लगाया गया है।

• Mr. Kambole added that Mr. Lissu had also been charged with the "**publication of false information**" but did not give details.

श्री कांबोले ने यह भी जोड़ा कि श्री लिसु पर "झूठी जानकारी प्रकाशित करने" का भी आरोप है, लेकिन उन्होंने विवरण नहीं दिया।

• Earlier, **regional police commander Marco Chilya** told reporters the opposition leader was questioned "regarding allegations of **inciting the population to block the general elections**".

इससे पहले, क्षेत्रीय पुलिस कमांडर मार्को चिल्या ने पत्रकारों को बताया कि विपक्षी नेता से "आबादी को भड़काने और आम चुनाव को रोकने के आरोपों" के संबंध में पूछताछ की गई थी।

• **Tanzanian human rights lawyer Tito Magoti** said on X the "plan is to dump him in jail for **President Suluhu** to party without opposition."

**Address : 3rd Floor, KV Tower, Padleyganj Road, Gorakhpur**  
**Email Id : info@patrioticias.in**  
**Contact Number : 9971932488**  
**Website : patrioticias.in**



तंजानियाई मानवाधिकार वकील टीटो मगोती ने X (ट्विटर) पर कहा कि “योजना यह है कि उन्हें जेल में डाल दिया जाए ताकि राष्ट्रपति सुलुहू बिना विपक्ष के उत्सव मना सकें।”

• Tanzania is scheduled to hold **presidential and National Assembly elections in October**. President Hassan’s party Chama Cha Mapinduzi (CCM) swept local elections last year.

तंजानिया में अक्टूबर में राष्ट्रपति और नेशनल असेंबली चुनाव होने वाले हैं। राष्ट्रपति हसन की पार्टी चामा चा मापिंदुजी (CCM) ने पिछले वर्ष के स्थानीय चुनावों में जीत हासिल की थी।

• **Chadema** said the elections had been **manipulated**, and would **petition the High Court** to demand **reforms** ahead of the **upcoming polls**.

चडेमा ने कहा कि चुनावों में धांधली की गई थी और वह उच्च न्यायालय में याचिका दायर करेगा ताकि आगामी चुनावों से पहले सुधारों की मांग की जा सके।

• Mr. Lissu warned **last year** Chadema would “**block the elections through confrontation**” unless the **electoral system** was **reformed**.

श्री लिसु ने पिछले साल चेतावनी दी थी कि अगर चुनावी प्रणाली में सुधार नहीं हुआ तो चडेमा “टकराव के जरिए चुनावों को रोक देगा।”

• The **opposition’s demands** have long been **ignored** by the **ruling party**.

विपक्ष की मांगों को लंबे समय से सत्तारूढ़ पार्टी द्वारा नजरअंदाज किया जाता रहा है।

## **SYDNEY**

### Palau stands with Taiwan ‘until death do us part’, says President



**GS Paper I: Mapping**

AFP

Pacific nation Palau will not cave to diplomatic pressure from China and will remain an ally of Taiwan “until death do us part”, President Surangel Whipps said in Sydney. One of the few remaining nations to recognise Taiwan’s claim to statehood, Palau has repeatedly risked Beijing’s ire by refusing to reverse its stance. AFP



## SANTO DOMINGO

# Toll in roof collapse at a nightclub in Dominican Republic rises to 218



**GS Paper I: Mapping**

AP

The toll in a roof collapse at an iconic nightclub in the Dominican Republic surged to 218 on Thursday, an official said. Crews at the scene were still looking for victims and potential survivors, although no one has been found alive since Tuesday afternoon. "We've practically combed through ground zero," the official added. AP

## PANAMA CITY

# U.S. Defence Secretary moots plan for troops to 'revive' Panama bases



**GS Paper I: Mapping**

AP

U.S. Defence Secretary Pete Hegseth floated the idea of U.S. troops returning to Panama to "secure" its canal, a suggestion quickly shot down by the Central American country's government. He suggested during a visit to Panama that "by invitation" the U.S. could "revive" military bases to an isthmus it invaded 35 years ago. AFP

# Even as anti-corruption protests rage, rural Serbia has not turned on Vucic

President Aleksandar Vucic's SNS party draws its hard-core support from smaller towns and rural areas; a poll in February found that a third of people questioned were against the protests months of marches seeking a fairer system culminated in the biggest protests in decades last month

**GS Paper I: Mapping**  
 Agence France-Presse  
 PECINCI

Serbian President Aleksandar Vucic is rallying supporters in Belgrade on Saturday, claiming the country's peace and stability is threatened by months of protests against him.

The Balkan nation has been rocked by mounting unrest since November, when 16 people died in the collapse of the newly renovated Novi Sad station – a tragedy widely blamed on corruption and poor oversight.

Hundreds of thousands have marched for months against corruption and in favour of a fairer system culminating in the biggest protests in decades last month. But Mr. Vucic, who had dominated Serbian politics since his party came to power in 2012, wants to prove that a large chunk of the country is still behind him.

His ruling Serbian Progressive Party (SNS) controls much of Serbia, and claims to have 7,000,000 members – a massive one in nine of the country's population.

**Support undiminished**  
 The people of Pecinci, a village 50 km northwest of Belgrade, voted overwhelmingly for the SNS in the local elections in June. And that support seems undiminished by the demonstrations.



**Facing the heat:** Aleksandar Vucic wants to prove that a large chunk of the country is still behind him. The Balkan nation has been rocked by mounting unrest since November, when 16 people died in the collapse of the newly renovated Novi Sad train station. AP/FP



among women than men, and stronger among those with a lower level of education." A 66-year-old woman who gave her name as Angelina said she did not understand what the protesters were complaining about.

"To me, all politicians seem the same," said Marija Vidakovic, a healthcare worker. "But if you ask whether I support the President, I do," she said proudly.

"Peace, that's what I value. That we are safe, not at war, and don't have to worry about bombings or everything we have already been through," she said, referring to the 1999 NATO bombing of the country that put an end to the war in Kosovo, a trauma still very present in Serbia.

And she took a dim view of the anti-corruption protests.

"It affects people who have nothing to do with all this, ordinary people who just want to live their lives, but cannot," she said.

Her neighbour, Srdjanika, in her late 60s, shared the sentiment. "All this circus in the streets, the blockades... it's chaos," she complained. "Public transport does not work," she said, with protesters often blocking streets in cities across the country.

"I'm against the students, but also against Vucic," she added quickly, saying "they are all paid by the West anyway."

**Rural strongholds**  
 A CIPA poll in February found that a third of people questioned were against the protests.

The SNS draws its hard-core support from smaller towns and rural areas, said Bojan Klacar, director of the Centre for Free Elections and Democracy (CESED), an independent election monitoring group.

Support for Mr. Vucic's centre-right, nationalist party comes mainly from the retired and the over 60s, he said.

"It is slightly higher among women than men, and stronger among those with a lower level of education."

A 66-year-old woman who gave her name as Angelina said she did not understand what the protesters were complaining about.

"I have a warm room, running water, meat on the table... I'm content with my life," she said.

"You (young people), what is it that you want?" Part of Ms. Vucic's appeal comes from his showcasing of his claimed achievements on bread and butter issues, Mr. Klacar said. "Investments in

small towns, wage increases, job creation... Unlike the rule of law or other values that may seem abstract, infrastructure is highly visible," the researcher said.

**Clientelism**  
 But he also benefits from the clientelism structure of his catch-all party.

"A large number of people receive direct, tangible benefits through party membership or jobs in state institutions or public enterprises, and are tied to the party through clientelism," Mr. Klacar said.

Serbian politics is increasingly polarising, the expert said, in two opposing blocs.

"Those who supported Vucic do so even more hardened their views, Mr. Klacar said.

"Those who supported Vucic do so even more hardened their views, Mr. Klacar said.

"We don't need better ones – well, we do, but it's not going to happen. So, it is what it is."



## Tanzanian Opposition leader Lissu charged with treason following arrest

**GS Paper I: Mapping**

**Agence France-Presse**  
DAR ES SALAAM

Tanzania's main Opposition leader Tundu Lissu was charged on Thursday with treason, which carries the death penalty, a day after being detained following a rally, one of his lawyers said.

The east African nation has increasingly cracked down on its Opposition, with Mr. Lissu's Chadema party accusing President Samia Suluhu Hassan of returning to the repressive tactics of her predecessor months before October's general election.

Mr. Lissu and other party members were detained on Wednesday after attending a rally in Mbinga, a town in the southern Ruvuma region, where Chadema said police officers dispersed the crowds with tear gas.



**Tough times:** Chadema Party leader Tundu Lissu arrives at the magistrate's court in Dar es Salaam on Thursday. AFP

"Lissu has been charged with treason which has no bail," one of his lawyers Jebra Kambole said following his appearance in court in the economic capital Dar es Salaam.

While Mr. Lissu has been arrested before – and released soon after – this is the first time the Opposition leader has faced such

a serious charge.

Mr. Kambole added that Mr. Lissu had also been charged with the "publication of false information" but did not give details.

Earlier, regional police commander Marco Chilya told reporters the opposition leader was questioned "regarding allegations of inciting the population to

block the general elections".

Tanzanian human rights lawyer Tito Magoti said on X the "plan is to dump him in jail for President Suluhu to party without opposition."

Tanzania is scheduled to hold presidential and National Assembly elections in October. President Hassan's party Chama Cha Mapinduzi (CCM) swept local elections last year.

Chadema said the elections had been manipulated, and would petition the High Court to demand reforms ahead of the upcoming polls.

Mr. Lissu warned last year Chadema would "block the elections through confrontation" unless the electoral system was reformed.

The opposition's demands have long been ignored by the ruling party.



**Economic twilight:** A bus is silhouetted next to the Club de Pescadores (Fishermen's Club) on the shore of the Rio de la Plata River during a 24-hour strike of all transportation, except buses, called by workers' unions against the economic policies of President Javier Milei in Buenos Aires on Thursday. The general strike started at midnight as Mr. Milei awaits word on a fresh IMF loan. AFP



**GS Paper I: Tribes**

New Zealand MPs celebrate after Parliament rejected 112 to 11 a vote on the Principles of the Treaty of Waitangi Bill on Thursday. The Bill was perceived as an attempt to wind back the special rights given to the country's 9,00,000-strong Indigenous Maori population. AP



**TELEGRAM CHANNEL:** <https://t.me/patrioticIAS>

**YOUTUBE CHANNEL:** <https://www.youtube.com/@PatrioticIAS>

**CONTACT: 9971932488**



**TOPICS COVERED GS Paper II: Polity, Governance, and International Relations)**

- 1. RTI Act will not restrict disclosure, says Minister**  
सूचना का अधिकार अधिनियम खुलासे को सीमित नहीं करेगा, मंत्री का कहना
- 2. India's decision to cancel transshipment facility won't affect Bangladesh: official**  
भारत के ट्रांसशिपमेंट सुविधा रद्द करने के फैसले से बांग्लादेश पर असर नहीं पड़ेगा: अधिकारी
- 3. Centre to pay more for PM-POSHAN scheme in schools**  
स्कूलों में पीएम-पोषण योजना के लिए केंद्र अधिक भुगतान करेगा
- 4. SC judgment on T.N. Governor addresses a Constitutional silence**  
तमिलनाडु के राज्यपाल पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला एक संवैधानिक चुप्पी को संबोधित करता है
- 5. The issue with delimitation's population-based process**  
जनसंख्या-आधारित परिसीमन प्रक्रिया से जुड़ी समस्या
- 6. Are existing mechanisms effective in combating judicial corruption?**  
क्या वर्तमान तंत्र न्यायिक भ्रष्टाचार से निपटने में प्रभावी हैं?
- 7. When Parliament stayed awake through the night**  
जब संसद ने रात भर जग कर काम किया
- 8. Democracies in decline**  
लोकतंत्र का पतन



# RTI Act will not restrict disclosure, says Minister

GS Paper II

**Aroon Deep**  
NEW DELHI

The upcoming amendment to the Right to Information Act, 2005, will maintain “the need for transparency in public life”, and will “not restrict disclosure of personal information”, Union Minister for Electronics and Information Technology Ashwini Vaishnaw said in a letter to Congress leader Jairam Ramesh on Thursday.

Mr. Ramesh had raised civil society concern that the Digital Personal Data Protection Act’s amendments to the RTI Act would allow the government to deny information on subsidy allocations and other

schemes if the personal information of citizens and officials are involved.

The amendment – which will kick in when the DPDP Rules are notified in the coming weeks to enforce the Act – will be a significant blow to the RTI Act, according to activists. Civil society groups, spanning the gamut from digital rights advocates to pro-transparency outfits, have raised an alarm over this amendment for years. Over 120 Opposition MPs have now signed a letter to Mr. Vaishnaw, seeking a repeal of the amendment.

In his letter defending the amendment, Mr. Vaishnaw cited the Supreme Court’s right to privacy judgment in 2017, which



Ashwini Vaishnaw

held the right to informational privacy as fundamental right under Article 21 of the Constitution. There is a “need for harmonious provisions between the right to information and the right to privacy” laws, he said.

However, activists say that this balance has already

been achieved in the RTI Act. Section 8(l)(j), the exemption for personal information that is in the existing version of the RTI law, “was very nuanced because it stopped any vicarious seeking of information,” said Anjali Bhardwaj, co-convenor of the National Campaign for the People’s Right to Information (NCPRI). She noted that “there was a lot of care that was taken to balance out the right to privacy and the right to information” even before the law was finalised in 2005.

Ms. Bhardwaj said on Thursday that Mr. Vaishnaw’s response “does not acknowledge the amendments”, which “will severely curtail people’s

right to access information that they need to expose corruption and abuse of power and to hold governments accountable.”

Another RTI amendment in the DPDP Act deletes a provision that states that “any information that cannot be denied to the Parliament and State legislature cannot be denied to citizens.” Mr. Vaishnaw’s response is silent on that front too, Ms. Bhardwaj said.

Mr. Vaishnaw said that information that is specifically required to be disclosed “under legal obligations” would continue to be disclosed, insisting that the amendments were carried out to “prevent potential misuse of the law”.

## RTI Act will not restrict disclosure, says Minister

**सूचना का अधिकार अधिनियम खुलासे को सीमित नहीं करेगा, मंत्री का कहना**

The upcoming amendment to the Right to Information Act, 2005, will maintain “the need for transparency in public life”, and will “not restrict disclosure of personal information”, Union Minister for Electronics and Information Technology Ashwini Vaishnaw said in a letter to Congress leader Jairam Ramesh on Thursday.

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 में प्रस्तावित संशोधन "सार्वजनिक जीवन में पारदर्शिता की आवश्यकता" बनाए रखेगा और "व्यक्तिगत जानकारी के खुलासे को सीमित नहीं करेगा", यह बात केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुरुवार को कांग्रेस नेता जयराम रमेश को एक पत्र में कही।

- Mr. Ramesh had raised civil society concern that the **Digital Personal Data Protection Act’s amendments to the RTI Act** would allow the government to deny information on subsidy allocations and other schemes if the personal information of



citizens and officials are involved.

श्री रमेश ने नागरिक समाज की चिंता जताई कि डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम के आरटीआई अधिनियम में संशोधन से सरकार सब्सिडी आवंटन और अन्य योजनाओं से जुड़ी जानकारी नागरिकों और अधिकारियों की व्यक्तिगत जानकारी के नाम पर नकार सकती है।

- The amendment — which will kick in when the **DPDP Rules are notified** in the coming weeks to enforce the Act — will be a **significant blow to the RTI Act**, according to activists.

यह संशोधन — जो आने वाले हफ्तों में **DPDP नियमों के अधिसूचित** होने पर प्रभावी होगा — आरटीआई अधिनियम को एक बड़ा झटका होगा, ऐसा कार्यकर्ताओं का कहना है।

- **Civil society groups**, spanning the gamut from **digital rights advocates** to **pro-transparency outfits**, have raised an alarm over this amendment for **years**.  
डिजिटल अधिकारों के पैरोकारों से लेकर पारदर्शिता समर्थक संगठनों तक, नागरिक समाज के समूहों ने इस संशोधन को लेकर वर्षों से चिंता व्यक्त की है।

- Over **120 Opposition MPs** have now signed a letter to Mr. Vaishnav, seeking a **repeal of the amendment**.

अब तक **120 से अधिक विपक्षी सांसदों** ने श्री वैष्णव को एक पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें **संशोधन को वापस लेने** की मांग की गई है।

- In his letter defending the amendment, Mr. Vaishnav cited **the Supreme Court's right to privacy judgment in 2017**, which held the **right to informational privacy as a fundamental right under Article 21 of the Constitution**.

संशोधन का बचाव करते हुए अपने पत्र में श्री वैष्णव ने **2017 में सुप्रीम कोर्ट के गोपनीयता के अधिकार के फैसले** का हवाला दिया, जिसमें **सूचनात्मक गोपनीयता के अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार** बताया गया।

- There is a **"need for harmonious provisions** between the **right to information** and the **right to privacy**" laws, he said.

उन्होंने कहा कि **"सूचना के अधिकार और गोपनीयता के अधिकार"** के बीच **संतुलित प्रावधानों की आवश्यकता** है।

- However, activists say that this **balance has already been achieved** in the RTI Act. हालांकि, कार्यकर्ताओं का कहना है कि यह **संतुलन पहले ही आरटीआई अधिनियम में प्राप्त** किया जा



चुका है।

- **Section 8(1)(j)**, the exemption for personal information in the existing RTI law, “was very nuanced because it stopped any vicarious seeking of information,” said Anjali Bhardwaj, co-convenor of the National Campaign for the People’s Right to Information (NCPRI).  
मौजूदा आरटीआई कानून की धारा 8(1)(j), जो व्यक्तिगत जानकारी से छूट देती है, “बहुत सूक्ष्म” थी क्योंकि यह “परोक्ष रूप से जानकारी लेने की कोशिशों” को रोकती थी, ऐसा कहना है राष्ट्रीय जन अधिकार अभियान (NCPRI) की सह-संयोजक अंजलि भारद्वाज का।
- She noted that “there was a lot of care that was taken to balance out the right to privacy and the right to information” even before the law was finalised in 2005.  
उन्होंने कहा कि “2005 में कानून को अंतिम रूप देने से पहले ही गोपनीयता और सूचना के अधिकार के बीच संतुलन बनाए रखने की बहुत सावधानी बरती गई थी।”
- Ms. Bhardwaj said on Thursday that Mr. Vaishnav’s response “does not acknowledge the amendments”, which “will severely curtail people’s right to access information that they need to expose corruption and abuse of power and to hold governments accountable.”  
गुरुवार को सुश्री भारद्वाज ने कहा कि श्री वैष्णव की प्रतिक्रिया “संशोधनों को स्वीकार नहीं करती”, जो “लोगों की भ्रष्टाचार उजागर करने, सत्ता के दुरुपयोग को सामने लाने और सरकार को जवाबदेह ठहराने के लिए आवश्यक सूचना तक पहुंच के अधिकार को गंभीर रूप से सीमित कर देगी।”
- Another RTI amendment in the DPDP Act deletes a provision that states that “any information that cannot be denied to the Parliament and State legislature cannot be denied to citizens.”  
DPDP अधिनियम में एक अन्य आरटीआई संशोधन ने उस प्रावधान को हटा दिया है जिसमें कहा गया था कि “कोई भी जानकारी जो संसद और राज्य विधानमंडल को नहीं नकारा जा सकता, उसे नागरिकों को भी नहीं नकारा जा सकता।”
- Mr. Vaishnav’s response is silent on that front too, Ms. Bhardwaj said.  
सुश्री भारद्वाज ने कहा कि श्री वैष्णव की प्रतिक्रिया में इस महत्वपूर्ण पहलू का कोई उल्लेख नहीं है।
- Mr. Vaishnav said that information that is specifically required to be disclosed under legal obligations would continue to be disclosed, insisting that the amendments were carried out to “prevent potential misuse of the law”.



श्री वैष्णव ने कहा कि ऐसी जानकारी जिसे कानूनी दायित्वों के तहत विशेष रूप से खुलासा करना अनिवार्य है, उसका खुलासा जारी रहेगा, और यह संशोधन "कानून के संभावित दुरुपयोग को रोकने" के लिए किए गए हैं।

## Central Information Commission (CIC)

### केंद्रीय सूचना आयोग (CIC)

The Central Information Commission (CIC) is a statutory body established under the Right to Information (RTI) Act, 2005, effective from October 12, 2005.

केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) एक वैधानिक निकाय है जिसे सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम, 2005 के तहत स्थापित किया गया, जो 12 अक्टूबर 2005 से प्रभावी हुआ।

Its primary role is to act upon complaints from individuals who have been unable to submit information requests to a Central Public Information Officer or State Public Information Officer, either due to the absence of such officers or their refusal to accept the application.

इसका मुख्य कार्य उन व्यक्तियों की शिकायतों पर कार्रवाई करना है जो किसी केंद्रीय या राज्य लोक सूचना अधिकारी को सूचना का अनुरोध नहीं दे पाए, चाहे वह अधिकारियों की अनुपलब्धता के कारण हो या उनके आवेदन स्वीकार करने से इनकार करने के कारण।

The jurisdiction of the Commission extends over all Central Public Authorities.

आयोग का अधिकार क्षेत्र सभी केंद्रीय सार्वजनिक प्राधिकरणों तक फैला हुआ है।

#### Composition of the Commission

##### आयोग की संरचना

- One Chief Information Commissioner (CIC).  
एक मुख्य सूचना आयुक्त (CIC)।
- Not more than ten Information Commissioners (ICs).  
अधिकतम दस सूचना आयुक्त (ICs)।

Appointment Process: The President of India appoints the CIC and ICs based on the recommendations of a committee consisting of:

नियुक्ति प्रक्रिया: भारत के राष्ट्रपति द्वारा एक समिति की सिफारिश पर CIC और ICs की नियुक्ति की जाती है, जिसमें शामिल हैं:



- The Prime Minister as the Chairperson.  
प्रधानमंत्री समिति के अध्यक्ष के रूप में।
- The Leader of Opposition in the Lok Sabha.  
लोकसभा में विपक्ष के नेता।
- A Union Cabinet Minister nominated by the Prime Minister.  
प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय मंत्रिमंडलीय मंत्री।

#### Eligibility Criteria:

##### योग्यता मानदंड:

Appointees should be individuals of eminence in public life with extensive knowledge and experience in fields such as law, science and technology, social service, management, journalism, mass media, or administration and governance.

नियुक्त व्यक्ति सार्वजनिक जीवन में प्रतिष्ठित हों और उन्हें कानून, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, सामाजिक सेवा, प्रबंधन, पत्रकारिता, जनसंचार या प्रशासन और शासन जैसे क्षेत्रों में व्यापक ज्ञान और अनुभव हो।

They should not be Members of Parliament or Members of the Legislature of any State or Union Territory, hold any other office of profit, be connected with any political party, or carry on any business or pursue any profession.

वे सांसद, किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा के सदस्य, लाभ के किसी अन्य पद पर, किसी राजनीतिक दल से संबद्ध, या किसी व्यवसाय या पेशे में संलग्न नहीं होने चाहिए।

#### Tenure and Service Conditions

##### कार्यकाल और सेवा शर्तें

Term Duration: Initially, under the RTI Act of 2005, the CIC and ICs held office for a term of five years or until they attained the age of 65 years, whichever was earlier.

However, the Right to Information (Amendment) Act, 2019 revised this provision, and the term is now determined by the Central Government.

कार्यकाल की अवधि: प्रारंभ में, RTI अधिनियम 2005 के तहत, CIC और ICs का कार्यकाल पाँच वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक (जो भी पहले हो) तय था।

लेकिन RTI (संशोधन) अधिनियम, 2019 के तहत इसे संशोधित किया गया और अब कार्यकाल केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है।

#### Salary and Allowances:

##### वेतन और भत्ते:

- The Chief Information Commissioner receives a fixed pay of ₹2,50,000 per month.  
मुख्य सूचना आयुक्त को ₹2,50,000 प्रति माह का नियत वेतन मिलता है।



- An Information Commissioner receives a fixed pay of ₹2,25,000 per month.  
सूचना आयुक्त को ₹2,25,000 प्रति माह का नियत वेतन मिलता है।

If the CIC or ICs are receiving any pension from previous government service, their pay is reduced by the amount of that pension.

यदि CIC या ICs को पहले की सरकारी सेवा से कोई पेंशन मिल रही हो, तो उनका वेतन उस पेंशन की राशि से कम कर दिया जाता है।

**Retirement from Parent Service:** Upon appointment, if the CIC or ICs were serving in the Central or State Government, they are deemed to have retired from that service with effect from the date of their appointment.

मूल सेवा से सेवानिवृत्ति: नियुक्ति के समय यदि CIC या ICs केंद्र या राज्य सरकार में सेवा कर रहे हों, तो उन्हें नियुक्ति की तिथि से उस सेवा से सेवानिवृत्त माना जाता है।

## Removal Procedures

### हटाने की प्रक्रियाएँ

The President can remove the **Chief Information Commissioner (CIC)** or any **Information Commissioner (IC)** under the following circumstances:

राष्ट्रपति निम्नलिखित परिस्थितियों में **मुख्य सूचना आयुक्त (CIC)** या किसी भी **सूचना आयुक्त (IC)** को हटा सकते हैं:

- **Proven Misbehavior or Incapacity:** After an inquiry conducted by the **Supreme Court**, if the Court reports that the CIC or IC should be removed on such grounds.
- **सिद्ध दुर्व्यवहार या अक्षमता:** यदि **सुप्रीम कोर्ट** द्वारा की गई जांच के बाद यह रिपोर्ट दी जाती है कि CIC या IC को इस आधार पर हटाया जाना चाहिए।
- **Specific Grounds for Removal:**
  - **हटाने के विशिष्ट आधार:**
    - If **adjudged insolvent**.
    - यदि किसी को **दिवालिया घोषित** किया गया हो।
    - **Conviction** of an offense involving **moral turpitude**.
    - यदि **नैतिक पतन** से संबंधित किसी अपराध में **दोषी ठहराया** गया हो।
    - Engaging in any **paid employment** outside the duties of the office during the term.
    - कार्यकाल के दौरान कार्यालय के कर्तव्यों के अलावा किसी **वेतनयुक्त कार्य** में संलग्न होना।



o If deemed **unfit to continue** in office due to **infirmity of mind or body**.

o यदि शारीरिक या मानसिक दुर्बलता के कारण पद पर बने रहने के अयोग्य माने जाएँ।

o Acquiring **financial or other interests** that are likely to **affect prejudicially** official functions.

o यदि किसी आर्थिक या अन्य स्वार्थ को प्राप्त किया जाए जो आधिकारिक कार्यों को हानि पहुँचाने की संभावना रखता हो।

In cases of proven misbehavior or incapacity, the **President may suspend** the CIC or IC **during the inquiry**.

सिद्ध दुर्व्यवहार या अक्षमता के मामलों में, जांच के दौरान राष्ट्रपति CIC या IC को निलंबित कर सकते हैं।

### Powers and Functions

#### शक्तियाँ और कार्य

The CIC has several **key responsibilities**:

CIC की कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियाँ होती हैं:

• **Adjudication in Second Appeals**: It addresses **second appeals** for information requests.

• द्वितीय अपीलों पर निर्णय: यह सूचना अनुरोधों की द्वितीय अपीलों को सुलझाता है।

• **Complaint Handling**: It **entertains complaints** regarding the inability to file RTI requests, directs **record-keeping**, and ensures **suo motu disclosures**.

• शिकायत निवारण: यह RTI आवेदन दायर करने में असमर्थता से संबंधित शिकायतों को सुनता है, रिकॉर्ड रखने का निर्देश देता है और स्वतः प्रकटीकरण सुनिश्चित करता है।

• **Imposition of Penalties**: The Commission can **impose penalties** on Public Information Officers who **fail to provide information** without reasonable cause.

• दंड लगाना: आयोग उन जन सूचना अधिकारियों पर दंड लगा सकता है जो उचित कारण के बिना जानकारी प्रदान करने में विफल रहते हैं।

• **Monitoring and Reporting**: It **monitors** the implementation of the **RTI Act** and prepares **annual reports** on its functioning.

• निगरानी और रिपोर्टिंग: यह RTI अधिनियम के कार्यान्वयन की निगरानी करता है और इसके कार्यों पर वार्षिक रिपोर्ट तैयार करता है।

### Recent Developments

#### हालिया विकास

• **Amendments to the RTI Act**: The **Right to Information (Amendment) Act, 2019** brought **significant changes**, including:



• RTI अधिनियम में संशोधन: सूचना का अधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2019 ने महत्वपूर्ण परिवर्तन किए, जिनमें शामिल हैं:

o The **tenure** of the CIC and ICs is now **determined by the Central Government**, replacing the earlier **fixed five-year term**.

o CIC और ICs का कार्यकाल अब केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है, जबकि पहले यह पांच वर्ष के निश्चित कार्यकाल का था।

o The **salaries, allowances**, and other **service conditions** are also **determined by the Central Government**, removing the earlier equivalence to the **Chief Election Commissioner and Election Commissioners**.

o उनकी वेतन, भत्ते, और अन्य सेवा शर्तें अब केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित की जाती हैं, जिससे उन्हें पहले की तरह मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों के समकक्ष नहीं माना जाता।

These amendments have been a topic of **debate among activists and stakeholders**, with concerns about the **potential impact** on the **independence and autonomy** of the Commission.

इन संशोधनों को लेकर कार्यकर्ताओं और संबंधित पक्षों में बहस हुई है, क्योंकि इससे आयोग की स्वतंत्रता और स्वायत्तता पर प्रभाव पड़ने की आशंका जताई गई है।

- As of now, Heeralal Samariya is the **Chief Information Commissioner of India**.
  - o नवंबर 2025 तक, हीरालाल सामरिया भारत के मुख्य सूचना आयुक्त हैं।



# India's decision to cancel transshipment facility won't affect Bangladesh: official

**GS paper II: India-Bangladesh**

**Press Trust of India**

DHAKA

Bangladesh interim government's Commerce Adviser Sheikh Bashir Uddin on Thursday said his country would not face any problems due to the cancellation of trans-shipment facilities by India and Dhaka would try to overcome the situation on its own.

His remarks came a day after India on Wednesday announced the withdrawal of the transshipment facility it had granted to Bangladesh for exporting various items to West Asia, Europe and various other countries, except Nepal and Bhutan.

"Just yesterday, discussions were held with business representatives from various sectors; even buyers were present. We will attempt to overcome



Sheikh Bashir Uddin

the crisis through our arrangements," Mr. Bashir Uddin was quoted as saying by the Bangla language newspaper *Prothom Alo*.

He said Bangladesh was working to ensure that there was no deficiency in competitiveness through its capabilities.

"Commercial capacity will be enhanced. Simultaneously, steps are being taken to ensure that there are no shortcomings in

connectivity either," he said responding to questions from journalists.

Asked what measures would be taken following this development, Mr. Bashir Uddin said: "There are some issues related to infrastructure while there are some issues related to increased costs – we are working on these matters. We are hopeful that the challenges can be overcome."

Asked whether Bangladesh plans to send a formal letter to India regarding the cancellation, the Commerce Adviser said: "At present, the matter of sending a letter is not under consideration." "Since the United States has suspended additional tariffs for three months, this provides an immediate relief and allows time for further discussions," he added.

**India's decision to cancel transshipment facility won't affect Bangladesh: official**

**भारत के ट्रांसशिपमेंट सुविधा रद्द करने के फैसले से बांग्लादेश पर असर नहीं पड़ेगा: अधिकारी**



Bangladesh interim government's Commerce Adviser Sheikh Bashir Uddin on Thursday said his country would not face any problems due to the **cancellation of trans-shipment facilities by India** and Dhaka would try to overcome the situation on its own.

बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के वाणिज्य सलाहकार शेख बशीर उद्दीन ने गुरुवार को कहा कि भारत द्वारा ट्रांस-शिपमेंट सुविधा रद्द करने से उनके देश को कोई समस्या नहीं होगी और ढाका इस स्थिति से स्वयं निपटने का प्रयास करेगा।

- His remarks came a day after **India on Wednesday announced the withdrawal of the transshipment facility** it had granted to **Bangladesh** for exporting various items to **West Asia, Europe** and various other countries, except **Nepal and Bhutan**.  
उनके बयान एक दिन बाद आए जब **भारत ने बुधवार को ट्रांसशिपमेंट सुविधा को वापस लेने की घोषणा** की, जो **बांग्लादेश को पश्चिम एशिया, यूरोप और अन्य देशों (सिवाय नेपाल और भूटान)** में वस्तुएं निर्यात करने के लिए दी गई थी।
- "Just yesterday, discussions were held with business representatives from various sectors; even buyers were present. We will attempt to overcome the crisis through our arrangements," Mr. Bashir Uddin was quoted as saying by the **Bangla language newspaper Prothom Alo**.  
**बांग्ला भाषा के अखबार 'प्रथम आला'** के अनुसार, बशीर उद्दीन ने कहा, "बस कल ही विभिन्न क्षेत्रों के व्यापार प्रतिनिधियों के साथ चर्चा हुई; यहां तक कि खरीदार भी उपस्थित थे। हम अपने व्यवस्थाओं के माध्यम से इस संकट से निपटने का प्रयास करेंगे।"
- He said **Bangladesh** was working to ensure that **there was no deficiency in competitiveness through its capabilities**.  
उन्होंने कहा कि **बांग्लादेश** यह सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहा है कि उसकी **प्रतिस्पर्धात्मकता में कोई कमी न आए**।
- "**Commercial capacity** will be enhanced. Simultaneously, steps are being taken to ensure that there are no shortcomings in **connectivity** either," he said responding to questions from journalists.  
उन्होंने पत्रकारों के सवालों के जवाब में कहा, "**वाणिज्यिक क्षमता** को बढ़ाया जाएगा। साथ ही यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं कि **कनेक्टिविटी** में भी कोई कमी न रहे।"



- Asked what measures would be taken following this development, Mr. Bashir Uddin said: “There are some issues related to **infrastructure** while there are some issues related to **increased costs** — we are working on these matters. We are hopeful that the **challenges can be overcome.**”  
जब उनसे पूछा गया कि इस विकास के बाद क्या कदम उठाए जाएंगे, तो बशीर उद्दीन ने कहा: “कुछ मुद्दे **इन्फ्रास्ट्रक्चर** से जुड़े हैं, जबकि कुछ **बढ़ती लागत** से — हम इन मुद्दों पर काम कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि **चुनौतियों पर काबू पाया जा सकता है।**”
- Asked whether **Bangladesh** plans to send a **formal letter to India** regarding the cancellation, the Commerce Adviser said: “At present, the matter of sending a letter is not under consideration.”  
जब उनसे पूछा गया कि क्या **बांग्लादेश** इस रद्दीकरण के संबंध में भारत को **औपचारिक पत्र** भेजने की योजना बना रहा है, तो वाणिज्य सलाहकार ने कहा: “फिलहाल पत्र भेजने का मुद्दा विचाराधीन नहीं है।”
- “Since the **United States** has **suspended additional tariffs for three months**, this provides an immediate relief and allows time for further discussions,” he added.  
उन्होंने आगे कहा: “चूंकि **संयुक्त राज्य अमेरिका** ने **तीन महीने के लिए अतिरिक्त टैरिफ को स्थगित** कर दिया है, इससे तत्काल राहत मिलती है और आगे की चर्चा के लिए समय मिलता है।”

PATRIOTIC IAS



## Centre to pay more for PM-POSHAN scheme in schools

**GS Paper II:**  
**Government Scheme**  
NEW DELHI

The material cost for cooking hot meals in schools under the PM-POSHAN scheme has been enhanced by 9.5%, considering the inflation index, causing an additional cost of ₹954 crore to the exchequer in the financial year 2025-26, the Education Ministry said in a statement on Thursday.

In Bal Vatikas and primary schools, the daily material cost for a student will be raised from ₹6.19 to ₹6.78 from May 1, and in upper primary schools, from ₹9.29 to ₹10.17.

"These rates of material cost are the minimum mandatory rates, however, States/UTs [Union Territories] are free to contribute more than their prescribed share, as some States/UTs have been contributing more than their minimum mandatory share from their own resources for providing meals with augmented nutrition under the PM POSHAN Scheme," the Ministry said.

Bal Vatika and primary students are provided 20 gm of pulses, 50 gm of vegetables and 5 gm of oil, while upper primary students need 30 gm, 75 gm, and 7.5 gm, respectively.

The Centrally spon-



States are free to contribute more than their prescribed share, the Ministry said.

sored scheme serves one hot-cooked meal to 11.2 crore students studying in Bal Vatikas and from Classes 1 to 8 in 10.36 lakh government and aided schools on all school-days. The scheme aims at providing nutritional support and enhancing school participation of students.

The Centre also provides about 26 lakh tonnes of foodgrains through the Food Corporation of India. It bears 100% cost of foodgrains, including subsidy of approximately ₹9,000 crore a year, and 100% transportation cost from the FCI depot to schools. The per-meal cost, after adding all components including food grains cost, comes to approximately ₹12.13 for Bal Vatika and primary classes and ₹17.62 for upper primary.

## Centre to pay more for PM-POSHAN scheme in schools

स्कूलों में पीएम-पोषण योजना के लिए केंद्र अधिक भुगतान करेगा

The material cost for cooking hot meals in schools under the PM-POSHAN scheme has been enhanced by 9.5%, considering the inflation index, causing an additional cost of ₹954 crore to the exchequer in the financial year 2025-26, the **Education Ministry** said in a statement on Thursday.

स्कूलों में पीएम-पोषण योजना के तहत गर्म भोजन पकाने की सामग्री लागत को मुद्रास्फीति सूचकांक को ध्यान में रखते हुए 9.5% बढ़ाया गया है, जिससे वित्त वर्ष 2025-26 में सरकारी खजाने पर ₹954 करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा, यह जानकारी शिक्षा मंत्रालय ने गुरुवार को एक बयान में दी।

• In Bal Vatikas and primary schools, the daily material cost per student will be raised from ₹6.19 to ₹6.78 from May 1, and in upper primary schools, from ₹9.29 to ₹10.17.

बाल वाटिका और प्राथमिक विद्यालयों में प्रति छात्र दैनिक सामग्री लागत को 1 मई से ₹6.19 से बढ़ाकर ₹6.78 कर दिया जाएगा, और उच्च

प्राथमिक विद्यालयों में यह ₹9.29 से बढ़ाकर ₹10.17 कर दी जाएगी।

- "These rates of material cost are the **minimum mandatory rates**, however, **States/UTs** are free to contribute more than their prescribed share," the Ministry said.

मंत्रालय ने कहा, "ये सामग्री लागत की न्यूनतम अनिवार्य दरें हैं, हालांकि राज्य/केंद्र शासित प्रदेश अपने निर्धारित हिस्से से अधिक योगदान देने के लिए स्वतंत्र हैं।"



- “Some **States/UTs** have been contributing more than their **minimum mandatory share** from their own resources for providing meals with **augmented nutrition** under the **PM POSHAN Scheme**,” the Ministry added.  
मंत्रालय ने आगे कहा कि कुछ राज्य/केंद्र शासित प्रदेश पीएम पोषण योजना के तहत सुदृढ़ पोषण के साथ भोजन प्रदान करने के लिए अपने स्वयं के संसाधनों से अपनी न्यूनतम अनिवार्य हिस्सेदारी से अधिक योगदान दे रहे हैं।
- **Bal Vatika** and **primary students** are provided **20 gm of pulses, 50 gm of vegetables and 5 gm of oil**, while **upper primary students** need **30 gm, 75 gm, and 7.5 gm**, respectively.  
बाल वाटिका और प्राथमिक छात्र को 20 ग्राम दाल, 50 ग्राम सब्जियां और 5 ग्राम तेल दिया जाता है, जबकि उच्च प्राथमिक छात्रों को क्रमशः 30 ग्राम, 75 ग्राम, और 7.5 ग्राम की आवश्यकता होती है।
- The **Centrally sponsored scheme** serves **one hot-cooked meal to 11.2 crore students** studying in **Bal Vatikas** and from **Classes 1 to 8** in **10.36 lakh government and aided schools** on all school-days.  
यह केंद्रीय प्रायोजित योजना 11.2 करोड़ छात्रों को, जो बाल वाटिका और कक्षा 1 से 8 तक 10.36 लाख सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में पढ़ते हैं, सभी स्कूल दिनों में एक गर्म पका हुआ भोजन प्रदान करती है।
- The scheme aims at **providing nutritional support and enhancing school participation** of students.  
इस योजना का उद्देश्य छात्रों को पोषण संबंधी समर्थन प्रदान करना और उनकी स्कूल भागीदारी को बढ़ाना है।
- The **Centre** also provides about **26 lakh tonnes of foodgrains** through the **Food Corporation of India (FCI)**.  
केंद्र सरकार भारतीय खाद्य निगम (FCI) के माध्यम से लगभग 26 लाख टन खाद्यान्न भी उपलब्ध कराती है।
- It bears **100% cost of foodgrains**, including **subsidy of approximately ₹9,000 crore a year**, and **100% transportation cost** from the **FCI depot to schools**.  
यह खाद्यान्न की 100% लागत, जिसमें लगभग ₹9,000 करोड़ प्रति वर्ष की सब्सिडी शामिल है, और एफसीआई डिपो से स्कूलों तक परिवहन की 100% लागत वहन करती है।



- The **per-meal cost**, after adding all components including foodgrains cost, comes to approximately ₹12.13 for **Bal Vatika and primary classes** and ₹17.62 for **upper primary**.

सभी घटकों, जिनमें खाद्यान्न लागत भी शामिल है, को जोड़ने के बाद **प्रति भोजन लागत** लगभग ₹12.13 (बाल वाटिका और प्राथमिक कक्षाओं) और ₹17.62 (उच्च प्राथमिक) आती है।

# SC judgment on T.N. Governor addresses a Constitutional silence

**GS Paper II:  
Parliament**

**NEWS ANALYSIS**

**Krishnadas Rajagopal**  
NEW DELHI

The Supreme Court's deadlines for Governors to decide the fate of Bills sent to them for assent is a bid to plug a "Constitutional silence". The text of the Constitution does not specify any time limits for Governors. This had led Governors in multiple non-BJP-ruled States to sit on Bills.

## 'Real power'

The situation had prevailed despite a November 2023 Supreme Court order in *State of Punjab versus Principal Secretary to the Governor of Punjab* that "real power vests with the elected representatives of the people in a parliamentary form of democracy.



The Governor, as an appointee of the President, is a titular head of the State".

The governments of West Bengal, Tamil Nadu, Punjab and Kerala had continued to accuse their Governors of behaving like "political rivals".

On April 8, a Bench of Justices J.B. Pardiwala and R. Mahadevan declared that failure by Governors to comply with its maximum time limit of three months, if they want to withhold assent or reserve

Bills for the consideration of the President, would invite judicial action.

With this, the April 8 judgment has gone a step further from earlier decisions of the court which had only cajoled Governors to act within a "reasonable time".

A week before this judgment in the Tamil Nadu Governor case, the Supreme Court had made stern remarks against another Constitutional silence which has facilitated Speakers to delay decisions in disqualification proceedings under the anti-defection law.

The remarks came from a Bench headed by Justice B.R. Gavai on April 3, while reserving judgment on appeals challenging the months-long delay shown by the Telangana Speaker to decide disqualification

petitions filed under the anti-defection law (Tenth Schedule of the Constitution) against 10 BRS MLAs who had shifted to the ruling Congress in the State.

## Specific time periods

Justice Gavai said the court would fix "specific time periods" for Speakers, or disqualification petitions may end up in the "dustbins" and the Tenth Schedule would be reduced to a mockery.

The Bench had referred to a 2020 judgment of the Supreme Court in the *Keshab Meghachandra Singh* case in which it had said **disqualification petitions under the Tenth Schedule ought to be decided by Speakers within three months.**

This has largely been followed by Speakers in breach so far.

## SC judgment on T.N. Governor addresses a Constitutional silence

तमिलनाडु के राज्यपाल पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला एक संवैधानिक चुप्पी को संबोधित करता है



- The Supreme Court's **deadlines** for **Governors** to decide the fate of **Bills** sent to them for **assent** is a bid to plug a "**Constitutional silence**".

सुप्रीम कोर्ट द्वारा राज्यपालों के लिए उनके पास अनुमोदन हेतु भेजे गए विधेयकों पर निर्णय लेने की समय सीमा तय करना, एक "संवैधानिक चुप्पी" को दूर करने का प्रयास है।

- The text of the **Constitution** does not specify any **time limits** for **Governors**.  
संविधान के प्रावधानों में राज्यपालों के लिए किसी भी समय सीमा का उल्लेख नहीं है।
- This had led **Governors** in multiple **non-BJP-ruled States** to sit on **Bills**.  
इसके कारण कई गैर-भाजपा शासित राज्यों में राज्यपालों ने विधेयकों को रोके रखा।
- The situation had prevailed despite a **November 2023 Supreme Court order** in *State of Punjab versus Principal Secretary to the Governor of Punjab* that "**real power vests with the elected representatives of the people**".  
यह स्थिति तब भी बनी रही जब नवंबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब राज्य बनाम पंजाब के राज्यपाल के प्रमुख सचिव मामले में कहा कि "वास्तविक शक्ति जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों के पास होती है"।
- The Court said the **Governor**, as an appointee of the **President**, is a **titular head** of the State.  
अदालत ने कहा कि राज्यपाल, जो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होते हैं, राज्य के नाममात्र प्रमुख होते हैं।
- The governments of **West Bengal, Tamil Nadu, Punjab** and **Kerala** had continued to accuse their **Governors** of behaving like "**political rivals**".  
पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, पंजाब और केरल की सरकारें लगातार अपने राज्यपालों पर "राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी" की तरह व्यवहार करने का आरोप लगाती रही हैं।
- On **April 8**, a **Bench of Justices J.B. Pardiwala and R. Mahadevan** declared that failure by **Governors** to comply with its **maximum time limit of three months**, if they want to **withhold assent** or **reserve Bills** for the consideration of the **President**, would invite **judicial action**.  
8 अप्रैल को न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और आर. महादेवन की पीठ ने कहा कि यदि राज्यपाल तीन महीने की अधिकतम समय सीमा के भीतर अनुमोदन रोकना या विधेयकों को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रखना चाहते हैं और ऐसा करने में असफल रहते हैं, तो उन पर न्यायिक कार्रवाई हो सकती है।



- With this, the **April 8 judgment** has gone a step further from earlier decisions of the court which had only **cajoled Governors** to act within a “reasonable time”.  
इस प्रकार, 8 अप्रैल के फैसले ने पिछले फैसलों से एक कदम आगे बढ़ते हुए, जहां सिर्फ राज्यपालों को “उचित समय” में कार्य करने के लिए कहा गया था, अब उसे न्यायिक निर्देश में बदल दिया है।
- A week before this judgment in the **Tamil Nadu Governor case**, the **Supreme Court** had made **stern remarks** against another **Constitutional silence** which has facilitated **Speakers** to delay decisions in **disqualification proceedings** under the **anti-defection law**.  
तमिलनाडु राज्यपाल मामले में इस फैसले से एक सप्ताह पहले, सुप्रीम कोर्ट ने एक अन्य संवैधानिक चुप्पी पर कड़ी टिप्पणी की, जो स्पीकरों को दल-बदल कानून के तहत अयोग्यता कार्यवाही में निर्णय लेने में देरी करने की छूट देती है।
- The remarks came from a **Bench headed by Justice B.R. Gavai** on **April 3**, while reserving judgment on appeals challenging the **months-long delay** shown by the **Telangana Speaker** in deciding **disqualification petitions** filed under the **Tenth Schedule** of the Constitution.  
यह टिप्पणी 3 अप्रैल को न्यायमूर्ति बी.आर. गवई की अध्यक्षता वाली पीठ से आई, जब उन्होंने तेलंगाना विधानसभा अध्यक्ष द्वारा दसवीं अनुसूची के तहत दायर अयोग्यता याचिकाओं पर कई महीनों की देरी को चुनौती देने वाली अपीलों पर निर्णय सुरक्षित रखा।
- The petitions were against **10 BRS MLAs** who had **shifted to the ruling Congress** in the State.  
ये याचिकाएं राज्य के 10 बीआरएस विधायकों के खिलाफ थीं जो सत्तारूढ़ कांग्रेस में शामिल हो गए थे।
- Justice **Gavai** said the court would fix “**specific time periods**” for **Speakers**, or else **disqualification petitions** may end up in the “**dustbins**” and the **Tenth Schedule** would be **reduced to a mockery**.  
न्यायमूर्ति गवई ने कहा कि अदालत स्पीकरों के लिए “विशिष्ट समय सीमा” तय करेगी, अन्यथा अयोग्यता याचिकाएं “कचरे में फेंकी” जा सकती हैं और दसवीं अनुसूची मजाक बनकर रह जाएगी।
- The **Bench** had referred to a **2020 judgment of the Supreme Court in the Keshab Meghachandra Singh case** in which it had said **disqualification petitions under the Tenth Schedule ought to be decided by Speakers within three months**.  
इस पीठ ने सुप्रीम कोर्ट के केशव मेघचंद्र सिंह मामले में दिए गए 2020 के फैसले का हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि दसवीं अनुसूची के तहत अयोग्यता याचिकाओं पर स्पीकर को तीन महीने में



**TELEGRAM CHANNEL:** <https://t.me/patrioticIAS>

**YOUTUBE CHANNEL:** <https://www.youtube.com/@PatrioticIAS>

**CONTACT: 9971932488**



निर्णय लेना चाहिए।

- This has largely been followed by **Speakers in breach** so far.  
अब तक स्पीकरों द्वारा इस नियम का उल्लंघन ही अधिक देखा गया है।

PATRIOTIC IAS

**Address : 3rd Floor, KV Tower, Padleyganj Road, Gorakhpur**  
**Email Id : info@patrioticias.in**  
**Contact Number : 9971932488**  
**Website : patrioticias.in**



# The issue with delimitation's population-based process

## GS Paper II: Delimitation

**D**elimitation, enshrined in Articles 82 and 170 of the Constitution of India, has stirred unprecedented passions that have taken shape in both serious and ludicrous ways. The serious ones stem from what the Constitution provides and its possible implications if implemented as provided. The ludicrous ones include calls by some who are asking people to 'multiply' rapidly to deal with the fear of being outnumbered.

As passions run high, there is a need to look at the issues dispassionately. Ironically, those who had hitherto accused the government of flouting constitutional principles, now want that the government does not act in accordance with the Constitution. Are the 'protectors of the Constitution' chasing their tail in asking for the 'freezing' or 'postponing' the delimitation exercise for sound reasons?

The Constitution provides that "upon the completion of each census, the allocation of seats in the House of the People to the States and the division of each State into territorial constituencies shall be readjusted". A similar provision exists for the Vidhan Sabhas. Through the 42nd and subsequent amendments, this 'readjustment' was deferred till 2026. The Census after that will be the basis of any future delimitation, which has also caused much apprehension in the southern States. There is little evidence to justify their apprehensions but there is no reason to dismiss their fear.

There is heated debate, justifiably so, on the principle of population proportionality and federalism and whether any principle enshrined in the Constitution should be used to undermine the other. It is clear that a mathematical approach to delimitation and allocation of seats based on population alone will benefit States where population growth has been faster than the rest.

### Data from the past and trends

The data published by the Election Commission of India show that in the first general election in 1951-52 there were 489 Lok Sabha seats; 494 in 1957, and 520 in 1967 (as per the Delimitation Commission's Report of March 21, 1963 based on the 1961 Census). Thirty-one seats were added and five reduced from the previous election. Andhra Pradesh went down from 43 to 41, Madras, 41 to 39, and Uttar Pradesh, 86 to 85. Assam, Maharashtra, Gujarat, Kerala, Mysore, Rajasthan, West Bengal, Delhi, Himachal Pradesh made gains. Besides, seats were added in new States such as Haryana, Jammu and Kashmir, Nagaland, Andaman and Nicobar Islands, Chandigarh, Dadra and Nagar Haveli, Goa, Daman and Diu, Lakshadweep and Pondicherry.

In the 1971 Lok Sabha election, two seats were reduced in Himachal Pradesh bringing the total to 518. In the 1977 election, 24 seats were added,



**Ashok Lavasa**

is a former Election Commissioner and Union Finance Secretary of India

taking the number to 542. Andhra Pradesh, Bihar, Maharashtra, Gujarat, Kerala, Madhya Pradesh, Karnataka (erstwhile Mysore), Orissa, Rajasthan, West Bengal and Haryana made gains, and new States such as Sikkim, Arunachal Pradesh, Meghalaya, and Mizoram got additional seats. Daman and Diu was allotted a separate seat much later to take the total to 543 – which is the current strength of the Lok Sabha based on the 1971 Census.

### What needs to be considered

An analysis of these trends suggests that any debate on delimitation must consider three issues: the principle of population as the basis of allocation of seats; the impact of public policy on the population criterion, and the 'representative' hue of those who are elected.

The increase in the number of seats between 1951 and 2004, determined by the Delimitation Commissions, contains no formula for the ideal population that a Lok Sabha/Vidhan Sabha member should represent. If the population is divided by the number of Lok Sabha/Vidhan Sabha seats, the average goes up from 7.32 lakh per seat in 1951 to about 8.70 lakh in 1967, and 10.10 lakh in 1977. In 2024, this is about 27 lakh per Lok Sabha seat. Similarly, the number of Vidhan Sabha seats have increased from 3,283 in 1951-52 to 4,123 in 2024, tripling the average population that a Vidhan Sabha member represents. Going by the nearly 98 crore electors in the 2024 general election, each Member of Parliament on an average represented about 18 lakh electors; Lakshadweep had 57,760 electors and Malkajgiri 29.5 lakh.

This shows that while population was chosen as the primary principle of representation, it has not been followed without accommodating other concerns such as geographical contiguity and political boundaries. The Census-based population criterion was the only basis that had no qualifications attached, unlike in the past where voting rights were based on religion and educational background. It was the simplest criterion to ensure universal franchise and one vote, one value. Is the criterion so sacred that it does not permit any adjustment based on current circumstances to avoid fissures in our polity, creating distortions in the representative federal character of the Parliament, and the feeling of regional injustice? After all, the Finance Commission, set up every five years, keeps modifying its criteria for financial allocation and devolution based on changing reality, regional aspirations and national priorities.

The question that also needs to be debated is this: "what does it mean to 'represent' a constituency"? The Lok Sabha/Vidhan Sabhas are essentially law-making bodies and the representative weight of the elected person does

not change because of the number of people in the constituency. Also, the constituency size does not influence the other functions that elected representatives perform – namely asking questions or being a part of various House committees. There are no surveys to show that a smaller constituency is better represented than a larger one. For example, let us evaluate how the people of the tenth parliament constituency created in Haryana in 1977, or the Daman and Diu constituency benefited because of having a Member of Parliament represent them in the Lok Sabha? Or whether in Haryana, Narnaul Assembly segment with 1.6 lakh voters is better served by its elected representative than Badshahpur with 5.2 lakh electors. In the first-past-the-post system, numerical strength of the constituency is immaterial to 'representativeness'. Moreover, how many times do citizens need the Lok Sabha/Vidhan Sabha representative to deal with day-to-day problems? Strengthening the third tier of elected bodies may be more meaningful for democracy, and devolution of authority to local bodies, a more effective measure of improving governance than clamouring for more seats adhering to the 'fetish' of population-based representation in elected Houses.

### A primary criterion that needs moderation

The importance of population as the primary criterion needs moderation because the population control policy was promoted by the central government. There may not be another parallel policy, the outcome of which is used to the detriment of the performer. Perhaps, there is a need to use a deflator that can moderate the benefit that States might derive on account of higher population. As real GDP growth is determined by adjusting nominal growth for inflation, we need to think of a divisor that will neutralise the unintended gain due to population growth. For example, if we calculate the number of seats that the Lok Sabha should have on the basis of the 10.10 lakh average for the 1977 election of 543 seats, we might get about 1,440 seats as per the estimated population of 2024. But if this number is divided by the national total fertility rate (TFR, the single significant factor that is proportional to population growth) for 2024, this might reduce to about 680 seats. Since State-level TFR data is available, this can be applied to every State for moderating its population growth figures. Experts may suggest a more sophisticated formula.

A Parliament that can debate constitutional amendments aimed merely to achieve managerial efficiency in conducting elections, can certainly debate ways in which the structural political imbalance inherent in the population-based delimitation of constituencies can be managed.

The focus needs to shift to what it means to 'represent' a constituency and steps such as strengthening the third tier of elected bodies

## The issue with delimitation's population-based process

### जनसंख्या-आधारित परिसीमन प्रक्रिया से जुड़ी समस्या

The focus needs to shift to what it means to 'represent' a constituency and steps such as strengthening the third tier of elected bodies.

अब ज़रूरत इस बात पर ध्यान देने की है कि किसी क्षेत्र का 'प्रतिनिधित्व' वास्तव में क्या



होता है और जैसे कदम उठाने की ज़रूरत है, जैसे कि तीसरे स्तर की निर्वाचित संस्थाओं को सशक्त करना।

- Delimitation, enshrined in **Articles 82 and 170 of the Constitution of India**, has stirred unprecedented passions that have taken shape in both serious and ludicrous ways.  
भारत के संविधान के अनुच्छेद 82 और 170 में निहित परिसीमन ने अभूतपूर्व भावनात्मक प्रतिक्रियाएं पैदा की हैं, जो कभी गंभीर तो कभी हास्यास्पद रूपों में सामने आई हैं।
- The serious ones stem from what the Constitution provides and its possible implications if implemented as provided.  
गंभीर प्रतिक्रियाएं संविधान की प्रावधानों से उत्पन्न होती हैं और यदि उन्हें लागू किया जाए तो उनके संभावित प्रभावों को लेकर हैं।
- The ludicrous ones include calls by some who are asking people to 'multiply' rapidly to deal with the fear of being outnumbered.  
हास्यास्पद प्रतिक्रियाओं में कुछ लोग शामिल हैं जो लोगों से कह रहे हैं कि वे तेज़ी से जनसंख्या बढ़ाएं, ताकि संख्यात्मक रूप से पिछड़ने के डर का सामना किया जा सके।
- As passions run high, there is a need to look at the issues dispassionately.  
जब भावनाएं उफान पर हों, तब ज़रूरत होती है कि मुद्दों को निष्पक्ष रूप से देखा जाए।
- Ironically, those who had hitherto accused the government of flouting constitutional principles, now want that the government does not act in accordance with the Constitution.  
विडंबना यह है कि जो लोग अब तक सरकार पर संवैधानिक सिद्धांतों के उल्लंघन का आरोप लगाते थे, अब वे ही चाहते हैं कि सरकार संविधान के अनुसार कार्य न करे।
- Are the 'protectors of the Constitution' chasing their tail in asking for the 'freezing' or 'postponing' the delimitation exercise for sound reasons?  
क्या 'संविधान के रक्षक' परिसीमन प्रक्रिया को स्थगित या फ्रीज़ करने की मांग कर खुद अपने तर्कों से विरोधाभास नहीं कर रहे हैं?



- The Constitution provides that “upon the completion of each **census**, the allocation of seats in the House of the People to the States and the division of each State into territorial constituencies shall be readjusted”.  
संविधान में प्रावधान है कि हर जनगणना के बाद, लोकसभा में राज्यों के लिए सीटों का आवंटन और हर राज्य के क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों का पुनः समायोजन किया जाएगा।
- A similar provision exists for the **Vidhan Sabhas**.  
विधानसभाओं के लिए भी इसी तरह का प्रावधान है।
- Through the **42nd and subsequent amendments**, this ‘readjustment’ was deferred till **2026**.  
42वें और उसके बाद के संशोधनों के माध्यम से इस 'पुनः समायोजन' को 2026 तक स्थगित कर दिया गया था।
- The **Census after that** will be the basis of any future delimitation, which has also caused much **apprehension in the southern States**.  
उसके बाद की जनगणना किसी भी आगामी परिसीमन का आधार बनेगी, जिससे दक्षिणी राज्यों में काफी आशंकाएं पैदा हुई हैं।
- There is little evidence to justify their apprehensions but there is no reason to dismiss their fear.  
उनकी आशंकाओं को सही ठहराने के लिए बहुत कम साक्ष्य हैं, लेकिन उनके डर को पूरी तरह नकारने का भी कोई कारण नहीं है।
- There is heated debate, justifiably so, on the **principle of population proportionality and federalism** and whether any principle enshrined in the Constitution should be used to undermine the other.  
जनसंख्या के अनुपात और संघीयता के सिद्धांत पर उचित रूप से गर्मागर्म बहस चल रही है, और इस पर चर्चा है कि क्या संविधान में निहित कोई एक सिद्धांत दूसरे को कमजोर करने के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए।
- It is clear that a mathematical approach to delimitation and allocation of seats based on **population alone** will benefit **States where population growth has been faster** than the rest.



**TELEGRAM CHANNEL:** <https://t.me/patrioticIAS>

**YOUTUBE CHANNEL:** <https://www.youtube.com/@PatrioticIAS>

**CONTACT: 9971932488**



यह स्पष्ट है कि अगर परिसीमन और सीटों का आवंटन केवल जनसंख्या पर आधारित गणनात्मक तरीके से किया गया, तो इससे उन राज्यों को लाभ होगा जहाँ जनसंख्या वृद्धि अधिक रही है।

## Data from the past and trends

### अतीत से आंकड़े और रुझान

- The data published by the **Election Commission of India** show that in the **first general election in 1951-52**, there were **489 Lok Sabha seats**.  
भारत के चुनाव आयोग द्वारा प्रकाशित आंकड़े बताते हैं कि 1951-52 के पहले आम चुनाव में लोकसभा की 489 सीटें थीं।
- **494 in 1957**, and **520 in 1967** (as per the **Delimitation Commission's Report of March 21, 1963** based on the **1961 Census**).  
1957 में 494 और 1967 में 520 सीटें थीं (21 मार्च 1963 की परिसीमन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, जो 1961 की जनगणना पर आधारित थी)।
- **Thirty-one seats** were added and **five reduced** from the previous election.  
पिछले चुनाव की तुलना में 31 सीटें जोड़ी गईं और 5 घटाई गईं।
- **Andhra Pradesh** went down from **43 to 41**, **Madras**, **41 to 39**, and **Uttar Pradesh**, **86 to 85**.  
आंध्र प्रदेश की सीटें 43 से घटकर 41, मद्रास की 41 से 39, और उत्तर प्रदेश की 86 से 85 हो गईं।
- **Assam, Maharashtra, Gujarat, Kerala, Mysore, Rajasthan, West Bengal, Delhi, Himachal Pradesh** made gains.  
असम, महाराष्ट्र, गुजरात, केरल, मैसूर, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश को सीटों में बढ़ोतरी मिली।
- Besides, seats were added in **new States** such as **Haryana, Jammu and Kashmir, Nagaland, Andaman and Nicobar Islands, Chandigarh, Dadra and Nagar Haveli, Goa, Daman and Diu, Lakshadweep and Pondicherry**.  
इसके अलावा हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, नागालैंड, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली, गोवा, दमन और दीव, लक्षद्वीप और पांडिचेरी जैसे नए राज्यों में सीटें जोड़ी गईं।



- In the **1971 Lok Sabha election**, **two seats** were reduced in **Himachal Pradesh**, bringing the total to **518**.  
1971 के लोकसभा चुनाव में हिमाचल प्रदेश में 2 सीटें घटाई गईं, जिससे कुल सीटें 518 हो गईं।
- In the **1977 election**, **24 seats** were added, taking the number to **542**.  
1977 के चुनाव में 24 सीटें जोड़ी गईं, जिससे संख्या बढ़कर 542 हो गई।
- **Andhra Pradesh, Bihar, Maharashtra, Gujarat, Kerala, Madhya Pradesh, Karnataka (erstwhile Mysore), Orissa, Rajasthan, West Bengal and Haryana** made gains.  
आंध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, कर्नाटक (पूर्व में मैसूर), उड़ीसा, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और हरियाणा को सीटों में बढ़ोतरी मिली।
- New States such as **Sikkim, Arunachal Pradesh, Meghalaya, and Mizoram** got additional seats.  
सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और मिजोरम जैसे नए राज्यों को अतिरिक्त सीटें मिलीं।
- **Daman and Diu** was allotted a **separate seat** much later to take the total to **543** — which is the **current strength of the Lok Sabha** based on the **1971 Census**.  
बाद में दमन और दीव को एक अलग सीट दी गई, जिससे कुल संख्या 543 हो गई — जो कि 1971 की जनगणना के आधार पर वर्तमान लोकसभा की सीटों की संख्या है।

## What needs to be considered

### किन बातों पर विचार करना आवश्यक है

- An analysis of these trends suggests that any debate on **delimitation** must consider **three issues**: the principle of **population** as the basis of allocation of seats; the **impact of public policy** on the population criterion, and the '**representative**' hue of those who are elected.  
इन रुझानों के विश्लेषण से पता चलता है कि **परिसीमन** पर किसी भी बहस में **तीन मुद्दों** पर विचार होना चाहिए: सीट आवंटन के आधार के रूप में **जनसंख्या का सिद्धांत**; जनसंख्या मानदंड पर **लोकनीति का प्रभाव**, और निर्वाचित प्रतिनिधियों का '**प्रतिनिधित्वात्मक स्वरूप**'।
- The increase in the number of seats between **1951 and 2004**, determined by the **Delimitation Commissions**, contains **no formula** for the **ideal population** that a **Lok Sabha/Vidhan Sabha** member should represent.



1951 से 2004 के बीच परिसीमन आयोगों द्वारा निर्धारित सीटों की वृद्धि में यह निर्धारित करने का कोई सूत्र नहीं है कि किसी लोकसभा/विधानसभा सदस्य को कितनी आदर्श जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करना चाहिए।

- If the population is divided by the number of **Lok Sabha/Vidhan Sabha** seats, the average goes up from **7.32 lakh** per seat in 1951 to about **8.70 lakh** in 1967, and **10.10 lakh** in 1977.  
यदि जनसंख्या को लोकसभा/विधानसभा सीटों की संख्या से विभाजित किया जाए, तो प्रति सीट औसत 1951 में 7.32 लाख से बढ़कर 1967 में लगभग 8.70 लाख, और 1977 में 10.10 लाख हो जाता है।
  - In 2024, this is about **27 lakh** per **Lok Sabha** seat.  
2024 में, यह आंकड़ा प्रति लोकसभा सीट लगभग 27 लाख है।
  - Similarly, the number of **Vidhan Sabha** seats has increased from **3,283 in 1951-52** to **4,123 in 2024**, tripling the average population that a **Vidhan Sabha** member represents.  
इसी तरह, विधानसभा सीटों की संख्या 1951-52 में 3,283 से बढ़कर 2024 में 4,123 हो गई है, जिससे एक विधानसभा सदस्य द्वारा प्रतिनिधित्व की जाने वाली औसत जनसंख्या तीन गुना हो गई है।
  - Going by the nearly **98 crore electors** in the **2024 general election**, each **Member of Parliament** on an average represented about **18 lakh electors**.  
2024 के आम चुनाव में लगभग 98 करोड़ मतदाताओं के हिसाब से, हर सांसद औसतन लगभग 18 लाख मतदाताओं का प्रतिनिधित्व करता है।
  - **Lakshadweep** had **57,760 electors** and **Malkajgiri** had **29.5 lakh electors**.  
लक्षद्वीप में 57,760 मतदाता थे और मलकाजगिरी में 29.5 लाख मतदाता थे।
- Rethinking Population-Based Representation**  
जनसंख्या-आधारित प्रतिनिधित्व पर पुनर्विचार
- This shows that while **population** was chosen as the primary principle of representation, it has not been followed without accommodating other concerns such as **geographical contiguity** and **political boundaries**.  
यह दिखाता है कि यद्यपि जनसंख्या को प्रतिनिधित्व का मुख्य आधार चुना गया था, फिर भी इसे भौगोलिक समीपता और राजनीतिक सीमाओं जैसी अन्य चिंताओं को ध्यान में रखे बिना नहीं अपनाया गया।



- The **Census-based population criterion** was the only basis that had no qualifications attached, unlike in the past where **voting rights** were based on **religion** and **educational background**.

जनगणना-आधारित जनसंख्या मानदंड ही एकमात्र आधार था जिसमें कोई शर्त नहीं थी, जबकि अतीत में मताधिकार धर्म और शैक्षिक पृष्ठभूमि पर आधारित होते थे।

- It was the **simplest criterion** to ensure **universal franchise** and **one vote, one value**. यह सार्वभौमिक मताधिकार और एक मत, एक मूल्य सुनिश्चित करने का सबसे सरल मानदंड था।

- Is the criterion so sacred that it does not permit any adjustment based on **current circumstances** to avoid **fissures in our polity**, creating **distortions** in the **representative federal character** of the Parliament, and the feeling of **regional injustice**?

क्या यह मानदंड इतना पवित्र है कि यह वर्तमान परिस्थितियों के आधार पर कोई भी समायोजन करने की अनुमति नहीं देता, ताकि हमारी राजनीतिक प्रणाली में विभाजन, संसद के संघीय प्रतिनिधित्व स्वरूप में विकृति, और क्षेत्रीय अन्याय की भावना से बचा जा सके?

- After all, the **Finance Commission**, set up every **five years**, keeps modifying its criteria for **financial allocation** and **devolution** based on **changing reality**, **regional aspirations**, and **national priorities**.

आखिरकार, हर पांच साल में गठित होने वाला वित्त आयोग, वित्तीय आवंटन और विकेंद्रीकरण के अपने मानदंडों को बदलती वास्तविकता, क्षेत्रीय आकांक्षाओं, और राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के आधार पर बदलता रहता है।

- The question that also needs to be debated is this: “what does it mean to **‘represent’ a constituency**”?

जिस प्रश्न पर बहस की जानी चाहिए वह यह है: “एक निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करना वास्तव में क्या है?”

- The **Lok Sabha/Vidhan Sabhas** are essentially **law-making bodies** and the **representative weight** of the elected person does not change because of the **number of people** in the constituency.

लोकसभा/विधानसभाएं मूलतः कानून बनाने वाली संस्थाएं हैं और किसी निर्वाचित व्यक्ति का प्रतिनिधित्व भार निर्वाचन क्षेत्र में लोगों की संख्या के कारण नहीं बदलता।



- Also, the **constituency size** does not influence the other functions that elected representatives perform — namely **asking questions** or being a part of various **House committees**.  
इसके अलावा, निर्वाचन क्षेत्र का आकार उन अन्य कार्यों को प्रभावित नहीं करता जो निर्वाचित प्रतिनिधि करते हैं — जैसे प्रश्न पूछना या विभिन्न संसदीय समितियों का हिस्सा बनना।
- There are **no surveys** to show that a **smaller constituency** is better represented than a **larger one**.  
कोई सर्वेक्षण उपलब्ध नहीं है जो यह दिखाए कि एक छोटा निर्वाचन क्षेत्र किसी बड़े क्षेत्र से बेहतर प्रतिनिधित्व पाता है।
- For example, let us evaluate how the people of the **tenth parliament constituency** created in **Haryana in 1977**, or the **Daman and Diu constituency** benefited because of having a **Member of Parliament** represent them in the Lok Sabha?  
उदाहरण के लिए, यह मूल्यांकन करें कि हरियाणा में 1977 में बनाए गए दसवें संसदीय क्षेत्र या दमन और दीव निर्वाचन क्षेत्र के लोग लोकसभा में सांसद द्वारा प्रतिनिधित्व पाने से कैसे लाभान्वित हुए?
- Or whether in **Haryana, Narnaul Assembly segment** with **1.6 lakh voters** is better served by its elected representative than **Badshahpur** with **5.2 lakh electors**.  
या फिर हरियाणा में, नारनौल विधानसभा क्षेत्र, जिसमें 1.6 लाख मतदाता हैं, क्या बादशाहपुर, जिसमें 5.2 लाख मतदाता हैं, की तुलना में बेहतर सेवा प्राप्त करता है?
- In the **first-past-the-post system**, **numerical strength** of the constituency is **immaterial** to 'representativeness'.  
फर्स्ट-पास्ट-द-पोस्ट प्रणाली में, निर्वाचन क्षेत्र की संख्यात्मक शक्ति 'प्रतिनिधित्व' के लिए महत्वहीन होती है।
- Moreover, how many times do citizens need the **Lok Sabha/Vidhan Sabha representative** to deal with **day-to-day problems**?  
इसके अलावा, नागरिकों को अपने लोकसभा/विधानसभा प्रतिनिधि की कितनी बार दैनिक समस्याओं को हल करने के लिए आवश्यकता होती है?
- **Strengthening the third tier** of elected bodies may be more meaningful for democracy, and **devolution of authority to local bodies**, a more effective measure of improving **governance** than clamouring for more seats adhering to the '**fetish**' of **population-based representation** in elected Houses.



निर्वाचित निकायों की तीसरी इकाई को सशक्त बनाना, लोकतंत्र के लिए अधिक सार्थक हो सकता है, और स्थानीय निकायों को अधिकारों का विकेंद्रीकरण, चुने गए सदनों में जनसंख्या-आधारित प्रतिनिधित्व के आग्रह की तुलना में शासन सुधारने का अधिक प्रभावी उपाय हो सकता है।

## A primary criterion that needs moderation

### एक मुख्य मानदंड जिसे संतुलित करने की आवश्यकता है

- The importance of **population** as the primary criterion needs **moderation** because the **population control policy** was promoted by the **central government**.  
जनसंख्या को मुख्य मानदंड के रूप में मानने के महत्व को संतुलित करने की आवश्यकता है क्योंकि जनसंख्या नियंत्रण नीति को केंद्र सरकार द्वारा प्रोत्साहित किया गया था।
- There may not be another parallel policy, the outcome of which is used to the **detriment of the performer**.  
शायद ही कोई दूसरी समान नीति हो, जिसके परिणाम का उपयोग नीति को सफलतापूर्वक लागू करने वाले के नुकसान के रूप में किया जाता हो।
- Perhaps, there is a need to use a **deflator** that can **moderate** the benefit that States might derive on account of **higher population**.  
शायद, एक डिफ्लेटर की आवश्यकता है जो अधिक जनसंख्या के कारण राज्यों को होने वाले लाभ को संतुलित कर सके।
- As **real GDP growth** is determined by adjusting **nominal growth** for **inflation**, we need to think of a **divisor** that will neutralise the **unintended gain** due to **population growth**.  
जैसे वास्तविक जीडीपी वृद्धि को मुद्रास्फीति के लिए सांकेतिक वृद्धि को समायोजित करके मापा जाता है, वैसे ही हमें एक हरकारक (**divisor**) के बारे में सोचना चाहिए जो जनसंख्या वृद्धि से होने वाले अनचाहे लाभ को संतुलित कर सके।
- For example, if we calculate the number of seats that the **Lok Sabha** should have on the basis of the **10.10 lakh** average for the **1977 election** of **543 seats**, we might get about **1,440 seats** as per the **estimated population of 2024**.  
उदाहरण के लिए, यदि हम 1977 के चुनाव में 543 सीटों के लिए 10.10 लाख की औसत के आधार पर लोकसभा की सीटों की संख्या निकालें, तो 2024 की अनुमानित जनसंख्या के अनुसार यह संख्या लगभग 1,440 सीटें हो सकती है।



**TELEGRAM CHANNEL:** <https://t.me/patrioticIAS>

**YOUTUBE CHANNEL:** <https://www.youtube.com/@PatrioticIAS>

**CONTACT: 9971932488**



- But if this number is divided by the **national total fertility rate (TFR)** for **2024**, this might reduce to about **680 seats**.  
लेकिन यदि इस संख्या को **2024 के लिए राष्ट्रीय कुल प्रजनन दर (TFR)** से विभाजित किया जाए, तो यह संख्या घटकर लगभग **680 सीटें** रह सकती है।
- Since **State-level TFR data** is available, this can be applied to every State for **moderating its population growth figures**.  
चूंकि **राज्य-स्तरीय TFR डेटा** उपलब्ध है, इसे प्रत्येक राज्य के **जनसंख्या वृद्धि के आंकड़ों को संतुलित** करने के लिए लागू किया जा सकता है।
- **Experts** may suggest a more **sophisticated formula**.  
विशेषज्ञ एक और अधिक परिष्कृत सूत्र का सुझाव दे सकते हैं।
- A **Parliament** that can debate **constitutional amendments** aimed merely to achieve **managerial efficiency** in conducting elections, can certainly debate ways in which the **structural political imbalance** inherent in the **population-based delimitation of constituencies** can be managed.  
एक ऐसा **संसद** जो केवल **चुनावों के प्रबंधन को कुशल बनाने** के लिए **संवैधानिक संशोधनों** पर बहस कर सकता है, वह निश्चित रूप से **जनसंख्या-आधारित निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण** में निहित **संरचनात्मक राजनीतिक असंतुलन** को संभालने के तरीकों पर भी बहस कर सकता है।



## Are existing mechanisms effective in combating judicial corruption?



**Sanjay Hegde**  
Senior Advocate  
based in Delhi



**Alok Prasanna Kumar**  
Co-founder of  
Vidhi Centre for  
Legal Policy

### PARLEY

Last month, unaccounted cash was reportedly recovered from the official residence of former Delhi High Court judge, Justice Yashwant Varma. In response, Chief Justice of India Sanjiv Khanna initiated an in-house inquiry into the matter. Justice Varma has since been repatriated to his parent High Court in Allahabad and will not be assigned any judicial work until the Supreme Court mandated inquiry is completed. Are existing mechanisms effective in combating judicial corruption? Sanjay Hegde and Alok Prasanna Kumar discuss the question in a conversation moderated by **Aaratrika Bhaumik**. Edited excerpts:

**Is impeachment an effective mechanism for judicial accountability, given its reliance on political consensus?**

**Sanjay Hegde:** Far from being a mechanism for accountability, the process of impeachment is designed to shield judges. Unless a motion garners the support of two-thirds of the members present and voting, as well as an absolute majority in each House of Parliament, the judges cannot be removed. To assume that the threat of impeachment acts as a deterrent is misguided, given how rarely such proceedings succeed. What is needed instead is an internal mechanism within the judiciary to transparently address serious misconduct. Such a system would go a long way in reinforcing public confidence in the institution.

**Alok Prasanna Kumar:** Impeachment upholds judicial independence by insulating judges from political retaliation. To this end, the process is intentionally rigorous, requiring both a detailed parliamentary procedure and proof of "misbehaviour or incapacity." These high thresholds are meant to deter the executive from using impeachment to remove judges who are seen as inconvenient.

We also tend to assume that judicial independence has always existed, but it is a relatively modern concept. Historically, judges served to deliver the monarch's justice, not to check state power or protect individual rights. This began to change with the rise of constitutional democracies.

**Are legislative reforms required in the Supreme Court's in-house procedure for addressing judicial misconduct?**

**SH:** The in-house procedure was established to prevent the misuse of legal processes against the judiciary, especially when judicial decisions



Allahabad High Court lawyers stage an indefinite strike over the transfer of Justice Yashwant Varma to his parent court, in Prayagraj, Jh.

displease the executive. A key precedent is *Delhi Judicial Service Association v. State of Gujarat* (1991), where the Supreme Court intervened after the Chief Judicial Magistrate of Nadiad was mistreated by Gujarat police officials, and issued guidelines for arresting judicial officers. To guard against misuse, the judiciary introduced an internal inquiry mechanism before allowing prosecution. Nonetheless, this framework could benefit from legislative intervention.

**APK:** Corruption cases are particularly difficult to prosecute in a country like ours, where enforcement institutions are weak, the capacity to secure convictions is limited, and judges enjoy a degree of institutional protection. A striking example is the recent acquittal of former Punjab and Haryana High Court judge Nirmal Yadav, nearly 15 years after a Supreme Court-mandated inquiry committee found sufficient evidence to prosecute her. That said, I agree with Sanjay that there is certainly scope for strengthening the in-house procedure.

**Should inquiry reports under this mechanism be made public?**

**APK:** Yes. We have seen a welcome shift towards transparency in the Supreme Court's handling of the Justice Yashwant Varma case. In an age where judicial conduct is closely scrutinised through social and mass media, opacity in cases of alleged judicial corruption is no longer viable. However, such transparency cannot remain an ad hoc response to crises; it must be institutionalised. At the same time, it is essential that the inquiry process upholds the principles of natural justice and safeguards the rights of the accused. While rigid procedural rules may not be feasible, a balanced framework is necessary – one that commands the confidence of all stakeholders and prevents the inquiry process from becoming the subject of further litigation.



Transparency must be institutionalised; it cannot remain an ad hoc response to crises. At the same time, it is essential that the inquiry process upholds the principles of natural justice and safeguards the rights of the accused.

**ALOK PRASANNA KUMAR**

**SH:** I agree that increased transparency in the functioning of inquiry committees is welcome. However, in this particular case, the Court's decision appears to have been shaped by the extraordinary level of public speculation. By proactively releasing the video purportedly showing the recovery of unaccounted cash, the Court pre-empted any perception that it was shielding a member of the higher judiciary. Had the footage surfaced through other unofficial channels, it could have severely undermined institutional credibility. That said, such decisions must be made with caution and evaluated on a case-by-case basis, ensuring that the accused's right to a fair trial remains fully protected. The Court could also benefit from appointing dedicated communications personnel to prevent misinformation and bolster public confidence.

**The Justice Varma case has renewed calls to revive the National Judicial Appointments Commission. Should the government have a say in judicial appointments?**

**SH:** The government already holds a seat at the table. The real question is whether it should wield a blank cheque. Even before the collegium finalises its recommendations, informal consultations with the executive are often undertaken. After the names are forwarded, the government retains the power to flag intelligence Bureau inputs for the collegium's reconsideration. There have also been several instances where the government has stalled appointments by simply sitting on the recommendations. This de facto executive veto has prevented many deserving judges from reaching the Supreme Court.

**APK:** We should no longer call it the collegium system; it now resembles a search-and-selection committee. While the High Court and Supreme Court collegium recommend names, the Union government follows a pick-and-choose approach. This has dissuaded many deserving candidates from subjecting themselves to an opaque and often humiliating process. Ultimately, it does not matter whether judges are

appointed by the government, the judiciary, or a combination of the two. What matters is transparency. The D.Y. Chandrachud-led collegium made progress on this front by publishing resolutions that detailed the rationale behind each recommendation. Regrettably, the practice has been discontinued.

**Should the Judicial Standards and Accountability Bill, 2010, be reconsidered?**

**APK:** I don't think so. It fails to address several critical gaps. What we need is a more calibrated and institutional response. The first step should be to define clear, enforceable judicial standards. Consider the issue of familial ties in the judiciary – every judge should be mandated to disclose relatives practising in the same court. Once disclosed, either the judge must be transferred or the relative barred from appearing before that court. Merely setting up more oversight bodies is not the solution. These institutions would inevitably be staffed by retired judges, thereby perpetuating the same structural flaws we seek to remedy.

**SH:** More than legislative reform, we need to focus on the fact that the legal profession already operates through an informal system of peer review. Long before a judge becomes entangled in a corruption scandal, there are usually murmurs within the corridors of the court. A meaningful step forward would be to institutionalise this peer review process by systematically incorporating inputs from bar associations and fellow judges. This would strengthen internal accountability.

**Should contempt of court laws be liberalised to permit greater public scrutiny of judicial conduct?**

**APK:** We can liberalise contempt of court laws, but unless there are consequences for judges who invoke them arbitrarily, such reforms will have little impact. It is also important to assess the context in which contempt is initiated – does it stem from a judge's anger or fear, or is it a measured institutional response to someone deliberately spreading falsehoods to undermine public trust in the judiciary? That said, there must be space for good-faith discourse on judicial corruption without the spectre of criminal contempt looming over those who voice legitimate concerns.



To listen to the full interview  
Scan the code or go to the link  
[www.thehindu.com](http://www.thehindu.com)

## Are existing mechanisms effective in combating judicial corruption?

### क्या वर्तमान तंत्र न्यायिक भ्रष्टाचार से निपटने में प्रभावी हैं?

Last month, unaccounted cash was reportedly recovered from the official residence of former Delhi High Court judge, Justice Yashwant Varma.

पिछले महीने, पूर्व दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायाधीश, जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी आवास से बेनामी नकदी मिलने की खबर सामने आई।

- In response, Chief Justice of India Sanjiv Khanna initiated an in-house inquiry into the matter.

इस पर प्रतिक्रिया देते हुए, भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने मामले की आंतरिक जांच शुरू



की।

- **Justice Varma** has since been repatriated to his parent **High Court in Allahabad** and will not be assigned any judicial work until the **Supreme Court-mandated inquiry** is completed.  
जस्टिस वर्मा को इसके बाद उनके मूल इलाहाबाद हाई कोर्ट में वापस भेज दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्देशित जांच पूरी होने तक उन्हें कोई न्यायिक कार्य नहीं सौंपा जाएगा।
- Are existing mechanisms effective in combating **judicial corruption**? **Sanjay Hegde** and **Alok Prasanna Kumar** discuss the question in a conversation moderated by **Aaratrika Bhaumik**.  
क्या वर्तमान तंत्र न्यायिक भ्रष्टाचार से निपटने में प्रभावी हैं? इस पर संजय हेगड़े और आलोक प्रसन्न कुमार ने आरात्रिका भौमिक की अध्यक्षता में चर्चा की।

**Is impeachment an effective mechanism for judicial accountability, given its reliance on political consensus?**

**क्या महाभियोग न्यायिक जवाबदेही के लिए प्रभावी तंत्र है, जब यह राजनीतिक सहमति पर आधारित है?**

- **Sanjay Hegde**: Far from being a mechanism for accountability, the process of **impeachment** is designed to **shield judges**.  
संजय हेगड़े: जवाबदेही का माध्यम बनने के बजाय, महाभियोग की प्रक्रिया न्यायाधीशों को बचाने के लिए बनाई गई है।
- Unless a motion garners the support of **two-thirds of the members present and voting**, as well as an **absolute majority** in each House of Parliament, the judges cannot be removed.  
जब तक प्रस्ताव को संसद के दोनों सदनों में उपस्थित और मतदान कर रहे दो-तिहाई सदस्यों और पूर्ण बहुमत का समर्थन नहीं मिलता, न्यायाधीशों को नहीं हटाया जा सकता।
- To assume that the threat of impeachment acts as a **deterrent** is misguided, given how **rarely** such proceedings succeed.  
यह मानना कि महाभियोग की धमकी निवारक का कार्य करती है, गलतफहमी है, क्योंकि इस तरह की कार्यवाही बहुत ही कम सफल होती है।



- What is needed instead is an **internal mechanism** within the judiciary to **transparently address serious misconduct**.  
इसके बजाय आवश्यकता है कि न्यायपालिका के भीतर एक **आंतरिक तंत्र** हो जो **गंभीर अनुचित व्यवहार** को **पारदर्शिता** से सुलझाए।
- Such a system would go a long way in **reinforcing public confidence** in the institution.  
ऐसा तंत्र **जनता के भरोसे** को संस्था में बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

### Alok Prasanna Kumar:

#### आलोक प्रसन्न कुमार:

- **Impeachment upholds judicial independence by insulating judges from political retaliation.**  
महाभियोग न्यायिक स्वतंत्रता को बनाए रखता है क्योंकि यह न्यायाधीशों को राजनीतिक प्रतिशोध से बचाता है।
- To this end, the process is intentionally **rigorous**, requiring both a **detailed parliamentary procedure** and proof of **'misbehaviour or incapacity'**.  
इस उद्देश्य से यह प्रक्रिया जानबूझकर **कठिन** बनाई गई है जिसमें **विस्तृत संसदीय प्रक्रिया** और **'दुराचार या अयोग्यता'** का सबूत जरूरी है।
- These **high thresholds** are meant to **deter the executive** from using impeachment to remove judges who are seen as inconvenient.  
ये **उच्च मानदंड** इसलिए बनाए गए हैं ताकि **कार्यपालिका** ऐसे न्यायाधीशों को **हटाने के लिए महाभियोग का दुरुपयोग** न करे जो उसे असुविधाजनक लगते हों।
- We also tend to assume that **judicial independence** has always existed, but it is a **relatively modern concept**.  
हम यह भी मान लेते हैं कि **न्यायिक स्वतंत्रता** हमेशा रही है, लेकिन यह एक **तुलनात्मक रूप से आधुनिक अवधारणा** है।
- Historically, **judges served to deliver the monarch's justice**, not to check state power or protect individual rights.  
ऐतिहासिक रूप से, **न्यायाधीश राजा के न्याय** को लागू करने के लिए होते थे, न कि **राज्य की शक्ति पर नियंत्रण** रखने या **व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा** के लिए।
- This began to change with the rise of **constitutional democracies**.  
यह बदलाव **संवैधानिक लोकतंत्रों** के उदय के साथ शुरू हुआ।



Are legislative reforms required in the Supreme Court's in-house procedure for addressing judicial misconduct?

क्या न्यायिक कदाचार से निपटने की सुप्रीम कोर्ट की इन-हाउस प्रक्रिया में विधायी सुधारों की आवश्यकता है?

- **Sanjay Hegde:** The in-house procedure was established to prevent the misuse of legal processes against the judiciary, especially when judicial decisions displease the executive.  
संजय हेगड़े: यह इन-हाउस प्रक्रिया न्यायपालिका के खिलाफ कानूनी प्रक्रियाओं के दुरुपयोग को रोकने के लिए शुरू की गई थी, खासकर जब न्यायिक निर्णय कार्यपालिका को अप्रसन्न करते हैं।
- A key precedent is **Delhi Judicial Service Association v. State of Gujarat (1991)**, where the Supreme Court intervened after the Chief Judicial Magistrate of Nadiad was mistreated by Gujarat police officials, and issued guidelines for arresting judicial officers.  
एक महत्वपूर्ण मिसाल है दिल्ली ज्यूडिशियल सर्विस एसोसिएशन बनाम गुजरात राज्य (1991), जिसमें नडियाद के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के साथ गुजरात पुलिस अधिकारियों द्वारा दुर्व्यवहार किए जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया और न्यायिक अधिकारियों की गिरफ्तारी के लिए दिशानिर्देश जारी किए।
- To guard against misuse, the judiciary introduced an internal inquiry mechanism before allowing prosecution.  
दुरुपयोग से बचाव के लिए, न्यायपालिका ने अभियोजन की अनुमति देने से पहले एक आंतरिक जांच तंत्र लागू किया।
- Nonetheless, this framework could benefit from legislative intervention.  
फिर भी, यह ढांचा विधायी हस्तक्षेप से लाभान्वित हो सकता है।

**Alok Prasanna Kumar:**

**आलोक प्रसन्न कुमार:**

- **Corruption cases** are particularly difficult to prosecute in a country like ours, where enforcement institutions are weak, the capacity to secure convictions is limited, and judges enjoy a degree of institutional protection.  
हमारे जैसे देश में भ्रष्टाचार के मामलों को सजा दिलवाना विशेष रूप से कठिन है, क्योंकि यहां प्रवर्तन संस्थाएं कमजोर हैं, दोष सिद्ध करने की क्षमता सीमित है, और न्यायाधीशों को कुछ हद तक संस्थागत सुरक्षा प्राप्त है।
- A striking example is the recent acquittal of former Punjab and Haryana High Court judge Nirmal Yadav, nearly 15 years after a Supreme Court-mandated inquiry committee found sufficient evidence to prosecute her.  
एक उल्लेखनीय उदाहरण है पूर्व पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट की न्यायाधीश निर्मल यादव को हाल ही में बरी किया जाना, जबकि लगभग 15 साल पहले सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित जांच समिति ने उनके खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य पाए थे।



- That said, I agree with Sanjay that there is certainly scope for **strengthening the in-house procedure**.  
इसके बावजूद, मैं संजय से सहमत हूँ कि इन-हाउस प्रक्रिया को मजबूत करने की निश्चित रूप से गुंजाइश है।

## Should inquiry reports under this mechanism be made public?

### क्या इस तंत्र के तहत जांच रिपोर्टों को सार्वजनिक किया जाना चाहिए?

- **Alok Prasanna Kumar:** Yes. We have seen a welcome shift towards **transparency** in the **Supreme Court's** handling of the **Justice Yashwant Varma** case.  
आलोक प्रसन्न कुमार: हाँ। हमने न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारदर्शिता की दिशा में एक स्वागत योग्य बदलाव देखा है।
- In an age where **judicial conduct** is closely scrutinised through **social and mass media**, **opacity** in cases of alleged **judicial corruption** is no longer viable.  
आज के दौर में, जहाँ न्यायिक आचरण की सोशल और मास मीडिया के माध्यम से कड़ी निगरानी होती है, वहाँ कथित न्यायिक भ्रष्टाचार के मामलों में गोपनीयता अब टिकाऊ नहीं है।
- However, such **transparency** cannot remain an **ad hoc response to crises**; it must be **institutionalised**.  
हालांकि, ऐसी पारदर्शिता केवल संकटों के तात्कालिक समाधान के रूप में नहीं रहनी चाहिए; इसे संस्थागत रूप देना आवश्यक है।
- At the same time, it is essential that the **inquiry process** upholds the **principles of natural justice** and safeguards the **rights of the accused**.  
साथ ही, यह आवश्यक है कि जांच प्रक्रिया प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को बनाए रखे और आरोपित के अधिकारों की रक्षा करे।
- While **rigid procedural rules** may not be feasible, a **balanced framework** is necessary — one that commands the confidence of all stakeholders and prevents the **inquiry process** from becoming the subject of further litigation.  
भले ही कठोर प्रक्रिया नियम संभव न हों, एक संतुलित ढांचा आवश्यक है — जो सभी हितधारकों का विश्वास अर्जित करे और जांच प्रक्रिया को आगे की कानूनी लड़ाइयों का विषय बनने से रोके।



**TELEGRAM CHANNEL:** <https://t.me/patrioticIAS>

**YOUTUBE CHANNEL:** <https://www.youtube.com/@PatrioticIAS>

**CONTACT: 9971932488**



**Sanjay Hegde:**

**संजय हेगड़े:**

- I agree that **increased transparency** in the functioning of **inquiry committees** is welcome.  
मैं सहमत हूँ कि जांच समितियों के कामकाज में बड़ी हुई पारदर्शिता स्वागत योग्य है।
- However, in this particular case, the **Court's decision** appears to have been shaped by the **extraordinary level of public speculation**.  
हालांकि, इस विशेष मामले में, कोर्ट का निर्णय संभवतः जनता की असाधारण अटकलों से प्रभावित रहा है।
- By proactively releasing the **video purportedly showing the recovery of unaccounted cash**, the **Court** pre-empted any perception that it was **shielding** a member of the **higher judiciary**.  
कोर्ट ने बिना हिसाब-किताब वाले नकद की बरामदगी दिखाते वीडियो को सक्रिय रूप से जारी करके यह धारणा बनने से पहले ही रोक दी कि वह उच्च न्यायपालिका के किसी सदस्य को बचाने की कोशिश कर रही है।
- Had the **footage** surfaced through other **unofficial channels**, it could have **severely undermined institutional credibility**.  
यदि यह वीडियो किसी अनौपचारिक स्रोत से सामने आता, तो यह संस्थान की विश्वसनीयता को गंभीर रूप से नुकसान पहुँचा सकता था।
- That said, such decisions must be made with **caution** and evaluated on a **case-by-case basis**, ensuring that the **accused's right to a fair trial** remains fully protected.  
इसके बावजूद, ऐसे निर्णय सावधानीपूर्वक लिए जाने चाहिए और प्रत्येक मामले के आधार पर मूल्यांकित होने चाहिए, ताकि आरोपित के निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार की पूर्ण सुरक्षा हो सके।
- The **Court** could also benefit from appointing **dedicated communications personnel** to prevent **misinformation** and bolster **public confidence**.  
कोर्ट को गलत सूचना को रोकने और जन विश्वास को मजबूत करने के लिए समर्पित संचार कर्मियों की नियुक्ति से भी लाभ मिल सकता है।

**The Justice Varma case has renewed calls to revive the National Judicial Appointments Commission. Should the government have a**

**Address : 3rd Floor, KV Tower, Padleyganj Road, Gorakhpur**  
**Email Id : info@patrioticias.in**  
**Contact Number : 9971932488**  
**Website : patrioticias.in**



say in judicial appointments?

जस्टिस वर्मा मामला नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन को पुनर्जीवित करने की मांग को फिर से तेज कर रहा है। क्या सरकार को न्यायिक नियुक्तियों में भूमिका निभानी चाहिए?

**Sanjay Hegde:** The government already holds a **seat at the table**. The real question is whether it should wield a **blank cheque**.

संजय हेगड़े: सरकार पहले से ही मेज पर एक सीट रखती है। असली सवाल यह है कि क्या उसके पास असीमित अधिकार होने चाहिए।

- Even before the **collegium** finalises its recommendations, **informal consultations** with the **executive** are often undertaken.  
कॉलेजियम अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप देने से पहले अक्सर कार्यपालिका के साथ अनौपचारिक परामर्श करता है।
- After the names are forwarded, the **government** retains the power to flag **Intelligence Bureau (IB) inputs** for the **collegium's reconsideration**.  
नामों को भेजने के बाद, सरकार के पास इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) की जानकारियों को कॉलेजियम द्वारा पुनर्विचार के लिए उठाने का अधिकार होता है।
- There have also been several instances where the **government** has stalled appointments by simply sitting on the **recommendations**.  
कई बार ऐसा भी हुआ है कि सरकार ने सिफारिशों को दबाकर नियुक्तियों को रोक दिया है।
- This **de facto executive veto** has prevented many **deserving judges** from reaching the **Supreme Court**.  
यह व्यवहारिक कार्यपालिका वीटो कई योग्य न्यायाधीशों को सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने से रोक चुका है।
- **Alok Prasanna Kumar:** We should no longer call it the **collegium system**; it now resembles a **search-and-selection committee**.  
आलोक प्रसन्न कुमार: अब हमें इसे कॉलेजियम प्रणाली नहीं कहना चाहिए; यह अब एक खोज और चयन समिति जैसा बन गया है।



- While the **High Court and Supreme Court collegium** recommend names, the **Union government** follows a **pick-and-choose approach**.  
जहां उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के कॉलेजियम नाम सुझाते हैं, वहीं केंद्र सरकार एक चयनात्मक रवैया अपनाती है।
- This has dissuaded many **deserving candidates** from subjecting themselves to an **opaque and often humiliating process**.  
इसने कई योग्य उम्मीदवारों को गोपनीय और अक्सर अपमानजनक प्रक्रिया से गुजरने से हतोत्साहित किया है।
- Ultimately, it does not matter whether judges are appointed by the **government**, the **judiciary**, or a **combination** of the two. What matters is **transparency**.  
अंततः यह मायने नहीं रखता कि न्यायाधीशों की नियुक्ति सरकार, न्यायपालिका, या दोनों के संयुक्त प्रयास से हो; मायने रखता है पारदर्शिता।
- The **D.Y. Chandrachud-led collegium** made progress by publishing **resolutions** that detailed the rationale behind each recommendation.  
डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाले कॉलेजियम ने हर सिफारिश के पीछे के तर्क को स्पष्ट करने वाले प्रस्तावों को प्रकाशित कर प्रगति की थी।
- Regrettably, the practice has been **discontinued**.  
दुर्भाग्यवश, इस प्रथा को बंद कर दिया गया है।

## Should the Judicial Standards and Accountability Bill, 2010, be reconsidered?

क्या जूडिशियल स्टैंडर्ड्स एंड अकाउंटैबिलिटी बिल, 2010 पर फिर से विचार होना चाहिए?

- **Alok Prasanna Kumar**: I don't think so. It fails to address several **critical gaps**.  
आलोक प्रसन्न कुमार: मुझे नहीं लगता। यह कई महत्वपूर्ण खामियों को दूर नहीं करता है।
- What we need is a more **calibrated and institutional response**.  
हमें एक अधिक संतुलित और संस्थागत प्रतिक्रिया की आवश्यकता है।



- The first step should be to define **clear, enforceable judicial standards**.  
पहला कदम होना चाहिए कि स्पष्ट और लागू करने योग्य न्यायिक मानक तय किए जाएं।
- Consider the issue of **familial ties in the judiciary** — every judge should be mandated to **disclose relatives practising in the same court**.  
न्यायपालिका में पारिवारिक संबंधों के मुद्दे पर विचार करें — हर न्यायाधीश को उसी अदालत में कार्यरत अपने रिश्तेदारों को घोषित करना अनिवार्य होना चाहिए।
- Once disclosed, either the **judge must be transferred** or the **relative barred** from appearing before that court.  
एक बार यह घोषित हो जाने के बाद, या तो जज का तबादला किया जाए या उस रिश्तेदार को उस अदालत में पेश होने से रोका जाए।
- Merely setting up more **oversight bodies** is not the solution.  
केवल और अधिक निगरानी संस्थाएं बनाना समाधान नहीं है।
- These institutions would inevitably be staffed by **retired judges**, thereby perpetuating the same **structural flaws** we seek to remedy.  
ये संस्थाएं अंततः सेवानिवृत्त न्यायाधीशों से भरी होंगी, जिससे वे वही संरचनात्मक खामियां बनाए रखेंगी जिन्हें हम सुधारना चाहते हैं।
- **Sanjay Hegde**: More than **legislative reform**, we need to focus on the fact that the **legal profession** already operates through an **informal system of peer review**.  
संजय हेगड़े: विधायी सुधारों से अधिक, हमें इस पर ध्यान देना चाहिए कि कानूनी पेशा पहले से ही सहकर्मी समीक्षा की अनौपचारिक प्रणाली पर चलता है।
- Long before a judge becomes entangled in a **corruption scandal**, there are usually **murmurs within the corridors of the court**.  
किसी न्यायाधीश के भ्रष्टाचार के मामले में फंसने से पहले ही आमतौर पर अदालत की गलियारों में फुसफुसाहट शुरू हो जाती है।
- A meaningful step forward would be to **institutionalise this peer review process** by systematically incorporating **inputs from bar associations and fellow judges**.



एक सार्थक कदम होगा इस सहकर्मी समीक्षा प्रक्रिया को संस्थागत बनाना और इसमें बार एसोसिएशनों व सहकर्मी न्यायाधीशों से इनपुट को व्यवस्थित रूप से शामिल करना।

- This would **strengthen internal accountability**.  
इससे आंतरिक जवाबदेही मजबूत होगी।

## Should contempt of court laws be liberalised to permit greater public scrutiny of judicial conduct?

क्या न्यायिक आचरण की सार्वजनिक जांच को अनुमति देने के लिए अदालत की अवमानना कानूनों को उदार बनाया जाना चाहिए?

- **Alok Prasanna Kumar:** We can **liberalise contempt of court laws**, but unless there are **consequences for judges** who invoke them **arbitrarily**, such reforms will have **little impact**.  
आलोक प्रसन्न कुमार: हम अदालत की अवमानना कानूनों को उदार बना सकते हैं, लेकिन जब तक उन न्यायाधीशों के खिलाफ परिणाम नहीं होंगे जो इन्हें मनमाने ढंग से लागू करते हैं, तब तक ऐसे सुधारों का कम प्रभाव होगा।
- It is also important to assess the **context** in which **contempt** is initiated — does it stem from a judge's **anger or fear**, or is it a **measured institutional response** to someone deliberately **spreading falsehoods** to undermine **public trust in the judiciary**?  
यह समझना भी जरूरी है कि अवमानना की कार्यवाही किस प्रसंग में शुरू होती है — क्या यह किसी न्यायाधीश की क्रोध या डर से उत्पन्न होती है, या यह किसी व्यक्ति द्वारा झूठ फैलाकर न्यायपालिका में जनता के विश्वास को कमजोर करने के प्रयास पर संस्थागत और संतुलित प्रतिक्रिया होती है?
- That said, there must be space for **good-faith discourse on judicial corruption** without the spectre of **criminal contempt** looming over those who voice **legitimate concerns**.  
साथ ही, न्यायिक भ्रष्टाचार पर सद्भावनापूर्ण चर्चा के लिए स्थान होना चाहिए, और जो लोग वैध चिंताएं व्यक्त करते हैं, उन पर आपराधिक अवमानना का डर नहीं होना चाहिए।



TELEGRAM CHANNEL: <https://t.me/patrioticIAS>

YOUTUBE CHANNEL: <https://www.youtube.com/@PatrioticIAS>

CONTACT: 9971932488



## When Parliament stayed awake through the night

Though the night was long, members spoke with a sense of urgency and provided a fair share of drama

Sobhana K. Nair

The recently concluded Budget session of Parliament found its place in history. Both Houses sat through the night, closing only before sunrise, when parts of Delhi were just beginning to stir. The productivity of the Lok Sabha was 118% and that of the Rajya Sabha was 119% – numbers that certainly made the presiding officers happy.

This was a rare and significant occasion, but it does not fall into the category of 'first-ever since Independence' – a phrase we hear about nearly every event post-2014. For me, though, it was the first as a parliamentary reporter. At 8:30 p.m., the Chair informed the Rajya Sabha that there were still 22 members scheduled to speak. I prepared myself for a long night.

I imagined that such interminable sittings would get dreary. But to my surprise, each member spoke with a sense of urgency. With an eye on the clock, they hastily ran through their points, pleading with the Chair after the last bell for a few more minutes for their final flourish. Often, the closing argument that they hope will stun their colleagues, catapults them to the news pages and becomes viral on social media. However, there are more misses than hits.

I was worried about the looming print deadline. I began receiving frantic messages from the desk demanding the copy. Much like parliamentarians, reporters too have a fine dance to do. While we would like to keep listening to speeches in the fear that we may otherwise miss out important details, we are also keen to send our copy so that it actually makes it to the morning paper. The danger of hearing the same arguments over and over again, especially at night, is to tune out and then miss crucial nuances – the greys between the black and white.

Once the minor trouble of filing the day's copy was over, I settled down to relish the debates. My exhaustion and anxiety melted away. With thundering monologues, veiled insults, verbal volleys,

amusing fumbles, and curious mix-ups, parliamentary debates provide riveting drama. Where else can one see an actor-turned-politician shivering with anger, gesticulating violently but unable to speak a coherent sentence? I wondered if the lack of a written script tripped up the poor thespian. Fifty minutes past midnight, a woman member, who had launched into an impassioned argument in favour of the Waqf Bill, invoked Victor Hugo. She qualified Hugo as a British author. The Waqf Bill has a prospective clause, but the debate on it retrospectively turned a French senator and author into a British citizen. And just when everyone thought there was some light at the end of the tunnel, a Minister who only talks in rhymes rose to speak. Then came the clause by clause passing of the Bill. To pass a clause, the Chair says, "Those in favour may say 'aye' and those against may say 'no'". Between "the ayes have it" and "the noes have it", and the Bill finally getting passed only at around 2:30 a.m., I had surely had it.

Don't get me wrong: it is a privilege to hear parliamentary debates. It is a privilege hard-earned by our predecessors. The parliamentary debates at Westminster, which we so closely mimic, were not public until the late 19th century. It was only in 1840 that the Parliamentary Papers Act permitted newspapers to publish debates as long as they did not do so "with an evil intent". It was only from 1909 that newspapers which, until then had summarised the debate, were allowed to report them in full. All other limitations were lifted only in 1970 in the House of Commons. In India, in letter, the press has full access to Parliament, but there are several physical barriers to keep us away. There are red lines marked out on the sparkling floors of the new Parliament, which reporters are told not to cross. But we will keep coming back, jumping over the hurdles, to hear debates during the day and at night.

sobhanak.nair@thehindu.co.in

When Parliament stayed awake through the night  
जब संसद ने रात भर जग कर  
काम किया

Though the night was long, members spoke with a sense of urgency and provided a fair share of drama.

रात लंबी थी, लेकिन सदस्यों ने तत्कालता की भावना के साथ बात की और पर्याप्त मात्रा में नाटकीयता भी पेश की।

• The recently concluded **Budget session of Parliament** found its place in history.

हाल ही में समाप्त हुआ संसद का बजट सत्र इतिहास में दर्ज हो गया।

• Both Houses sat through the night, closing only **before sunrise**, when parts of **Delhi** were just beginning to stir — numbers that certainly made the **presiding officers** happy.

दोनों सदनों ने रात भर बैठकर कार्यवाही चलाई, और केवल सूर्योदय से पहले सत्र समाप्त किया, जब दिल्ली के कुछ हिस्से ही जाग रहे थे — ये आंकड़े निश्चित ही सभापतियों को प्रसन्न करने वाले थे।

Address : 3rd Floor, KV Tower, Padleyganj Road, Gorakhpur  
Email Id : [info@patrioticias.in](mailto:info@patrioticias.in)  
Contact Number : 9971932488  
Website : [patrioticias.in](http://patrioticias.in)



- This was a rare and significant occasion, but it does not fall into the category of 'first-ever since Independence' — a phrase we hear about nearly every event post-2014.  
यह एक दुर्लभ और महत्वपूर्ण अवसर था, लेकिन यह 'स्वतंत्रता के बाद पहली बार' जैसी श्रेणी में नहीं आता — यह वाक्य हम लगभग हर 2014 के बाद की घटना के लिए सुनते हैं।
- For me, though, it was the first as a parliamentary reporter.  
मेरे लिए, हालांकि, यह संसदीय संवाददाता के रूप में पहला अनुभव था।
- At 8:30 p.m., the Chair informed the Rajya Sabha that there were still 22 members scheduled to speak. I prepared myself for a long night.  
रात 8:30 बजे, सभापति ने राज्यसभा को सूचित किया कि अब भी 22 सदस्य बोलने के लिए सूची में हैं। मैंने खुद को लंबी रात के लिए तैयार किया।
- I imagined that such interminable sittings would get dreary. But to my surprise, each member spoke with a sense of urgency.  
मैंने सोचा था कि इतनी लंबी बैठकें नीरस हो जाएंगी। लेकिन मेरी आश्चर्य की बात यह थी कि हर सदस्य ने तत्कालता की भावना से बात की।
- With an eye on the clock, they hastily ran through their points, pleading with the Chair after the last bell for a few more minutes for their final flourish.  
घड़ी पर नजर रखते हुए, वे अपने मुद्दों को तेजी से प्रस्तुत कर रहे थे, और अंतिम घंटी के बाद अध्यक्ष से कुछ और मिनटों की अंतिम प्रस्तुति के लिए अनुरोध कर रहे थे।
- Often, the closing argument that they hope will stun their colleagues, catapults them to the news pages and becomes viral on social media.  
अक्सर, वे अंतिम तर्क जो वे सोचते हैं कि उनके सहकर्मियों को चकित कर देंगे, उन्हें समाचार पन्नों पर ला देते हैं और सोशल मीडिया पर वायरल हो जाते हैं।
- However, there are more misses than hits.  
हालांकि, ऐसे असफल प्रयास सफल प्रयासों से ज्यादा होते हैं।
- I was worried about the looming print deadline.  
मैं नजदीक आती प्रिंट की समयसीमा को लेकर चिंतित था।



- I began receiving **frantic messages** from the desk demanding the copy.  
मुझे डेस्क से **घबराए हुए संदेश** मिलने लगे, जो कॉपी की मांग कर रहे थे।
- Much like parliamentarians, reporters too have a **fine dance to do**.  
जैसे सांसदों को संतुलन साधना पड़ता है, वैसे ही पत्रकारों को भी **बड़ी चतुराई से काम करना** पड़ता है।
- While we would like to keep listening to speeches in the fear that we may otherwise **miss out important details**, we are also keen to send our copy so that it actually makes it to the **morning paper**.  
हम भाषण सुनते रहना चाहते हैं इस डर से कि कहीं हम **जरूरी जानकारी ना चूक जाएं**, लेकिन साथ ही हम अपनी कॉपी भेजना भी चाहते हैं ताकि वह **सुबह के अखबार** में छप सके।
- The danger of hearing the same arguments **over and over again**, especially at night, is to **tune out** and then miss crucial **nuances** — the **greys between the black and white**.  
बार-बार वही तर्क सुनने का खतरा, खासकर रात में, यह है कि हम **ध्यान हटाने** लगते हैं और महत्वपूर्ण **सूक्ष्म पहलुओं** को चूक जाते हैं — यानी **काले और सफेद के बीच की धुंधली परछाइयों** को।

Once the minor trouble of filing the day's copy was over, I settled down to relish the debates

जैसे ही दिन की रिपोर्ट फाइल करने की छोटी समस्या खत्म हुई, मैंने बहस का आनंद लेने के लिए खुद को सहज किया

- My **exhaustion and anxiety** melted away.  
मेरी **थकावट और चिंता** दूर हो गई।
- With **thundering monologues, veiled insults, verbal volleys, amusing fumbles, and curious mix-ups**, parliamentary debates provide **riveting drama**.  
गर्जन वाले **एकपक्षीय भाषण, छिपे हुए ताने, मौखिक हमले, मजेदार गलतियाँ, और अजीब गड़बड़ियों** के साथ, संसदीय बहसें एक **रोचक नाटक** प्रस्तुत करती हैं।
- Where else can one see an **actor-turned-politician** shivering with anger, **gesticulating violently** but unable to speak a **coherent sentence**?  
और कहाँ देखा जा सकता है कि कोई **अभिनेता से नेता बने व्यक्ति** गुस्से में कांप रहा हो, **हाथों से जोर-जोर से इशारे** कर रहा हो लेकिन कोई **सुसंगत वाक्य** बोल ही न पा रहा हो?



- I wondered if the lack of a **written script** tripped up the poor **thespian**.  
मैंने सोचा कि क्या लिखित स्क्रिप्ट की कमी ने उस बेचारे अभिनेता को परेशान कर दिया।
- **Fifty minutes past midnight**, a **woman member**, who had launched into an **impassioned argument** in favour of the **Waqf Bill**, invoked **Victor Hugo**.  
आधी रात के पचास मिनट बाद, एक महिला सांसद, जिन्होंने वक्फ विधेयक के पक्ष में जोरदार तर्क देना शुरू किया था, ने विक्टर ह्यूगो का उल्लेख किया।
- She qualified **Hugo** as a **British author**.  
उन्होंने ह्यूगो को ब्रिटिश लेखक बताया।
- The **Waqf Bill** has a **prospective clause**, but the debate on it retrospectively turned a **French senator and author** into a **British citizen**.  
वक्फ विधेयक में एक भविष्य प्रभावी प्रावधान है, लेकिन उस पर हुई बहस ने फ्रांसीसी सीनेटर और लेखक को ब्रिटिश नागरिक बना दिया।
- And just when everyone thought there was some **light at the end of the tunnel**, a **Minister** who only talks in **rhymes** rose to speak.  
और जब सभी को लगा कि अब समस्या के अंत में कुछ रोशनी दिख रही है, तभी एक मंत्री, जो केवल कवितानुमा बोलते हैं, बोलने खड़े हो गए।
- Then came the **clause by clause passing** of the Bill.  
फिर आया विधेयक का धारा दर धारा पारित किया जाना।
- To pass a clause, the Chair says, "Those in favour may say 'aye' and those against may say 'no'".  
किसी धारा को पारित करने के लिए, अध्यक्ष कहते हैं, "जो पक्ष में हैं वे 'हाँ' कहें और जो विरोध में हैं वे 'ना' कहें"।
- Between "the **ayes have it**" and "the **noes have it**", and the Bill finally getting passed only at around **2:30 a.m.**, I had surely had it.  
"हाँ जीत गया" और "ना जीत गया" के बीच, और विधेयक के करीब **2:30 बजे रात** पारित होने तक, मैं पूरी तरह थक चुका था।
- Don't get me wrong: it is a **privilege** to hear parliamentary debates.  
गलत मत समझिए: संसदीय बहस सुनना एक विशेषाधिकार है।



- It is a **privilege hard-earned** by our **predecessors**.  
यह हमारे पूर्वजों द्वारा कड़ी मेहनत से प्राप्त किया गया विशेषाधिकार है।
- The **parliamentary debates at Westminster**, which we so closely mimic, were **not public until the late 19th century**.  
हम जिनकी नकल करते हैं, वे वेस्टमिंस्टर की संसदीय बहसों 19वीं सदी के अंत तक सार्वजनिक नहीं थीं।
- It was only in **1840** that the **Parliamentary Papers Act** permitted newspapers to publish debates as long as they did not do so "with an evil intent".  
केवल **1840** में **पार्लियामेंटरी पेपर्स अधिनियम** के तहत अखबारों को बहसों प्रकाशित करने की अनुमति मिली, बशर्ते वे उन्हें "दुष्ट इरादे से" प्रकाशित न करें।
- It was only from **1909** that newspapers, which until then had summarised the debate, were allowed to report them **in full**.  
**1909** से ही अखबारों को, जो तब तक बहसों का केवल सारांश छापते थे, उन्हें **पूरी रिपोर्टिंग** की अनुमति दी गई।
- All other limitations were lifted only in **1970** in the **House of Commons**.  
अन्य सभी प्रतिबंध केवल **1970** में **हाउस ऑफ कॉमन्स** में हटाए गए।
- In **India**, in letter, the **press has full access to Parliament**, but there are several **physical barriers** to keep us away.  
भारत में, कागज़ पर तो **प्रेस को संसद में पूर्ण पहुंच** है, लेकिन कई **भौतिक बाधाएं** हमें दूर रखती हैं।
- There are **red lines** marked out on the **sparkling floors** of the **new Parliament**, which reporters are told **not to cross**.  
**नई संसद की चमचमाती ज़मीन पर लाल रेखाएँ** खींची गई हैं, जिन्हें पत्रकारों से कहा जाता है कि वे **पार न करें**।

But we will keep coming back, **jumping over the hurdles**, to hear debates during the **day and night** at

लेकिन हम बार-बार लौटते रहेंगे, **बाधाएं पार करते हुए**, ताकि हम **दिन और रात** में बहसों सुन सकें।



## Democracies in decline

### लोकतंत्र का पतन

Across the world, liberal democracies are in decline, while closed autocracies are on the rise. This trend, which began in the 2010s, has worsened in the 2020s.

दुनिया भर में उदारवादी लोकतंत्र घट रहे हैं, जबकि बंद तानाशाही बढ़ रही है। यह प्रवृत्ति 2010 के दशक में शुरू हुई थी और 2020 के दशक में और खराब हो गई है।

- The number of **closed autocracies** has increased in the **2020s**—reversing the steady decline seen since the **1980s**, according to the **V-Dem Institute**.  
V-Dem संस्थान के अनुसार, बंद तानाशाही व्यवस्थाओं की संख्या 2020 के दशक में बढ़ी है — जो कि 1980 के दशक से देखी गई सतत गिरावट को पलट रही है।
- The most significant rise in closed autocracies has occurred in **West Asia** and **North Africa**, as well as in **South Asia**.  
पश्चिम एशिया, उत्तरी अफ्रीका और दक्षिण एशिया में बंद तानाशाही व्यवस्थाओं में सबसे अधिक वृद्धि देखी गई है।
- In **Europe** and **Central Asia**, liberal democracies are rapidly shrinking, while **electoral democracies** are gaining ground.  
यूरोप और मध्य एशिया में उदारवादी लोकतंत्र तेजी से घट रहे हैं, जबकि चुनावी लोकतंत्र मजबूत हो रहे हैं।
- In **Sub-Saharan Africa**, both trends—**democratic erosion** and **autocratic consolidation**—are evident.  
उप-सहारा अफ्रीका में, लोकतंत्र का क्षरण और तानाशाही का सुदृढ़ीकरण, दोनों प्रवृत्तियाँ स्पष्ट रूप से देखी जा सकती हैं।
- While the **Latin American & Caribbean** and **East Asia & Pacific** regions have not reflected the recent erosion of democratic values to the same extent, their existing state is far from ideal.  
हालाँकि लैटिन अमेरिका और कैरिबियन तथा पूर्वी एशिया और प्रशांत क्षेत्र में लोकतांत्रिक मूल्यों का हालिया क्षरण उतनी तीव्रता से नहीं दिखा है, लेकिन वहाँ की वर्तमान स्थिति भी आदर्श से बहुत दूर है।



**GRAPHICALLY SPEAKING**

# Democracies in decline

GS Paper II: Democracy

Across the world, liberal democracies are in decline, while closed autocracies are on the rise. This trend, which began in the 2010s, has worsened in the 2020s

Kushal Varma JV  
Vignesh Radhakrishnan

The number of closed autocracies have increased in the 2020s—reversing the steady decline seen since the 1980s, according to the V-Dem Institute. The most significant rise in closed autocracies has occurred in West Asia and North Africa, as well as in South Asia. In Europe and Central Asia, liberal democracies are rapidly shrinking, while electoral democracies are gaining ground.

In Sub-Saharan Africa, both trends—democratic erosion and autocratic consolidation—are evident.


While the Latin American & Caribbean and East Asia & Pacific regions have not reflected the recent erosion of democratic values to the same extent,

their existing state is far from ideal. Closed autocracies are defined by the absence of multiparty elections and a lack of fundamental democratic principles such as freedom of speech and expression. Electoral autocracies, while allowing multiparty elections, fall short in upholding these core freedoms. Electoral democracies offer both elections and some civil liberties, but only to a moderate degree. Liberal democracies, by contrast, ensure a robust balance of power between the executive, legislative, and judicial branches, along with strong protections for civil liberties. India has been classified as an electoral autocracy since 2017 and has remained the same since then.

The following graphs and conclusions are based on the V-Dem Institute's Democracy Report 2025.

**TRENDS ACROSS REGIONS**

As of 2024, 20% of the 179 countries assessed are closed autocracies, up from 12% in 2019. In the same period, the share of liberal democracies has declined to 16% from 21%



**SOUTH ASIA**

In 2024, no liberal democracies were identified. Afghanistan was included in the list of closed autocracies.

**SUB-SAHARAN AFRICA**

Liberal democracies shrank to 0% in 2024. From 10% in 2019, closed autocracies have increased to 20% in 2024.

**EUROPE AND CENTRAL ASIA**

Liberal democracies have declined from 47% in 2019 to 25% in 2024. Electoral democracies have increased from 21% in 2019 to 39% in 2024.

**EAST ASIA AND PACIFIC**

Liberal democracies have declined from 47% in 2019 to 25% in 2024. Electoral democracies have increased from 21% in 2019 to 39% in 2024.

**LATIN AMERICA AND CARIBBEAN**

In 2024, no liberal democracies were identified.

**WEST ASIA AND NORTH AFRICA**

From 55% in 2019, closed autocracies have further increased to 76% in 2024.

**DEMOCRACY IN PERIL**

According to the V-Dem's latest report, the aspect of democracy that has seen the most significant decline is freedom of expression. This includes key components such as government censorship of the media, restrictions on academic and cultural expression, and the harassment of journalists. A total of 44 countries, including India, have experienced a deterioration in this area.

- Equally concerning is the growing use of disinformation and political polarization by governments worldwide. Disinformation tactics have been employed by governments in 31 countries, including El Salvador, Georgia, Hungary, India, and Serbia, the report added.
- More widespread, however, is the surge in political polarisation, which has intensified in 45 countries. The report highlights that "most autocratizing countries have toxic levels of polarisation," citing Hungary, India, and Peru as key examples.
- Additionally, the report notes a sharp rise in government intimidation of opposition parties during election periods. This trend has worsened in 21 countries, including India.
- Another area of concern is the increasing threat to the autonomy of election management bodies. Attacks have become more common in 21 of the 45 autocratizing countries, including Russia and Indonesia.

DESIGN: SANKAR GANESH T



**PUBLIC OPINION**

Public opinion surveys also indicate a growing preference for strong leaders who can make decisions without interference from courts or Parliaments in some countries, including India. At the same time, support for representative democracy has declined in many countries, including India. The following findings are based on data from a Pew Research Center survey.

**SUPPORT FOR REPRESENTATIVE DEMOCRACY**

In 11 of the 22 countries where comparable data from 2017 is available, the share of people who describe representative democracy as a "very good" way to govern has declined significantly by 2023. For example, in India, 36% of respondents viewed representative democracy very positively in 2023, compared to just 44% in 2017.

NOTE: The charts present the % share of people who say that a system in which representatives elected by citizens decide what becomes law would be a "very good" way of governing their country. Only the 11 countries in which the share declined significantly are shown

**SWEDEN**



**CANADA**



**NIGERIA**




**GERMANY**



**INDIA**



**NETHERLANDS**



**GREECE**



**ITALY**



**U.K.**



**JAPAN**



**KENYA**



**SUPPORT FOR RULE BY AUTOCRATIC LEADER**


Support for a system in which a strong leader can make decisions without checks from courts or Parliaments has risen in 8 of the 22 countries surveyed. This increase is particularly notable in all three Latin American countries included in the study, as well as in Kenya, India, South Korea, Germany, and Poland. For example, in India, 55% of respondents had said a strong leader is good in 2017; this increased to 67% by 2023.

NOTE: The charts present the % share of people who say a system in which a strong leader can make decisions without interference from Parliament or the courts would be a "good" way of governing. Only the 8 countries in which the share rose notably are shown

**KENYA**



**INDIA**



**SOUTH KOREA**



**GERMANY**



**POLAND**



**ARGENTINA**



**BRAZIL**



**MEXICO**



India is part of both the groups. In which, the share of people who described representative democracy as "very good" declined, while the share of people who said that a strong leader deciding without interference was a "good" way of governing has increased.


According to the survey, strong support for representative democracy increased significantly in three countries: Brazil, Mexico and Poland.


The survey also noted that support for the strong leader model was common among people with less education and those with lower incomes.

People who identify themselves as "ideologically right" are more likely to support the rule of a strong leader than those who identify themselves as "left", the survey noted.

**PRESS FREEDOM IN INDIA**

As of 2024, India ranked 159 out of the 180 countries surveyed by Reporters Sans Frontières (RSF). The last time India ranked within the top 100 countries was in 2002. The decline in rankings became steeper since 2022, with India's ranking plummeting below 150.





fundamental **democratic principles** such as **freedom of speech and expression**.

**बंद तानाशाही व्यवस्थाएं** उन देशों को कहा जाता है जहाँ **बहुदलीय चुनाव** नहीं होते और **बोलने व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता** जैसे **मूल लोकतांत्रिक सिद्धांत** मौजूद नहीं होते।

- **Electoral autocracies**, while allowing multiparty elections, fall short in upholding these core freedoms.

**चुनावी तानाशाही** व्यवस्थाएं **बहुदलीय चुनावों** की अनुमति देती हैं, लेकिन **मुख्य स्वतंत्रताओं** को बनाए रखने में विफल रहती हैं।

- **Electoral democracies** offer both **elections** and some **civil liberties**, but only to a **moderate degree**.

**चुनावी लोकतंत्र** में **चुनाव** और कुछ **नागरिक स्वतंत्रताएं** तो होती हैं, लेकिन यह केवल एक **सीमित स्तर** तक ही होता है।

- **Liberal democracies**, by contrast, ensure a **robust balance of power** between the **executive, legislative, and judicial branches**, along with **strong protections for civil liberties**.

इसके विपरीत, **उदारवादी लोकतंत्र** में **कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका** के बीच **संतुलित शक्तियों** का ढाँचा होता है और **नागरिक स्वतंत्रताओं** की **मजबूत सुरक्षा** भी होती है।

- **India** has been classified as an **electoral autocracy** since **2017** and has remained the same since then.

**भारत** को **2017** से **चुनावी तानाशाही** के रूप में वर्गीकृत किया गया है और तब से यह स्थिति यथावत बनी हुई है।

- The following graphs and conclusions are based on the **V-Dem Institute's Democracy Report 2025**.

नीचे दिए गए ग्राफ और निष्कर्ष **V-Dem संस्थान की लोकतंत्र रिपोर्ट 2025** पर आधारित हैं।

•

## TOPICS COVERED GS Paper III: Economy, S&T, Environment, DM, IS)

### 1. Rana extradited to Delhi, arrested by NIA

**राना को दिल्ली लाया गया, एनआईए ने किया गिरफ्तार**



**2. NCB seizes 30.4 kg meth tablets worth ₹24.32 cr. in Assam**

असम में एनसीबी ने ₹24.32 करोड़ की 30.4 किलोग्राम मेथ टेबलेट्स जब्त कीं

**3. Kerala duo develops eco-friendly edible wrappers**

केरल के दो छात्रों ने पर्यावरण-अनुकूल खाने योग्य रैपर्स विकसित किए

**4. Global order is disrupted by trade weaponisation: Rajnath**

व्यापार के हथियारीकरण से वैश्विक व्यवस्था बाधित हो रही है:  
राजनाथ

**5. Maharashtra approves 256 acres of salt pan land for developing Dharavi**

महाराष्ट्र ने धारावी के विकास के लिए 256 एकड़ नमक की जमीन को मंजूरी दी

**6. Early screening for gestational diabetes can ensure a healthy future for mother and child**

गर्भावधि मधुमेह की प्रारंभिक जांच मां और बच्चे के लिए एक स्वस्थ भविष्य सुनिश्चित कर सकती है

**7. Indoor air pollution: can better design help protect our health?**

इनडोर वायु प्रदूषण: क्या बेहतर डिज़ाइन हमारे स्वास्थ्य की रक्षा कर सकता है?

**8. Justice after extradition: On Tahawwur Hussain Rana**

प्रत्यर्पण के बाद न्याय: ताहव्वर हुसैन राणा पर

**9. A Cut in Time: On RBI and Repo Rate Cut**

समय पर कटौती: आरबीआई और रेपो रेट में कटौती पर



## 10. Drop the piecemeal ways to social security for workers

श्रमिकों के लिए टुकड़ों में दी जा रही सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था को छोड़ें

# Rana extradited to Delhi, arrested by NIA

Extradition linked to 2008 Mumbai terror attacks case

Fugitive produced before Special NIA judge at Patiala House Court

Judge reserves orders on NIA plea seeking 20-day custody of Rana

Cong., BJP exchange barbs over steps taken to bring him to India

**GS Paper III: Internal Security**

**T**ahawwur Hussain Rana, the Pakistani-origin Canadian-American wanted for his role in the 26/11 Mumbai terror attacks conspiracy, was brought to Delhi by a special flight on Thursday evening, following his extradition from the United States, and formally arrested by the National Investigation Agency (NIA).

Rana was produced before Special NIA judge Chanderjit Singh, who is hearing arguments on Rana's custody proceedings. Senior advocate Dayan Krishnan and special public prosecutor Narender Mann represented the NIA. The court reserved orders on the NIA plea seeking 20-day custody of Rana.

Advocate Piyush Sachdeva from the Delhi Legal Services Authority is Rana's lawyer.

### Terror trail

Tahawwur Rana's extradition to India was finalised in the terror case trial after years of legal hurdles

**Nov. 11, 2009:** NIA registers case against David Headley, Rana, and others

**Dec. 24, 2011:** Chargesheet filed against them and seven others

**Dec. 4, 2019:** India requests Rana's extradition from the U.S.



**May 16, 2023:** U.S. court approves extradition  
**Aug. 15, 2024:** Appeals court upholds extradition  
**Feb. 11, 2025:** U.S. approves extradition, a day before Narendra Modi-Donald Trump meet  
**Feb. 13, 2025:** Rana seeks relief again; Modi and Trump issue joint extradition statement  
**Apr. 7, 2025:** Chief Justice rejects final appeal  
**Apr. 10, 2025:** NIA brings Rana to New Delhi for prosecution  
**Complex case:** NIA officials with Tahawwur Rana on his arrival in Delhi on Thursday. ANI

Rana was brought to the Patiala House Court in a cavalcade of vehicles, including a jail van, an armoured Special Weapons and Tactics (SWAT) vehicle and an ambulance. Ahead of the production of Rana before the court, the Delhi Police removed presspersons and members of the public from the court premises, citing security concerns.

Rana's extradition triggered

a heated exchange between the Bharatiya Janata Party (BJP) and the Congress, with the ruling party asserting that it reflected new India's zero-tolerance resolve toward terrorism, under Prime Minister Narendra Modi. The Congress, however, slammed the government for "rushing to take credit" claiming that the extradition was the result of years

of diplomatic groundwork started in the UPA era. Tihar Jail officials said all preparations have been made for his incarceration in a high-security ward.

Born in Pakistan, Rana studied at the Pakistani military academy in Hassan Abdal in Pakistan's Punjab province where he became friends with David Coleman Headley aka Daoud Gilani, the Lashkar

### Pakistan claims Rana is Canadian, denies any link

**NEW DELHI** Pakistan on Thursday tried to distance itself from Tahawwur Hussain Rana. Its Foreign Ministry spokesperson Shafiq Ali Khan told reporters that Rana had not attempted to renew his Pakistani citizenship since he left the country, stressing that Rana was a Canadian citizen. » PAGE 5

e-Taiba (LeT) operative who conducted reconnaissance for the Mumbai attacks between November 26 and 29, 2008.

The attacks left 166 people dead and 238 injured. Rana had served as a doctor in the Pakistani army for several years, before he moved to Canada and then to the United States, procuring citizenship in both countries.

It is alleged that Headley made eight visits to India for reconnaissance of potential targets. During those visits, he contacted Rana 231 times and kept him in the loop on the attack plans.

Headley also opened a Mumbai branch office of Rana's immigration law business for use as a front, and Rana helped him secure an Indian business visa. Days before the terror strikes, in November 2008, Rana and his wife had travelled to Mumbai, Delhi, Uttar Pradesh, Gujarat, and Kerala during an 11-vist to India.

### Long legal process

After a Ministry of Home Affairs directive, the NIA registered a case against Headley and Rana on November 11, 2009, alleging a criminal conspiracy among members of Pakistan-based banned terror outfits LeT and Harkat-ul

Jihad-al-Islami (HUJI), to commit terrorist acts in Delhi and other parts of India. The agency filed a chargesheet against them and seven others on December 24, 2011.

Based on the findings, India moved a formal request in December 2019 for Rana's extradition from the U.S., where court proceedings began on June 10, 2020.

A U.S. court approved the extradition on May 16, 2023, which was then challenged. However, on August 15 last year, the U.S. Court of Appeals upheld the order. The U.S. Supreme Court also denied Rana's review petition on January 21, 2025.

On February 13, Prime Minister Narendra Modi and U.S. President Donald Trump issued a joint statement declaring that Rana would be extradited to India. He was handed over to the NIA team on April 9.

## Rana extradited to Delhi, arrested by NIA

राना को दिल्ली लाया गया, एनआईए ने किया गिरफ्तार

Tahawwur Hussain Rana, the Pakistani-origin Canadian-American wanted for his role in the 26/11 Mumbai terror attacks conspiracy, was brought to Delhi by a special flight on Thursday evening, following his



extradition from the United States, and formally arrested by the National Investigation Agency (NIA).

पाकिस्तानी मूल के कनाडाई-अमेरिकी तहव्वुर हुसैन राना, जो 26/11 मुंबई आतंकी हमलों की साजिश में वांछित था, को गुरुवार शाम संयुक्त राज्य अमेरिका से प्रत्यर्पण के बाद विशेष विमान से दिल्ली लाया गया और राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) द्वारा औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया गया।

- Rana was produced before **Special NIA judge Chander Jit Singh**, who is hearing arguments on **Rana's custody proceedings**.  
राना को विशेष एनआईए न्यायाधीश चंदर जीत सिंह के समक्ष पेश किया गया, जो राना की हिरासत प्रक्रिया पर सुनवाई कर रहे हैं।
- **Senior advocate Dayan Krishnan** and **special public prosecutor Narender Mann** represented the **NIA**.  
वरिष्ठ अधिवक्ता दयान कृष्णन और विशेष लोक अभियोजक नरेंद्र मान ने एनआईए का प्रतिनिधित्व किया।
- The court reserved orders on the **NIA plea seeking 20-day custody** of Rana.  
अदालत ने राना की 20 दिन की हिरासत के लिए एनआईए की याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा।
- **Advocate Piyush Sachdeva** from the **Delhi Legal Services Authority** is Rana's lawyer.  
दिल्ली लीगल सर्विसेज अथॉरिटी से अधिवक्ता पीयूष सचदेवा राना के वकील हैं।
- Rana was brought to the **Patiala House Court** in a **cavalcade of vehicles**, including a **jail van**, an **armoured Special Weapons and Tactics (SWAT) vehicle**, and an **ambulance**.  
राना को पटियाला हाउस कोर्ट में कई वाहनों के काफिले में लाया गया, जिसमें एक जेल वैन, एक बख्तरबंद स्वाट वाहन, और एक एम्बुलेंस शामिल थे।
- Ahead of Rana's production before the court, the **Delhi Police** removed **presspersons** and **members of the public** from the court premises, citing **security concerns**.



**TELEGRAM CHANNEL:** <https://t.me/patrioticIAS>

**YOUTUBE CHANNEL:** <https://www.youtube.com/@PatrioticIAS>

**CONTACT: 9971932488**



अदालत में राना की पेशी से पहले, दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए पत्रकारों और जनता के सदस्यों को कोर्ट परिसर से हटा दिया।

- Rana's **extradition** triggered a **heated exchange** between the **Bharatiya Janata Party (BJP)** and the **Congress**, with the **ruling party** asserting that it reflected **new India's zero-tolerance resolve** toward **terrorism**, under **Prime Minister Narendra Modi**.

राना का प्रत्यर्पण भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और कांग्रेस के बीच तेज बहस का कारण बना, जहां सत्तारूढ़ पार्टी ने इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नए भारत की आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति का प्रतिबिंब बताया।

- The **Congress**, however, slammed the government for “**rushing to take credit**”, claiming that the extradition was the result of **years of diplomatic groundwork** started in the **UPA era**.

हालांकि, कांग्रेस ने सरकार को “तुरंत श्रेय लेने” के लिए आड़े हाथों लिया और कहा कि यह प्रत्यर्पण यूपीए शासनकाल में शुरू हुई वर्षों की कूटनीतिक तैयारी का परिणाम है।

## Rana's Background and Legal Journey

### राना की पृष्ठभूमि और कानूनी प्रक्रिया

- **Tihar Jail officials** said all preparations have been made for his **incarceration in a high-security ward**.  
तिहाड़ जेल अधिकारियों ने कहा कि उसे उच्च सुरक्षा वार्ड में रखने की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।
- Born in **Pakistan**, Rana studied at the **Pakistani military academy in Hassan Abdal in Pakistan's Punjab province**, where he became friends with **David Coleman Headley** aka **Daood Gilani**, the **Lashkar-e-Taiba (LeT)** operative.  
पाकिस्तान में जन्मे राना ने पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में हसन अब्दाल स्थित सैन्य अकादमी में पढ़ाई की, जहाँ वह डेविड कोलमैन हेडली उर्फ दाऊद गिलानी से मित्रता कर बैठा, जो कि लश्कर-ए-तैयबा (LeT) का ऑपरेटिव था।
- Headley conducted **reconnaissance for the Mumbai attacks** between **November 26 and 29, 2008**.  
हेडली ने 26 से 29 नवंबर 2008 के बीच मुंबई हमलों के लिए रेकी की थी।

**Address : 3rd Floor, KV Tower, Padleyganj Road, Gorakhpur**  
**Email Id : info@patrioticias.in**  
**Contact Number : 9971932488**  
**Website : patrioticias.in**



**TELEGRAM CHANNEL:** <https://t.me/patrioticIAS>

**YOUTUBE CHANNEL:** <https://www.youtube.com/@PatrioticIAS>

**CONTACT: 9971932488**



- The attacks left **166 people dead** and **238 injured**.  
इन हमलों में **166 लोग मारे गए** और **238 घायल हुए** थे।
- Rana had served as a **doctor in the Pakistani army** for several years, before moving to **Canada** and then to the **United States**, procuring **citizenship in both countries**.  
राना ने कई वर्षों तक **पाकिस्तानी सेना में डॉक्टर** के रूप में सेवा दी, फिर वह **कनाडा** और बाद में **संयुक्त राज्य अमेरिका** चला गया, जहाँ उसने **दोनों देशों की नागरिकता** प्राप्त की।
- It is alleged that Headley made **eight visits to India** for reconnaissance of potential targets.  
ऐसा आरोप है कि हेडली ने **भारत में संभावित ठिकानों की रेकी** के लिए **आठ बार भारत का दौरा** किया।
- During those visits, he **contacted Rana 231 times** and kept him in the loop on the **attack plans**.  
उन दौरों के दौरान उसने राना से **231 बार संपर्क** किया और उसे **हमले की योजनाओं** में शामिल रखा।
- Headley also **opened a Mumbai branch office** of Rana's **immigration law business** for use as a **front**, and Rana helped him **secure an Indian business visa**.  
हेडली ने राना के **इमिग्रेशन कानून व्यवसाय** की **मुंबई शाखा खोली** जिसे एक **कवच** के रूप में इस्तेमाल किया गया, और राना ने उसे **भारतीय व्यापार वीजा** प्राप्त करने में मदद की।
- Days before the terror strikes, in **November 2008**, Rana and his wife had travelled to **Mumbai, Delhi, Uttar Pradesh, Gujarat, and Kerala** during an **11-day visit to India**.  
**नवंबर 2008** में हमलों से कुछ दिन पहले, राना और उसकी पत्नी ने **11 दिनों की भारत यात्रा** के दौरान **मुंबई, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात और केरल** का दौरा किया था।

## Long Legal Process

### लंबी कानूनी प्रक्रिया

- After a **Ministry of Home Affairs directive**, the **NIA** registered a case against Headley and Rana on **November 11, 2009**, alleging a **criminal conspiracy** among members of **Pakistan-based banned terror outfits LeT and Harkat-ul-Jihad-al-Islami (HUJI)**.  
**गृह मंत्रालय के निर्देश** के बाद, **एनआईए** ने **11 नवंबर 2009** को हेडली और राना के खिलाफ **आपराधिक साजिश** का मामला दर्ज किया, जिसमें **पाकिस्तान स्थित प्रतिबंधित आतंकी संगठनों लश्कर-ए-तैयबा**


**Address : 3rd Floor, KV Tower, Padleyganj Road, Gorakhpur**  
**Email Id : info@patrioticias.in**  
**Contact Number : 9971932488**  
**Website : patrioticias.in**



**TELEGRAM CHANNEL:** <https://t.me/patrioticIAS>

**YOUTUBE CHANNEL:** <https://www.youtube.com/@PatrioticIAS>

**CONTACT: 9971932488**



और हरकत-उल-जिहाद-अल-इस्लामी (HUJI) के सदस्यों की संलिप्तता बताई गई।

- The agency filed a chargesheet against them and seven others on December 24, 2011.  
एजेंसी ने 24 दिसंबर 2011 को उनके और अन्य सात लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की।
- Based on the findings, India moved a formal request in December 2019 for Rana's extradition from the U.S., where court proceedings began on June 10, 2020.  
जांच के निष्कर्षों के आधार पर, भारत ने दिसंबर 2019 में संयुक्त राज्य अमेरिका से राना के प्रत्यर्पण के लिए औपचारिक अनुरोध किया, जहाँ 10 जून 2020 को अदालत में कार्यवाही शुरू हुई।
- A U.S. court approved the extradition on May 16, 2023, which was then challenged.  
एक अमेरिकी अदालत ने 16 मई 2023 को प्रत्यर्पण को मंजूरी दी, जिसे बाद में चुनौती दी गई।
- However, on August 15, 2024, the U.S. Court of Appeals upheld the order.  
हालांकि, 15 अगस्त 2024 को अमेरिकी अपील न्यायालय ने इस आदेश को बरकरार रखा।
- The U.S. Supreme Court also denied Rana's review petition on January 21, 2025.  
अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने भी 21 जनवरी 2025 को राना की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी।
- On February 13, Prime Minister Narendra Modi and U.S. President Donald Trump issued a joint statement declaring that Rana would be extradited to India.  
13 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संयुक्त बयान जारी कर कहा कि राना को भारत प्रत्यर्पित किया जाएगा।
- He was handed over to the NIA team on April 9.  
उसे 9 अप्रैल को एनआईए टीम के हवाले कर दिया गया।



# NCB seizes 30.4 kg meth tablets worth ₹24.32 cr. in Assam

**GS Paper III: IS**


**The Hindu Bureau**

NEW DELHI

The Narcotics Control Bureau (NCB) seized 30.4 kg of **methamphetamine tablets worth ₹24.32 crores** and arrested three accused during two separate operations in Assam's Silchar on April 6, the agency said on Thursday. The **banned substance is popularly known as 'Yaba' tablets.**

Union Home Minister Amit Shah said that the "Modi government is mowing down drug cartels with full might."

In a post on X platform, Mr. Shah said, "in our vision to build a drug-free Bharat, our agencies launched massive operations strangling drug cartels and seized 30.4 kg of methamphetamine tablets worth ₹24.32 crore while arresting three people in Assam. Our offensives



Amit Shah said the Modi govt. is mowing down drug cartels with full might. FILE PHOTO

against drugs will continue with ruthless force. Congratulations to the NCB, Assam Police, and the CRPF on this major breakthrough."

NCB had earlier seized around 110 kg of methamphetamine tablets in two operations on March 13. In the seizure of 7.5 kg at Silchar, one person has been arrested. In the seizure of 102.5 kg at Lilong, near Imphal, Manipur, three persons have been arrested.

**NCB seizes 30.4 kg meth tablets worth ₹24.32 cr. in Assam**

**असम में एनसीबी ने ₹24.32 करोड़ की 30.4 किलोग्राम मेथ टेबलेट्स जब्त कीं**

The Narcotics Control Bureau (NCB) seized 30.4 kg of methamphetamine tablets worth ₹24.32 crores and arrested three accused during two separate operations in Assam's Silchar on April 6, the agency said on Thursday.

**नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने 6 अप्रैल को असम के सिलचर में दो अलग-अलग ऑपरेशनों के दौरान 30.4 किलोग्राम मेथामफेटामाइन टेबलेट्स, जिसकी कीमत ₹24.32 करोड़ है, जब्त की और तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया, यह जानकारी एजेंसी ने गुरुवार को दी।**

• The banned substance is popularly known as 'Yaba' tablets.

यह प्रतिबंधित पदार्थ आमतौर पर 'याबा' टेबलेट्स के नाम

से जाना जाता है।

- **Union Home Minister Amit Shah** said that the "Modi government is mowing down drug cartels with full might."  
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि "मोदी सरकार पूरे जोर से ड्रग माफियाओं को खत्म कर रही है।"



- In a post on X platform, Mr. Shah said, "In our vision to build a **drug-free Bharat**, our agencies launched **massive operations strangling drug cartels** and seized **30.4 kg** of methamphetamine tablets worth **₹24.32 crore** while arresting **three people** in Assam.  
X प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट में श्री शाह ने कहा, "हमारे ड्रग-फ्री भारत के विजन के तहत हमारी एजेंसियों ने ड्रग माफियाओं पर बड़ा ऑपरेशन चलाया और असम में ₹24.32 करोड़ की 30.4 किलोग्राम मेथामफेटामाइन टेबलेट्स जब्त कीं और तीन लोगों को गिरफ्तार किया।"
- Our offensives against drugs will continue with **ruthless force**. Congratulations to the **NCB, Assam Police, and the CRPF** on this **major breakthrough**.  
हमारे ड्रग्स के खिलाफ अभियान आगे भी निर्दयी शक्ति के साथ जारी रहेंगे। इस बड़ी सफलता पर एनसीबी, असम पुलिस और सीआरपीएफ को बधाई।"
- **NCB** had earlier seized around **110 kg** of methamphetamine tablets in **two operations** on **March 13**.  
एनसीबी ने इससे पहले 13 मार्च को दो ऑपरेशनों में करीब 110 किलोग्राम मेथामफेटामाइन टेबलेट्स जब्त की थीं।
- In the seizure of **7.5 kg** at **Silchar**, **one person** has been arrested.  
सिलचर में 7.5 किलोग्राम की जब्ती में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है।
- In the seizure of **102.5 kg** at **Lilong**, near **Imphal, Manipur**, **three persons** have been arrested.  
मणिपुर के इंफाल के पास लिलोंग में 102.5 किलोग्राम की जब्ती में तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है।



## Kerala duo develops eco-friendly edible wrappers

**GS Paper III: S&T**

**Akhila Ajayan**

THIRUVANANTHAPURAM

What if we could bite into our burger without worrying about peeling off its wrapper? Two students at the College of Agriculture, Vellayani, a suburb of Kerala capital Thiruvananthapuram, have now made this possible by developing edible food wrappers.

Ashir Kariyattil, who finished his M.Sc. (Integrated) Biotechnology at the college recently, and Mohammed Nabin, a B.Sc. (Hons.) Agriculture student, are behind this invention. "We wanted to begin a start-up that is beneficial to society. The



**Art and artists:** Bacterial cellulose film that will be developed into edible wrappers (left); Mohammed Nabin and Ashir Kariyattil (right).



edible wrappers will help in reducing plastic waste and promote sustainable living," they say.

A material developed using cellulose-producing bacteria will act as the base product of the wrapper. Emulsifiers derived from bacteria along with essen-

tial oils extracted from specific plants will be incorporated into this material to form the wrapper.

Named 'Eden Wrap', the packaging material will also help extend the shelf life of food. The essential oils used in the wrapper will give it an anti-micro-

bial property, thus extending the shelf life. "The wrapper, which will decompose in a month if discarded, has a plastic like appearance. More awareness about edible wrappers could encourage wider public acceptance," says Mr. Ashir.

"We had initially begun the project with a different concept. However, we started modifying our plans based on the opinions and advice of industry experts and judges whom we met while attending various competitions," says Mr. Mohammed.

"Excellent mentorship helped us improve our

concept. I am extremely thankful to my M.Sc. research guide Soumya V.I. from the Department of Microbiology, who provided a stress-free atmosphere to work on our start-up along with my thesis," says Ashir. "Competition winnings also helped fund the project," they add.

Ashir and Mohammed have decided to spend the next year further developing the project, researching market trends, and acquiring a patent. "We have an opportunity to work on the next step of the product with the Council of Scientific and Industrial Research [CSIR]," says Mr. Mohammed.

### Kerala duo develops eco-friendly edible wrappers

केरल के दो छात्रों ने पर्यावरण-अनुकूल खाने योग्य रैपर्स विकसित किए

What if we could bite into our burger without worrying about peeling off its wrapper?

अगर हम बिना रैपर हटाए अपने बर्गर को खा सकें तो कैसा रहेगा?


- Two students at the **College of Agriculture, Vellayani**, a suburb of **Kerala capital Thiruvananthapuram**, have now made this possible by developing **edible food wrappers**.

केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम के उपनगर वेल्लायानी स्थित कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर के दो छात्रों ने खाने योग्य फूड रैपर्स विकसित कर इसे संभव बना दिया है।

- Ashir Kariyattil**, who finished his **M.Sc. (Integrated) Biotechnology**, and **Mohammed Nabin**, a **B.Sc. (Hons.) Agriculture** student, are behind this invention.

आशिर करियटिल, जिन्होंने हाल ही में एम.एससी. (इंटीग्रेटेड) बायोटेक्नोलॉजी पूरी की है, और मोहम्मद नबीन, जो बी.एससी. (ऑनर्स) एग्रीकल्चर के छात्र हैं, इस आविष्कार के पीछे हैं।

- "We wanted to begin a start-up that is beneficial to society. The edible wrappers will help in **reducing plastic waste** and **promote sustainable living**," they say.



उन्होंने कहा, "हम एक ऐसा स्टार्ट-अप शुरू करना चाहते थे जो समाज के लिए लाभकारी हो। यह खाने योग्य रैपर्स प्लास्टिक कचरे को कम करने और सतत जीवनशैली को बढ़ावा देने में मदद करेंगे।"

- A material developed using **cellulose-producing bacteria** will act as the base product of the wrapper.  
सेल्युलोज उत्पादक बैक्टीरिया से विकसित एक पदार्थ रैपर के मुख्य आधार के रूप में कार्य करेगा।
- **Emulsifiers** derived from bacteria along with **essential oils** extracted from specific plants will be incorporated into this material to form the wrapper.  
इस पदार्थ में बैक्टीरिया से निकाले गए इमल्सीफायर्स और विशेष पौधों से प्राप्त आवश्यक तेल मिलाकर रैपर तैयार किया जाएगा।
- Named '**Eden Wrap**', the packaging material will also help **extend the shelf life** of food.  
इस पैकेजिंग सामग्री का नाम 'ईडन रैप' रखा गया है, और यह खाने की वस्तुओं की शेल्फ लाइफ बढ़ाने में भी मदद करेगा।
- The **essential oils** used in the wrapper will give it an **anti-microbial property**, thus extending the shelf life.  
रैपर में प्रयुक्त आवश्यक तेलों से इसमें प्रतिजैविक गुण आ जाएगा, जिससे शेल्फ लाइफ बढ़ेगी।
- "The wrapper, which will **decompose in a month** if discarded, has a **plastic-like appearance**.  
"यह रैपर अगर फेंक दिया जाए तो एक महीने में नष्ट हो जाएगा और इसका दिखने में प्लास्टिक जैसा स्वरूप होगा।"
- More awareness about edible wrappers could encourage wider public acceptance," says Mr. Ashir.  
श्री आशिर कहते हैं, "खाने योग्य रैपर्स के बारे में अधिक जागरूकता जनता की व्यापक स्वीकृति को प्रोत्साहित कर सकती है।"
- "We had initially begun the project with a different concept. However, we started modifying our plans based on the **opinions and advice of industry experts** and judges whom we met while attending **various competitions**," says Mr. Mohammed.  
श्री मोहम्मद कहते हैं, "हमने शुरुआत में इस परियोजना को एक अलग विचार के साथ शुरू किया था।"



**TELEGRAM CHANNEL:** <https://t.me/patrioticIAS>

**YOUTUBE CHANNEL:** <https://www.youtube.com/@PatrioticIAS>

**CONTACT: 9971932488**



लेकिन विभिन्न प्रतियोगिताओं में मिले उद्योग विशेषज्ञों और जजों की सलाह के आधार पर हमने अपने प्लान्स को संशोधित करना शुरू किया।”

- “**Excellent mentorship** helped us improve our concept. I am extremely thankful to my **M.Sc. research guide Soumya V.I.** from the **Department of Microbiology**, who provided a **stress-free atmosphere** to work on our start-up along with my thesis,” says Ashir.  
आशिर कहते हैं, “उत्कृष्ट मार्गदर्शन ने हमें अपने विचार को बेहतर बनाने में मदद की। मैं अपने एम.एससी. शोध मार्गदर्शक सौम्या वी.आई. का विशेष धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने माइक्रोबायोलॉजी विभाग में मुझे तनाव-मुक्त माहौल दिया, जिससे मैं अपने स्टार्ट-अप और शोध दोनों पर कार्य कर सका।”
- “**Competition winnings** also helped fund the project,” they add.  
वे जोड़ते हैं, “प्रतियोगिताओं में मिली पुरस्कार राशियों से भी इस परियोजना को वित्तीय सहायता मिली।”
- Ashir and Mohammed have decided to spend the **next year** further developing the project, researching **market trends**, and **acquiring a patent**.  
आशिर और मोहम्मद ने आगामी एक वर्ष इस परियोजना को और विकसित करने, बाज़ार प्रवृत्तियों पर शोध करने और **पेटेंट प्राप्त करने** में लगाने का निर्णय लिया है।
- “We have an opportunity to work on the next step of the product with the **Council of Scientific and Industrial Research [CSIR]**,” says Mr. Mohammed.  
श्री मोहम्मद कहते हैं, “हमें इस उत्पाद के अगले चरण पर काम करने का अवसर वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (CSIR) के साथ मिला है।”



# Global order is disrupted by trade weaponisation: Rajnath

Issues such as de-globalisation, intense nationalism, resource scarcity loom large, Defence Minister says; artificial intelligence and other technology is revolutionising warfare in critical ways, he adds

**GS Paper III: Defence**

**The Hindu Bureau**  
UDHAGAMANDALAM

**D**efence Minister Rajnath Singh on Thursday said the weaponisation of trade and finance, anxieties created by concentration of supply chains, monopolies over disruptive technologies and lack of transparency of data flows were leading the world to “an era of self-help and unilateral decisions, leading to a decline of global institutions and order”.

He was speaking at the convocation of the 80th course of the Defence Services Staff College in Wellington, Nilgiris, comprising 479 student officers, including 38 from 26 foreign countries.

The “global geopolitical situation is marked by tremendous flux, with rapidly shifting alignments, disruptions and conflicts being the order of the day”, he said. “Issues such as de-globalisation, intense nationalism, resource scarcity, human migration, food security, climate concerns, and threat of global pandemics loom large.”

He said technologies such as artificial intelligence, robotics, military autonomy, dronery, and



Defence Minister Rajnath Singh attends the convocation at the Defence Services Staff College in Wellington on Thursday. ANI

quantum blockchains were “revolutionising” deterrence and warfare in critical ways.

“Warfare is moving rapidly, beyond the traditional domains of land, sea, and air, to space, cyberspace, the undersea and newer domains of creative endeavour. Dronery, for instance, has emerged in the Ukraine-Russia conflict virtually as a new arm, if not a transformative science. The majority of losses of soldiers and equipment has been attributed neither to traditional artillery nor to armour but to drones. Space capacities in the Low Earth

Orbit similarly, are transforming military intelligence through persistent surveillance, positioning, targeting and communications – thus taking combat to a new high,” he added.

The armed forces will “increasingly need to operate jointly in a multi-domain environment where cyber, space, and information warfare will be as potent as conventional operations”, he said adding that “we are in an age where cyberattacks, disinformation campaigns, and economic warfare have become tools that can prosecute and achieve politico-military aims without

a single shot being fired”.

Mr. Singh said India faced persistent threats along its northern and western borders, “compounded by the threat of proxy war and terrorism emanating from the epicentre of terrorism in our neighbourhood”.

He called upon the officers to develop the ability to be “critical thinkers, capable of analysing issues, extracting relevant deductions and anticipating future requirements”, while being conscious of emerging technologies, geopolitical landscape and national security requirements.

The Defence Ministry decided to observe 2025 as the “Year of Reforms”.

“This would aim at transforming the armed forces into a technologically advanced combat-ready force capable of multi-domain integrated operations. Nine broad areas have been identified, addressing the entire range of modernisation imperatives to include defence acquisition and procedural reforms. I am pleased to share that collectively we are making significant progress on the aims we have set for ourselves,” he added.

**Global order is disrupted by trade weaponisation: Rajnath**

**व्यापार के**

**हथियारीकरण से वैश्विक**

**व्यवस्था बाधित हो रही**

**है: राजनाथ**

• Defence Minister Rajnath Singh on Thursday said the weaponisation of trade and finance, anxieties created by concentration of supply chains, monopolies over disruptive technologies and lack of transparency of data flows were leading the world to “an era of self-help and unilateral decisions, leading to a decline of global institutions and order”.

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को कहा कि व्यापार और वित्त के हथियारीकरण, सप्लाय चैन की एकाग्रता से उत्पन्न चिंता, विघटनकारी तकनीकों पर


एकाधिकार, और डेटा प्रवाह की पारदर्शिता की कमी दुनिया को “आत्मनिर्भरता और एकपक्षीय निर्णयों के युग” की ओर ले जा रहे हैं, जिससे वैश्विक संस्थाओं और व्यवस्था में गिरावट आ रही है।

- He was speaking at the convocation of the 80th course of the Defence Services Staff College in Wellington, Nilgiris, comprising 479 student officers, including 38 from 26 foreign countries.

वे वेलिंगटन, नीलगिरी में डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज के 80वें कोर्स के दीक्षांत समारोह में बोल रहे थे, जिसमें 479 छात्र अधिकारी शामिल थे, जिनमें से 38 अधिकारी 26 विदेशी देशों से थे।



- The **global geopolitical situation** is marked by tremendous flux, with **rapidly shifting alignments, disruptions and conflicts** being the order of the day, he said.  
उन्होंने कहा कि वैश्विक भू-राजनीतिक स्थिति भारी अस्थिरता से चिह्नित है, जहां तेजी से बदलते गठबंधन, विघटन और संघर्ष आम बात हो गई है।
- “Issues such as **de-globalisation, intense nationalism, resource scarcity, human migration, food security, climate concerns**, and the **threat of global pandemics** loom large.”  
“डी-ग्लोबलाइजेशन, तीव्र राष्ट्रवाद, संसाधनों की कमी, मानव प्रवासन, खाद्य सुरक्षा, जलवायु चिंताएं और वैश्विक महामारी का खतरा जैसे मुद्दे गंभीर रूप से सामने हैं।”
- He said technologies such as **artificial intelligence, robotics, military autonomy, dronery**, and **quantum blockchains** were “**revolutionising** deterrence and warfare in critical ways”.  
उन्होंने कहा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक्स, सैन्य स्वायत्तता, ड्रोन तकनीक और क्वांटम ब्लॉकचेन जैसी तकनीकें निवारण और युद्ध के स्वरूपों में क्रांतिकारी बदलाव ला रही हैं।
- “Warfare is moving rapidly beyond the traditional domains of **land, sea, and air**, to **space, cyberspace, the undersea** and newer domains of creative endeavour,” he said.  
उन्होंने कहा कि युद्ध अब तेजी से भूमि, समुद्र और वायु जैसे पारंपरिक क्षेत्रों से आगे बढ़कर अंतरिक्ष, साइबरस्पेस, समुद्र के नीचे और अन्य नवाचारी क्षेत्रों में जा रहा है।
- “**Dronery**, for instance, has emerged in the **Ukraine-Russia conflict** virtually as a new arm, if not a transformative science.”  
उदाहरण के लिए, ड्रोन तकनीक ने यूक्रेन-रूस संघर्ष में लगभग एक नया हथियार बनकर उभर कर, यदि परिवर्तनकारी विज्ञान नहीं तो एक नई सैन्य शाखा बन गई है।
- “The majority of losses of soldiers and equipment has been attributed neither to traditional artillery nor to armour but to **drones**.”  
सैनिकों और उपकरणों की अधिकांश हानि का श्रेय परंपरागत तोपखाने या कवच को नहीं बल्कि ड्रोन को दिया गया है।
- “**Space capacities in the Low Earth Orbit** are transforming **military intelligence** through **persistent surveillance, positioning, targeting** and **communications** — thus



taking combat to a new high,” he added.

उन्होंने कहा कि लो अर्थ ऑर्बिट में स्पेस क्षमताएं सतत निगरानी, स्थिति निर्धारण, लक्ष्यीकरण और संचार के माध्यम से सैन्य खुफिया प्रणाली को बदल रही हैं — जिससे युद्ध को एक नई ऊंचाई मिल रही है।

- The armed forces will “increasingly need to operate jointly in a **multi-domain environment** where **cyber, space, and information warfare** will be as potent as conventional operations,” he said.  
उन्होंने कहा कि सशस्त्र बलों को “मल्टी-डोमेन वातावरण में संयुक्त रूप से काम करने की आवश्यकता होगी जहां साइबर, अंतरिक्ष और सूचना युद्ध पारंपरिक युद्ध की तरह ही प्रभावशाली होंगे।”
- “We are in an age where **cyberattacks, disinformation campaigns, and economic warfare** have become tools that can prosecute and achieve **politico-military aims** without a single shot being fired.”  
“हम ऐसे युग में हैं जहां साइबर हमले, गलत सूचना अभियान और आर्थिक युद्ध ऐसे उपकरण बन गए हैं जिनके जरिए राजनीतिक-सैन्य लक्ष्यों को बिना एक भी गोली चलाए प्राप्त किया जा सकता है।”
- Mr. Singh said **India** faced persistent threats along its **northern and western borders**, “compounded by the threat of **proxy war and terrorism** emanating from the **epicentre of terrorism** in our neighbourhood”.  
श्री सिंह ने कहा कि भारत को अपनी उत्तर और पश्चिमी सीमाओं पर लगातार खतरा बना हुआ है, जिसे हमारे पड़ोस में आतंकवाद के केंद्र से उत्पन्न होने वाले प्रॉक्सी युद्ध और आतंकवाद की धमकी और जटिल बना देती है।
- He called upon the officers to develop the ability to be “**critical thinkers, capable of analysing issues, extracting relevant deductions and anticipating future requirements**”, while being conscious of **emerging technologies, geopolitical landscape and national security requirements**.  
उन्होंने अधिकारियों से आग्रह किया कि वे “क्रिटिकल थिंक्स” बनने की क्षमता विकसित करें, जो मुद्दों का विश्लेषण करने, प्रासंगिक निष्कर्ष निकालने और भविष्य की आवश्यकताओं का अनुमान लगाने में सक्षम हों, और साथ ही नई तकनीकों, भू-राजनीतिक परिदृश्य और राष्ट्रीय सुरक्षा आवश्यकताओं के प्रति सजग रहें।
- The **Defence Ministry** decided to observe **2025 as the “Year of Reforms”**.  
रक्षा मंत्रालय ने 2025 को “सुधारों का वर्ष” के रूप में मनाने का निर्णय लिया है।



- “This would aim at transforming the armed forces into a **technologically advanced combat-ready force** capable of **multi-domain integrated operations.**”  
“इसका उद्देश्य सशस्त्र बलों को तकनीकी रूप से उन्नत, युद्ध के लिए तैयार बल में बदलना है, जो मल्टी-डोमेन एकीकृत संचालन में सक्षम हो।”
- “Nine broad areas have been identified, addressing the entire range of **modernisation imperatives**, to include **defence acquisition** and **procedural reforms.**”  
“आधुनिकीकरण की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नौ प्रमुख क्षेत्रों की पहचान की गई है, जिनमें रक्षा अधिग्रहण और प्रक्रियात्मक सुधार शामिल हैं।”
- “I am pleased to share that collectively we are making **significant progress** on the aims we have set for ourselves,” he added.  
उन्होंने आगे कहा, “मुझे यह साझा करते हुए खुशी हो रही है कि सामूहिक रूप से हम अपने निर्धारित लक्ष्यों की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति कर रहे हैं।”

## Maharashtra approves 256 acres of salt pan land for developing Dharavi

**GS Paper III: Environment**  
MUMBAI

The Maharashtra government has cleared the allocation of 256 acres of salt pan land in Mulund, Kanjurmarg, and Bhandup for the **Dharavi Redevelopment Project (DRP)** to rehabilitate slum dwellers. While environmental concerns have been raised, **DRP CEO S.V.R. Srinivas** said the land was safe for development, having been decommissioned by the Salt Commissioner of India over a decade ago.

“The sea hasn’t touched these plots since the Eastern Express Highway was built. They are no longer flood buffers or under CRZ regulations,” Mr. Srinivas said, adding that all necessary environmental clearances will be obtained before construction.



The allotted land lies west of the expressway, away from ecologically sensitive wetlands frequented by flamingos. AFP

The land lies west of the expressway, away from ecologically sensitive wetlands frequented by flamingos.

The move aligns with Mumbai’s Development Plan 2034, which earmarks salt pan lands for affordable housing. Chief Minister Devendra Fadnavis has stated that without uti-

lising such land, Mumbai’s redevelopment is impossible.

The Union government has already allocated 55 acres in Wadala for an Excise Department complex and 15 acres in Kanjur for Metro Line 6’s car shed.

Critics and Opposition leaders question why housing for the poor faces

**The move aligns with Mumbai’s Development Plan 2034, which earmarks salt pan lands for affordable housing projects**

resistance when infrastructure projects on similar land do not.

Mr. Srinivas clarified that the land remains with the State government, with NMDPL only paying premiums.

“This is a human transformation mission, not just housing,” he said, reiterating the project’s goal of a slum-free Mumbai.

Work will proceed only after securing all environmental approvals, ensuring compliance with regulations.


(With agency inputs)

## Maharashtra approves 256 acres of salt pan land for developing Dharavi

महाराष्ट्र ने धारावी के विकास के लिए 256 एकड़ नमक की जमीन को मंजूरी दी

The Maharashtra government has cleared the allocation of 256 acres of salt pan land in Mulund, Kanjurmarg, and Bhandup for the Dharavi

**Redevelopment Project (DRP) to rehabilitate slum dwellers.**



महाराष्ट्र सरकार ने झुग्गीवासियों के पुनर्वास के लिए धारावी पुनर्विकास परियोजना (DRP) के तहत मुलुंड, कांजुरमार्ग और भांडुप में 256 एकड़ नमक की जमीन आवंटित करने की मंजूरी दे दी है।

- While **environmental concerns** have been raised, DRP CEO **S.V.R. Srinivas** said the land was safe for development, having been **decommissioned by the Salt Commissioner of India** over a **decade ago**.  
हालांकि पर्यावरणीय चिंताएं उठाई गई हैं, लेकिन DRP के CEO एस.वी.आर. श्रीनिवास ने कहा कि यह जमीन विकास के लिए सुरक्षित है, क्योंकि इसे भारत के नमक आयुक्त द्वारा एक दशक से अधिक पहले बंद घोषित किया जा चुका है।
- “The **sea hasn’t touched** these plots since the **Eastern Express Highway** was built. They are no longer **flood buffers** or under **CRZ regulations**,” Mr. Srinivas said, adding that all necessary **environmental clearances** will be obtained before construction.  
श्री श्रीनिवास ने कहा, “ईस्टर्न एक्सप्रेस हाइवे के बनने के बाद से समुद्र ने इन भूखंडों को नहीं छुआ है। अब बाढ़ अवरोधक नहीं हैं और न ही सीआरज़ेड नियमों के अंतर्गत आते हैं।” उन्होंने कहा कि निर्माण से पहले सभी आवश्यक पर्यावरणीय मंजूरियां ली जाएंगी।
- The land lies **west of the expressway**, away from **ecologically sensitive wetlands** frequented by **flamingos**.  
यह जमीन हाइवे के पश्चिम में स्थित है, और पर्यावरणीय रूप से संवेदनशील आर्द्रभूमियों से दूर है जहां अक्सर फ्लेमिंगो पक्षी देखे जाते हैं।
- The move aligns with **Mumbai’s Development Plan 2034**, which earmarks **salt pan lands** for **affordable housing**.  
यह कदम मुंबई विकास योजना 2034 के अनुरूप है, जिसमें नमक की जमीनों को सस्ते आवास के लिए आरक्षित किया गया है।
- **Chief Minister Devendra Fadnavis** has stated that without utilising such land, **Mumbai’s redevelopment** is impossible.  
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि ऐसी जमीन का उपयोग किए बिना मुंबई का पुनर्विकास असंभव है।



- The **Union government** has already allocated **55 acres in Wadala** for an **Excise Department complex** and **15 acres in Kanjur** for **Metro Line 6's car shed**.  
केंद्र सरकार पहले ही वडाला में 55 एकड़ जमीन आबकारी विभाग परिसर के लिए और कांजुर में 15 एकड़ जमीन मेट्रो लाइन 6 के कार शेड के लिए आवंटित कर चुकी है।
- **Critics and Opposition leaders** question why **housing for the poor** faces resistance when **infrastructure projects** on similar land do not.  
आलोचक और विपक्षी नेता सवाल उठा रहे हैं कि जब **इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स** को ऐसी जमीन पर कोई आपत्ति नहीं होती तो **गरीबों के आवास** में विरोध क्यों होता है।
- Mr. Srinivas clarified that the **land remains with the State government**, with **NMDPL** only paying **premiums**.  
श्री श्रीनिवास ने स्पष्ट किया कि यह **जमीन राज्य सरकार के पास ही रहेगी** और **एनएमडीपीएल** केवल **प्रीमियम का भुगतान** करेगा।
- "This is a **human transformation mission**, not just housing," he said, reiterating the project's goal of a **slum-free Mumbai**.  
उन्होंने कहा, "यह सिर्फ आवास नहीं बल्कि एक **मानवीय परिवर्तन मिशन** है," और परियोजना का उद्देश्य **झुग्गी मुक्त मुंबई** को दोहराया।
- Work will proceed only after securing all **environmental approvals**, ensuring **compliance with regulations**.  
सभी **पर्यावरणीय स्वीकृतियां** प्राप्त करने के बाद ही काम शुरू होगा, जिससे **नियमों का पालन** सुनिश्चित हो सके।



# Early screening for gestational diabetes can ensure a healthy future for mother and child

World Health Day 2025, observed on April 7, carried the theme 'Healthy Beginnings, Hopeful Futures' with focus on maternal and newborn health; the campaign urges mothers and doctors to prioritise early pregnancy screening to prevent chronic conditions; effective implementation of national guidelines remains critical to this goal

V. Seshiah  
A. Panneerselvam  
Anjalakshi Chandrasekar  
A. Bhavadharani

GS Paper III: S&T

WORLD HEALTH DAY

**T**his World Health Day (April 7), the World Health Organization (WHO), chose an apt theme: 'Healthy Beginnings, Hopeful Futures.' Diabetologists have, for decades, been propounding the theory of primordial prevention, or preventing diabetes in the womb itself, in order to ensure a happy and healthy future for both the mother and the baby.

The WHO's choice of theme for this World Health Day is a vindication of the work and advocacy campaigns undertaken towards this goal.

Diabetes has long been a silent epidemic, affecting millions worldwide, but its roots often lie much earlier than commonly recognised. Gestational diabetes mellitus (GDM) increases the risk of type 2 diabetes in mothers and metabolic disorders in children. GDM is usually diagnosed between 24 and 28 weeks of pregnancy. However there is now evidence that points to the possibility of preventing its onset during the first trimester or even earlier. Its impact on both the mother and the child are profound and lasting.

Research underlines that maternal glucose levels should be carefully regulated as early as the eighth week of pregnancy.

An early intervention would help prevent foetal hyperinsulinemia, a metabolic disturbance that occurs in the 11th week, and reduce the risk of the child developing diabetes and other non-communicable diseases (NCDs) later in life.

Given India's recent burgeoning diabetes burden, this matter needs immediate attention from the medical community and policymakers.

**The case for glucose screening**  
Existing GDM management is based on screening in the second trimester and commencing treatment. Nevertheless, it may be too late. Maternal hyperglycemia in the first trimester appears to programme the child's foetal metabolism, increasing the risk that the child will be obese and insulin-resistant or develop diabetes later in life.

Leading endocrinologists concur that glucose intolerance should be screened much earlier – at about the eighth week of pregnancy.

Reasonable justification exists because, by the 24-week time point in GDM, the foetus has been exposed to excessive glucose for months. This results in excessive foetal insulin production, which can lead to lifelong metabolic disorders.



Gestational diabetes mellitus poses a significant risk, increasing the likelihood of type 2 diabetes in mothers and metabolic disorders in children. GETTY IMAGES

#### Foetal origin of adult diseases

The 'Foetal Origin of Adult Diseases' (Barker's Hypothesis) suggests that conditions during gestation will affect the child's health over the long term. Early in development, if a foetus is exposed to high blood glucose levels, the programming will be to store more fat, resist insulin, and form metabolic disorders later in life. As a result, researchers have called for a rethink of prenatal care, with glucose control as a primary concern right from the start of pregnancy.

The aim is not only to deal with diabetes in pregnancy but to prevent it before it starts, as stated earlier, through a policy called primordial prevention. The goal of primordial prevention is to prevent diabetes from ever developing in the first place and decrease risk factors before they occur.

#### The eight-week strategy

To mitigate these risks, a new model of early GDM intervention has been proposed, focusing on a key eight-point agenda. These include: Firstly, glucose testing by eight weeks of pregnancy. That way, anything potentially wrong could be picked up before it starts harming the development of the unborn.

Secondly, doing so will prevent foetal hyperinsulinemia, and thereby, no long-term hypoglycemia (low sugar levels) is observed. If the 10-week glucose control of postprandial blood sugar remains below 110 mg/dL, metabolic risks will be limited. In case the post prandial blood sugar levels are over 110 mg/dL, medical nutrition therapy and low-dose metformin (250 mg twice daily) can halt the rise of glucose to prevent the

**The aim is not only to deal with diabetes in pregnancy but to prevent it before it starts through primordial prevention which aims to prevent it from ever developing**

development of GDM later in pregnancy. There is clinical evidence that this strategy has been effective in preventing GDM in the third trimester with less probability. It further prevents the necessity of insulin therapy since it is at this stage that GDM is mostly diagnosed.

#### The Indian context

Currently, India has more than seventy-seven million people with diabetes, and the numbers are increasing. It is pretty alarming that about 20% of pregnant women in India develop GDM, exposing both the mothers and their offspring to long-term health burdens related to metabolic disease.

One reason this is so is because the maternal care checklists and prenatal care guidelines remain anchored to traditional screening times.

There are several issues which are prevalent only in India that make early intervention all the more important.

Lack of early care: The majority of women of Indian origin do not go for antenatal checkups until the second trimester, thereby missing the screening period.

Indian women are more vulnerable to insulin resistance and diabetes profile than any other racial group. Therefore, early diagnosis and intervention are

critical. Not only patients but healthcare providers too lack sufficient knowledge of first-trimester hyperglycemia and its possible consequences. Therefore, the development of early GDM screening and intervention policy across the country is now absolutely critical.

#### Rethinking clinical guidelines

Diabetologists have lately urged early detection of blood glucose levels. While concluding the 18th Annual Conference of Diabetes in Pregnancy Study Group India (DIPSI 2024), the delegates and experts stressed the following points: Risk modification through pre-conception period concerns, dietary control, exercise, and preventive medication before conception; Long-term monitoring of blood glucose levels in high-risk pregnant mothers to trace glucose levels throughout pregnancy.

Some measures are recommended in the national guidelines to implement them and standardise the care in India. The facts are evident and vivid – timely interventions can eradicate complications that last a lifetime.

To ensure that this new approach works, there is a need for a new conceptualisation of maternal care involving all the stakeholders, including the care providers, policymakers, and the general public.

Key steps include: Developing educational programmes to encourage healthcare providers in primary and remote areas to use early glucose screening; changing the guidelines for pregnancy care across all the States and territories to provide glucose screening by the eighth week.

Making all tests and treatment accessible and affordable for the mother and the foetus is another key recommendation.

**New standard of maternal health**  
Diabetes prevention starts in the womb. Consequently, the first eight weeks of pregnancy pose a critical period.

Since diabetes is a major emerging epidemic in India, adapting this standard of maternal care is no longer a choice; it is a must. If allowed to fight diabetes, we should do it right from the roots, or in this case, from the womb.

*(Dr. V. Seshiah, is a diabetologist practicing in Chennai and is the founder and patron of the Diabetes in Pregnancy Study Group India and can be reached at vseshiah@gmail.com*

*Dr. A Panneerselvam, senior consultant diabetologist, can be reached at drapselvams@yahoo.com*

*Dr. Anjalakshi Chandrasekar is senior consultant in obstetrics and gynaecology, can be reached at dranjalakshi@gmail.com and*

*Dr. A. Bhavadharani is senior consultant diabetologist, can be reached at srcladiab@yahoo.com*

#### THE GIST


Gestational diabetes mellitus is usually diagnosed between 24 and 28 weeks of pregnancy. However there is evidence now that points to the ability to prevent its onset during the first trimester or even earlier. Its impact on both the mother and the child are profound and lasting

Research underlines that maternal glucose levels should be carefully regulated as early as the eighth week of pregnancy. Early intervention would help reduce the risk of the child developing diabetes and other non-communicable diseases later in life

About 20% of pregnant women in India develop GDM, exposing both the mothers and their offspring to long-term health burdens. One reason for this is because maternal care checklists and prenatal care guidelines remain anchored to traditional screening times

**Early screening for gestational diabetes can ensure a healthy future for mother and child**

**गर्भावधि मधुमेह की प्रारंभिक जांच मां और बच्चे के लिए एक स्वस्थ भविष्य सुनिश्चित कर सकती है**



World Health Day 2025, observed on April 7, carried the theme 'Healthy Beginnings, Hopeful Futures' with focus on maternal and newborn health; the campaign urges mothers and doctors to prioritise early pregnancy screening to prevent chronic conditions; effective implementation of national guidelines remains critical to this goal.

विश्व स्वास्थ्य दिवस 2025, जो 7 अप्रैल को मनाया गया, का विषय था 'स्वस्थ शुरुआत, आशावान भविष्य', जिसमें मातृ और नवजात स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित किया गया; इस अभियान ने माताओं और डॉक्टरों से गर्भावस्था की प्रारंभिक जांच को दीर्घकालिक रोगों की रोकथाम के लिए प्राथमिकता देने का आग्रह किया; इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए राष्ट्रीय दिशानिर्देशों का प्रभावी कार्यान्वयन अत्यंत महत्वपूर्ण है।

- This World Health Day (April 7), the World Health Organization (WHO), chose an apt theme: 'Healthy Beginnings, Hopeful Futures.'  
इस विश्व स्वास्थ्य दिवस (7 अप्रैल) को विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने एक उपयुक्त विषय चुना: 'स्वस्थ शुरुआत, आशावान भविष्य।'
- Diabetologists have, for decades, been propounding the theory of **primordial prevention**, or **preventing diabetes in the womb** itself, in order to ensure a happy and healthy future for both the mother and the baby.  
डायबेटोलॉजिस्ट दशकों से मूल रोकथाम (primordial prevention) या गर्भ में ही मधुमेह की रोकथाम के सिद्धांत का समर्थन कर रहे हैं ताकि मां और बच्चे दोनों का एक सुखी और स्वस्थ भविष्य सुनिश्चित किया जा सके।
- The WHO's choice of theme for this **World Health Day** is a vindication of the work and **advocacy campaigns** undertaken towards this goal.  
इस विश्व स्वास्थ्य दिवस के लिए WHO द्वारा चुना गया विषय इस लक्ष्य की दिशा में किए गए कार्य और जागरूकता अभियानों की पुष्टि है।
- **Diabetes** has long been a **silent epidemic**, affecting **millions worldwide**, but its roots often lie much earlier than commonly recognised.  
मधुमेह लंबे समय से एक मूक महामारी रहा है, जो दुनियाभर में लाखों लोगों को प्रभावित करता है, लेकिन इसकी जड़ें आमतौर पर इससे कहीं पहले होती हैं जितना माना जाता है।



**TELEGRAM CHANNEL:** <https://t.me/patrioticIAS>

**YOUTUBE CHANNEL:** <https://www.youtube.com/@PatrioticIAS>

**CONTACT: 9971932488**



- **Gestational diabetes mellitus (GDM)** increases the risk of **type 2 diabetes** in mothers and **metabolic disorders** in children.  
गर्भावधि मधुमेह (GDM) माताओं में टाइप 2 डायबिटीज और बच्चों में चयापचय विकारों के खतरे को बढ़ाता है।
- **GDM** is usually diagnosed between **24 and 28 weeks** of pregnancy.  
GDM आमतौर पर गर्भावस्था के 24 से 28 सप्ताह के बीच पहचाना जाता है।
- However, there is now evidence that points to the possibility of **preventing its onset during the first trimester** or even earlier.  
हालांकि अब ऐसे प्रमाण मिल रहे हैं जो यह संकेत देते हैं कि इसे गर्भावस्था की पहली तिमाही या उससे पहले ही रोका जा सकता है।
- Its impact on both the **mother and the child** are **profound and lasting**.  
इसका प्रभाव मां और बच्चे दोनों पर गहरा और स्थायी होता है।
- Research underlines that **maternal glucose levels** should be carefully regulated as early as the **eighth week** of pregnancy.  
अनुसंधान दर्शाते हैं कि गर्भवती महिलाओं के ग्लूकोज़ स्तर को आठवें सप्ताह से ही सावधानीपूर्वक नियंत्रित किया जाना चाहिए।
- An early intervention would help prevent **foetal hyperinsulinemia**, a metabolic disturbance that occurs in the **11th week**, and reduce the risk of the child developing **diabetes and other non-communicable diseases (NCDs)** later in life.  
प्रारंभिक हस्तक्षेप भ्रूण हाइपरइंसुलिनेमिया को रोकने में मदद कर सकता है, जो एक चयापचय गड़बड़ी है जो 11वें सप्ताह में होती है, और इससे बच्चे में आगे चलकर मधुमेह और अन्य गैर-संचारी रोग (NCDs) के जोखिम को कम किया जा सकता है।
- Given **India's recent burgeoning diabetes burden**, this matter needs **immediate attention** from the **medical community and policymakers**.  
भारत में तेजी से बढ़ते मधुमेह के बोझ को देखते हुए, इस विषय को चिकित्सा समुदाय और नीति-निर्माताओं से तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है।



## The case for glucose screening

### ग्लूकोज़ जांच का महत्व

- Existing **GDM management** is based on screening in the **second trimester** and commencing treatment.  
मौजूदा **GDM प्रबंधन** दूसरी तिमाही में जांच और उपचार शुरू करने पर आधारित है।
- Nevertheless, it may be **too late**.  
हालांकि तब तक बहुत देर हो सकती है।
- Maternal hyperglycemia** in the **first trimester** appears to programme the child's **foetal metabolism**, increasing the risk that the child will be **obese, insulin-resistant**, or develop **diabetes** later in life.  
पहली तिमाही में मातृ उच्च रक्त शर्करा भ्रूण के चयापचय को प्रभावित करती है, जिससे बच्चे में आगे चलकर मोटापा, इंसुलिन प्रतिरोध या मधुमेह का खतरा बढ़ सकता है।
- Leading **endocrinologists** concur that **glucose intolerance** should be screened much earlier — at about the **eighth week** of pregnancy.  
प्रमुख एंडोक्रिनोलॉजिस्ट्स सहमत हैं कि ग्लूकोज़ असहिष्णुता की जांच गर्भावस्था के लगभग आठवें सप्ताह में की जानी चाहिए।
- Reasonable justification exists because, by the **24-week** time point in GDM, the foetus has been exposed to **excessive glucose** for **months**.  
यह उचित तर्क है क्योंकि 24वें सप्ताह तक भ्रूण कई महीनों तक अत्यधिक ग्लूकोज़ के संपर्क में रह चुका होता है।
- This results in **excessive foetal insulin production**, which can lead to **lifelong metabolic disorders**.  
इसका परिणाम होता है अत्यधिक भ्रूण इंसुलिन उत्पादन, जो जीवनभर के चयापचय विकारों का कारण बन सकता है।

## Foetal origin of adult diseases

### वयस्क रोगों की भ्रूणीय उत्पत्ति



- The 'Foetal Origin of Adult Diseases' (Barker's Hypothesis) suggests that **conditions during gestation** will affect the child's health over the long term.  
'वयस्क रोगों की भ्रूणीय उत्पत्ति' (बार्कर की परिकल्पना) यह संकेत देती है कि गर्भावस्था के दौरान की स्थितियां बच्चे के दीर्घकालिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं।
- Early in development, if a foetus is exposed to **high blood glucose levels**, the programming will be to **store more fat, resist insulin**, and form **metabolic disorders** later in life.  
विकास की शुरुआत में, यदि भ्रूण उच्च रक्त ग्लूकोज़ स्तर के संपर्क में आता है, तो इसका प्रोग्रामिंग अधिक वसा संग्रह, इंसुलिन प्रतिरोध और आगे चलकर चयापचय विकार बन जाता है।
- Researchers have called for a **rethink of prenatal care**, with **glucose control** as a primary concern right from the start of pregnancy.  
शोधकर्ताओं ने गर्भपूर्व देखभाल की पुनः समीक्षा का आह्वान किया है, जिसमें ग्लूकोज़ नियंत्रण को शुरुआत से ही प्राथमिक चिंता बनाना चाहिए।
- The aim is not only to deal with **diabetes in pregnancy** but to **prevent it before it starts**, as stated earlier, through a policy called **primordial prevention**.  
उद्देश्य सिर्फ गर्भावस्था में मधुमेह का प्रबंधन करना नहीं, बल्कि इसे शुरू होने से पहले रोकना है, जैसा कि पहले बताया गया, जिसे **मूल रोकथाम (primordial prevention)** कहा जाता है।
- The goal of **primordial prevention** is to prevent **diabetes from ever developing** in the first place and decrease **risk factors** before they occur.  
मूल रोकथाम का उद्देश्य है कि मधुमेह की शुरुआत ही न हो, और जोखिम कारकों को उनके उत्पन्न होने से पहले ही कम कर दिया जाए।

## The eight-week strategy

### आठ सप्ताह की रणनीति

- To mitigate these risks, a **new model of early GDM intervention** has been proposed, focusing on a key **eight-point agenda**.  
इन जोखिमों को कम करने के लिए **GDM के प्रारंभिक हस्तक्षेप का एक नया मॉडल** प्रस्तावित किया गया है, जो एक **आठ-बिंदु एजेंडा** पर केंद्रित है।



- Firstly, **glucose testing by eight weeks** of pregnancy.  
सबसे पहले, गर्भावस्था के आठ सप्ताह तक ग्लूकोज़ परीक्षण किया जाना चाहिए।
- That way, anything potentially wrong could be picked up **before it starts harming** the development of the unborn.  
इस तरह, यदि कुछ भी गलत हो रहा हो तो उसे भ्रूण के विकास को नुकसान पहुंचाने से पहले ही पकड़ा जा सकता है।
- Secondly, doing so will **prevent foetal hyperinsulinemia**, and thereby, **no long-term hypoglycemia** (low sugar levels) is observed.  
दूसरा, इससे भ्रूण हाइपरइंसुलिनेमिया को रोका जा सकता है, और इस तरह दीर्घकालिक हाइपोग्लाइसीमिया (कम शर्करा स्तर) नहीं होता।
- If the **10-week glucose control** of postprandial blood sugar remains below **110 mg/dL**, **metabolic risks** will be limited.  
यदि 10 सप्ताह के पोस्टप्राैंडियल ब्लड शुगर का नियंत्रण 110 mg/dL से कम रहे, तो चयापचय जोखिम सीमित रहेगा।
- In case the **postprandial blood sugar** levels are **over 110 mg/dL**, **medical nutrition therapy** and **low-dose metformin (250 mg twice daily)** can halt the rise of glucose.  
यदि भोजन के बाद की ब्लड शुगर का स्तर 110 mg/dL से अधिक हो, तो मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी और कम खुराक की मेटफॉर्मिन (250 मिग्रा दिन में दो बार) से ग्लूकोज़ के स्तर को बढ़ने से रोका जा सकता है।
- There is clinical evidence that this strategy has been **effective in preventing GDM** in the **third trimester** with **less probability**.  
नैदानिक साक्ष्य बताते हैं कि यह रणनीति तीसरी तिमाही में GDM को रोकने में अधिक प्रभावी रही है।
- It further prevents the necessity of **insulin therapy**, since it is at this stage that GDM is mostly diagnosed.  
यह आगे चलकर इंसुलिन थेरेपी की आवश्यकता को भी रोकती है, क्योंकि GDM आमतौर पर इसी चरण में पहचाना जाता है।

## The Indian Context

### भारतीय परिप्रेक्ष्य




**TELEGRAM CHANNEL:** <https://t.me/patrioticIAS>

**YOUTUBE CHANNEL:** <https://www.youtube.com/@PatrioticIAS>

**CONTACT: 9971932488**



- Currently, **India has more than seventy-seven million people** with diabetes, and the numbers are increasing.  
वर्तमान में भारत में 7.7 करोड़ से अधिक लोग डायबिटीज से पीड़ित हैं, और यह संख्या बढ़ती जा रही है।
- It is pretty alarming that about **20% of pregnant women** in India develop **GDM**, exposing both the mothers and their offspring to long-term health burdens related to metabolic disease.  
यह काफी चिंताजनक है कि भारत में लगभग **20% गर्भवती महिलाएं गर्भकालीन मधुमेह (GDM)** से पीड़ित होती हैं, जिससे मां और शिशु दोनों को दीर्घकालिक मेटाबोलिक बीमारियों का खतरा होता है।
- One reason this is so is because the maternal care checklists and prenatal care guidelines remain anchored to **traditional screening times**.  
इसका एक कारण यह है कि मातृ देखभाल की चेकलिस्ट और प्रसवपूर्व देखभाल दिशानिर्देश अभी भी परंपरागत जांच समयों पर आधारित हैं।
- There are several issues which are prevalent only in India that make early intervention all the more important.  
भारत में कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो केवल यहीं प्रचलित हैं और ये प्रारंभिक हस्तक्षेप को और भी ज़रूरी बना देती हैं।
- **Lack of early care:** The majority of women of Indian origin do not go for antenatal checkups until the **second trimester**, thereby missing the screening period.  
**प्रारंभिक देखभाल की कमी:** अधिकांश भारतीय मूल की महिलाएं दूसरी तिमाही तक प्रसवपूर्व जांच के लिए नहीं जातीं, जिससे वे स्क्रीनिंग के समय को चूक जाती हैं।
- Indian women are more vulnerable to **insulin resistance and diabetes profile** than any other racial group. Therefore, **early diagnosis and intervention** are critical.  
भारतीय महिलाएं इंसुलिन प्रतिरोध और डायबिटीज़ प्रोफाइल के प्रति किसी भी अन्य नस्लीय समूह की तुलना में अधिक संवेदनशील हैं। इसलिए, प्रारंभिक पहचान और हस्तक्षेप अत्यंत आवश्यक है।
- Not only patients but healthcare providers too lack sufficient knowledge of **first-trimester hyperglycemia** and its possible consequences.  
सिर्फ मरीज ही नहीं बल्कि स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को भी पहली तिमाही की हाई ब्लड शुगर और इसके संभावित प्रभावों के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं होती।




- Therefore, the development of **early GDM screening and intervention policy** across the country is now absolutely critical.  
इसलिए देशभर में प्रारंभिक GDM स्क्रीनिंग और हस्तक्षेप नीति का विकास अब अत्यंत आवश्यक है।

## Rethinking Clinical Guidelines

### नैदानिक दिशानिर्देशों पर पुनर्विचार

- Diabetologists have lately urged **early detection of blood glucose levels**.  
हाल ही में डायबिटोलॉजिस्ट्स ने **ब्लड ग्लूकोज लेवल की प्रारंभिक जांच** पर ज़ोर दिया है।
- While concluding the **18th Annual Conference of Diabetes in Pregnancy Study Group India (DIPSI 2024)**, the delegates and experts stressed the following points:  
**डायबिटीज़ इन प्रेग्नेंसी स्टडी ग्रुप इंडिया (DIPSI 2024) के 18वें वार्षिक सम्मेलन के समापन पर प्रतिनिधियों और विशेषज्ञों ने निम्न बिंदुओं पर ज़ोर दिया:**
  - Risk modification through **pre-conception period concerns**, dietary control, exercise, and **preventive medication before conception**;
  - **गर्भधारण से पहले** की सावधानियों, आहार नियंत्रण, व्यायाम और **निवारक दवाओं** के माध्यम से जोखिम में कमी लाना;
  - Long-term monitoring of blood glucose levels in **high-risk pregnant mothers** to trace glucose levels throughout pregnancy.
  - **उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं** में पूरे गर्भकाल के दौरान ब्लड ग्लूकोज स्तर की दीर्घकालिक निगरानी।
- Some measures are recommended in the **national guidelines** to implement them and standardise the care in India.  
इन बिंदुओं को लागू करने और भारत में देखभाल को मानकीकृत करने के लिए **राष्ट्रीय दिशानिर्देशों** में कुछ उपाय सुझाए गए हैं।



- The facts are evident and vivid — **timely interventions** can eradicate complications that last a lifetime.  
तथ्य स्पष्ट हैं — समय पर हस्तक्षेप आजीवन रहने वाली जटिलताओं को समाप्त कर सकता है।
- To ensure that this new approach works, there is a need for a new conceptualisation of **maternal care involving all the stakeholders**, including care providers, policymakers, and the general public.  
इस नए दृष्टिकोण को सफल बनाने के लिए **मातृ देखभाल की नई अवधारणा** की आवश्यकता है, जिसमें **सभी हितधारकों** को शामिल किया जाए – देखभाल प्रदाता, नीति निर्माता और आम जनता।
- Key steps include: Developing **educational programmes** to encourage healthcare providers in **primary and remote areas** to use early glucose screening.  
मुख्य कदमों में शामिल हैं: **प्राथमिक और दूरदराज क्षेत्रों** के स्वास्थ्य कर्मियों को **प्रारंभिक ग्लूकोज स्क्रीनिंग** के लिए प्रोत्साहित करने हेतु **शैक्षिक कार्यक्रमों** का विकास।
- Changing the guidelines for pregnancy care across all the **States and territories** to provide glucose screening by the **eighth week**.  
सभी **राज्यों और क्षेत्रों** में गर्भावस्था देखभाल के दिशानिर्देशों को बदलना ताकि **आठवें सप्ताह तक ग्लूकोज स्क्रीनिंग** सुनिश्चित हो सके।
- Making all **tests and treatment accessible and affordable** for the mother and the foetus is another key recommendation.  
मां और भ्रूण दोनों के लिए सभी **जांच और उपचार को सुलभ और किफायती** बनाना एक और महत्वपूर्ण सुझाव है।

## New Standard of Maternal Health

### मातृ स्वास्थ्य का नया मानक

- **Diabetes prevention starts in the womb.**  
मधुमेह की रोकथाम गर्भ में ही शुरू होती है।
- Consequently, the **first eight weeks of pregnancy** pose a **critical period**.  
इसलिए, गर्भावस्था के **प्रथम आठ सप्ताह** एक **नाजुक समय** होते हैं।
- Since **diabetes is a major emerging epidemic in India**, adapting this **standard of maternal care** is no longer a choice; it is a must.  
चूंकि **भारत में डायबिटीज एक उभरती हुई गंभीर महामारी** है, इसलिए इस **मातृ देखभाल मानक** को अपनाना अब **विकल्प नहीं, बल्कि अनिवार्य** है।



- If allowed to fight diabetes, we should do it right from the **roots**, or in this case, from the **womb**.

अगर हमें डायबिटीज़ से लड़ने की अनुमति मिले, तो हमें इसकी शुरुआत **जड़ से**, यानी इस मामले में **गर्भ से** करनी चाहिए।

## Indoor air pollution: can better design help protect our health?

GS Paper III:  
Environment

**M**ost of us tend to think of air pollution in terms of what is outside the house or building we are currently in: exhaust from motor vehicles on the streets, smoke, and industrial fumes perhaps, but is the air we are breathing inside any better? Does it pose a risk to our health? Can superior construction and design of urban infrastructure help mitigate indoor air pollution hazards?

In India, while conversations around outdoor air pollution have gained ground, the same focus has not yet been given to indoor air quality in buildings, despite the fact that most people in urban areas spend 70 to 90% of their time indoors, says Kalpana Balakrishnan Dean (Research), Sri Ramachandra Institute of Higher Education and Research, Chennai.

**Understanding indoor pollution**  
While most of the indoor or household air pollution in India still comes from the use of solid fuels for cooking, primarily in rural areas, in urban areas, where the switch to cleaner fuels such as gas has mostly been made, there are several other sources of indoor air pollution.

Indoor Air Quality (IAQ), as per the U.S. Environmental Protection Agency (EPA), refers to the air quality within and around buildings and structures, especially as it relates to

the health and comfort of building occupants. Understanding and controlling common pollutants indoors can help reduce your risk of indoor health concerns, it says.

"Indoor air pollution is a very broad term as it comprises both indoor sources of pollution as well as pollution from outdoors that has infiltrated indoors. In India, it is very difficult to distinguish between the sources, because unlike other countries, where homes and buildings might be more insulated from the outdoors, this is not the case with most places in our country, making air pollution heterogeneous. Our biggest concern here is the penetration of outdoor air indoors," says Dr. Balakrishnan.

Outdoor (ambient) air pollution is grouped as a class I carcinogen, meaning it is cancer-causing, apart from contributing to a whole host of other diseases, including respiratory ailments, cardiovascular disease, and diabetes.

Dr. Balakrishnan explained that indoor air pollution is also caused by activities inside a building and by the structure (and materials used) itself. "For instance, smoking, cooking, use of chemical cleaners, and mosquito coils or incense sticks could all impact the quality of air indoors," she said. And then, the building itself – the furnishings, vapour from paint or plastering on walls, as well as biological contaminants such as mould – can also contribute to indoor air pollution and impact the health of people using the building, she explained.

### Impact of indoor air pollution

The EPA states that health effects from indoor air pollution can be experienced soon after exposure or possibly years later. Some of the immediate effects it lists are irritation of the eyes, nose, and throat; headaches; dizziness; and fatigue. Such immediate effects are usually short-term and treatable.

However, it notes that some effects may be similar to those from colds or other viral diseases, making it important to pay attention to the time and place symptoms occur. Health issues that may show up years after exposure, or only after long or repeated periods of exposure may include respiratory diseases, heart disease, and cancer, it says.

A build-up of carbon dioxide within an indoor space due to a large number of people using the same space, combined with poor ventilation, is also known to cause symptoms of sickness.

Generally, it is challenging to precisely point out to what extent poor IAQ can affect health, as information regarding the association between the two is inadequate, states a 2021 paper, 'An Investigative Study on Perceived Indoor Air Quality During COVID-19 Lockdown in India' by T.K. Bedi et al. However, it adds, this should be considered a public health issue.



The most common dangerous domestic pollutants which cause poor indoor air quality. GETTY IMAGES

### Better building design

Prioritising indoor air quality in design is crucial, says Mahesh Ramanujam, president & CEO Global Network for Zero, an independent green certification body helping businesses, buildings, and cities achieve net-zero emissions. One major reason for indoor air pollution, he points out, is that there is lack of good ventilation – most buildings and houses tend to shut their doors and windows to keep the outside out, meaning there is poor airflow, resulting in the circulation of air over and over, giving pathogens a chance to spread.

In settings where it is possible, he says, opening doors and windows and bringing in sunlight as well as the use of plants indoors can help. Sunlight is known to have beneficial effects on health and aid in recovery. But where this is not possible, say in

healthcare facilities where sterile settings are important, designing and building to minimise indoor air pollution can go a long way.

When it comes to the building itself, he says, for several years now, there has been a focus on decreasing the use of volatile organic compounds like formaldehyde as a strategy to address health and well-being.

An intentional design process that incorporates, for instance, skylights, bringing daylight into pathways and hallways, and designing spaces that allow for the movement of people, can help. This can be combined with the use of air purifier units, and high quality HEPA filters to keep out particulate matter and using toxin-free cleaners and greenery where possible, to help with improved air and better health.

### 'Do it while planning'

Studies suggest that indoor concentrations of air pollutants are increasing, driven by factors such as the types of chemicals in home products, inadequate ventilation, hotter temperatures, and higher humidity, says the U.S.'s National Institute of Environmental Health Sciences. This may be of particular concern in India, where a spike in heat, combined with humidity in coastal cities, is already beginning to show impacts on health.

Healthy design elements are easy to incorporate while building a new structure but can also be retrofitted

in existing old buildings, though this may be more challenging, says Sumita Vasudevan, an associate at APRO-build, an architecture and interior design firm based in Chennai. "Earlier, anything that was green was more expensive, but costs have come down, making the difference only marginal; green elements are now part of the design in most buildings. Post-COVID-19, there has been a focus on filtered air, and this is incorporated now into buildings, especially places such as hospitals, through design," she points out.

Buildings that are going to have most rooms air-conditioned must focus on easy-to-maintain surfaces, separation of zones and ease of movement so that there are not too many people using the same room together, natural lighting where possible, proper waste disposal, and, in settings where necessary, good air filters, said Ms. Vasudevan.

Where a sterile setting is not required and air pollution outdoors is not much of a concern, a back to basics approach may be beneficial: open your windows for ventilation and surround yourself with greenery.

zubeeda.h@thehindu.co.in

For feedback and suggestions for 'Science', please write to [science@thehindu.co.in](mailto:science@thehindu.co.in) with the subject 'Daily page'

## Indoor air pollution: can better design help protect our health?

**इनडोर वायु प्रदूषण: क्या बेहतर डिज़ाइन हमारे स्वास्थ्य की रक्षा कर सकता है?**

- Most of us tend to think of air pollution in terms of what is outside the house or building we are currently in: exhaust from motor vehicles on the streets, smoke, and industrial fumes perhaps, but is the air we are breathing inside any better?

हममें से अधिकांश लोग वायु प्रदूषण को उस रूप में सोचते हैं जो घर या इमारत के बाहर होता है: जैसे सड़कों पर मोटर वाहनों से निकलने वाला धुआं, धुएं और औद्योगिक धुएं, लेकिन क्या हम जो हवा अंदर सांस ले रहे हैं वह बेहतर है?

- Does it pose a risk to our health? Can superior construction and design of urban infrastructure help mitigate indoor air pollution hazards?



क्या यह हमारे स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा करता है? क्या शहरी बुनियादी ढांचे का बेहतर निर्माण और डिज़ाइन इनडोर वायु प्रदूषण के खतरों को कम करने में मदद कर सकता है?

- In **India**, while conversations around **outdoor air pollution** have gained ground, the same focus has not yet been given to **indoor air quality** in buildings.

भारत में, जहां बाहरी वायु प्रदूषण पर चर्चाएं बढ़ रही हैं, वहीं भवनों में इनडोर वायु गुणवत्ता पर वैसा ध्यान नहीं दिया गया है।

- Despite the fact that most people in **urban areas** spend **70 to 90%** of their time **indoors**, says **Kalpana Balakrishnan**, Dean (Research), Sri Ramachandra Institute of Higher Education and Research, Chennai.

जबकि शहरी क्षेत्रों में अधिकांश लोग अपना **70 से 90% समय अंदर** बिताते हैं, ऐसा कहना है कल्याणी बालाकृष्णन का, जो श्री रामचंद्र उच्च शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, चेन्नई की अनुसंधान डीन हैं।

## Understanding indoor pollution

### इनडोर प्रदूषण को समझना

- While most indoor or **household air pollution** in India still comes from the use of **solid fuels** for cooking, primarily in **rural areas**, in **urban areas** the switch to cleaner fuels like gas has mostly been made.

भारत में अधिकांश घरेलू वायु प्रदूषण अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में खाना पकाने के लिए ठोस ईंधनों के उपयोग से आता है, जबकि शहरी क्षेत्रों में स्वच्छ ईंधनों जैसे गैस का उपयोग अधिक हो चुका है।

- There are several **other sources** of indoor air pollution in urban settings.

शहरी इलाकों में इनडोर वायु प्रदूषण के कई अन्य स्रोत भी मौजूद हैं।

- **Indoor Air Quality (IAQ)**, as per the **U.S. Environmental Protection Agency (EPA)**, refers to the air quality within and around buildings and structures.

अमेरिकी पर्यावरण संरक्षण एजेंसी (EPA) के अनुसार, इनडोर वायु गुणवत्ता (IAQ) भवनों और संरचनाओं के भीतर और आसपास की वायु गुणवत्ता को दर्शाती है।

- Especially as it relates to the **health and comfort** of building occupants.

यह विशेष रूप से भवन में रहने वालों के स्वास्थ्य और सुविधा से संबंधित है।

- Understanding and controlling **common pollutants indoors** can help reduce your risk of **indoor health concerns**, it says.

आम इनडोर प्रदूषकों को समझना और नियंत्रित करना स्वास्थ्य समस्याओं के खतरे को कम कर सकता है, ऐसा EPA का कहना है।

- “Indoor air pollution is a very broad term as it comprises both **indoor sources of pollution** as well as **pollution from outdoors** that has infiltrated indoors,” says Dr. Balakrishnan.

“इनडोर वायु प्रदूषण एक बहुत व्यापक शब्द है क्योंकि इसमें भीतरी प्रदूषण के स्रोत और बाहर से अंदर आया प्रदूषण दोनों शामिल होते हैं,” डॉ. बालाकृष्णन कहती हैं।

- In India, it is very difficult to distinguish between the sources because unlike other countries, buildings are not very **insulated from the outdoors**.



भारत में इन स्रोतों के बीच अंतर करना मुश्किल है क्योंकि अन्य देशों की तुलना में यहां की इमारतें बाहरी वायु से अलग थलग नहीं होतीं।

- Our biggest concern here is the **penetration of outdoor air indoors**.  
यहां सबसे बड़ी चिंता बाहरी हवा का अंदर प्रवेश करना है।
- **Outdoor (ambient) air pollution** is grouped as a **class 1 carcinogen**, meaning it is **cancer-causing**, apart from contributing to diseases like **respiratory ailments, cardiovascular disease, and diabetes**.  
बाहरी (पर्यावरणीय) वायु प्रदूषण को क्लास 1 कार्सिनोजेन की श्रेणी में रखा गया है, यानी यह कैंसर का कारण बन सकता है, और यह श्वसन रोग, हृदय रोग, और मधुमेह जैसी बीमारियों में भी योगदान करता है।
- Dr. Balakrishnan explained that **indoor air pollution** is also caused by **activities inside a building** and by the **structure/materials** used.  
डॉ. बालाकृष्णन ने बताया कि इनडोर वायु प्रदूषण भवन के भीतर की गतिविधियाँ और संरचना/सामग्री के कारण भी होता है।
- For instance, **smoking, cooking, use of chemical cleaners, and incense sticks** could all impact the **quality of air indoors**.  
उदाहरण के लिए, धूमपान, खाना बनाना, रासायनिक क्लीनर का उपयोग और अगरबत्ती सभी इनडोर हवा की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकते हैं।
- The building itself — the **furnishings, vapours from paint/plastering, and biological contaminants** such as mould — can contribute to indoor air pollution.  
स्वयं भवन — जैसे फर्नीचर, पेंट/प्लास्टर की भाप, और जैविक प्रदूषक जैसे फफूंदी — भी इनडोर वायु प्रदूषण में योगदान कर सकते हैं।

## Impact of indoor air pollution

### इनडोर वायु प्रदूषण का प्रभाव

- The **EPA** states that **health effects** from indoor air pollution can be experienced **soon after exposure or years later**.  
EPA के अनुसार, इनडोर वायु प्रदूषण से स्वास्थ्य पर प्रभाव तुरंत या वर्षों बाद भी दिख सकते हैं।
- Immediate effects include **irritation of eyes, nose, throat; headaches; dizziness; fatigue**.  
तुरंत होने वाले प्रभावों में आंखों, नाक और गले में जलन; सिरदर्द; चक्कर आना; थकान शामिल हैं।
- These **short-term effects** are usually **treatable**.  
ये अल्पकालिक प्रभाव आमतौर पर उपचार योग्य होते हैं।
- However, some effects may **mimic colds or viral diseases**, making it important to observe **timing and place of symptoms**.  
हालांकि, कुछ प्रभाव सर्दी या वायरल बीमारियों जैसे लग सकते हैं, इसलिए लक्षणों का समय और स्थान समझना जरूरी है।



- Health issues that appear **years after exposure or prolonged exposure** may include **respiratory disease, heart disease, and cancer**.  
वर्षों बाद या लंबे समय तक संपर्क में रहने पर जो स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं उनमें श्वसन रोग, हृदय रोग, और कैंसर शामिल हैं।
- **Carbon dioxide build-up** in a crowded room with **poor ventilation** can also cause **sickness symptoms**.  
खराब वेंटिलेशन वाले भीड़भाड़ वाले कमरे में कार्बन डाइऑक्साइड का जमाव भी बीमारी के लक्षण उत्पन्न कर सकता है।
- It is **challenging** to precisely measure how poor **IAQ** affects health due to **inadequate data**, states a **2021 paper** by **T.K. Bedi et al**.  
T.K. Bedi और अन्य द्वारा लिखित **2021 के एक शोधपत्र** के अनुसार, यह बताना **मुश्किल** है कि **खराब IAQ** स्वास्थ्य को कितना प्रभावित करता है क्योंकि **इस पर डेटा अपर्याप्त** है।
- However, it adds, this should be considered a **public health issue**.  
हालांकि, यह भी कहा गया है कि इसे एक **सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या** माना जाना चाहिए।  
**Better building design**  
**बेहतर भवन डिज़ाइन**
- • Prioritising indoor air quality in design is crucial, says Mahesh Ramanujam, president & CEO Global Network for Zero, an independent green certification body helping businesses, buildings, and cities achieve **net-zero emissions**.  
डिज़ाइन में **इनडोर एयर क्वालिटी** को प्राथमिकता देना बहुत ज़रूरी है, ऐसा कहना है महेश रामानुजम का, जो **Global Network for Zero** के अध्यक्ष और सीईओ हैं, जो व्यवसायों, इमारतों और शहरों को **नेट-ज़ीरो उत्सर्जन** प्राप्त करने में सहायता करता है।
- • One major reason for indoor air pollution, he points out, is that there is lack of good **ventilation** — most buildings and houses tend to shut their doors and windows to keep the outside out, meaning there is **poor airflow**, resulting in the circulation of air over and over, giving **pathogens** a chance to spread.  
उन्होंने बताया कि इनडोर वायु प्रदूषण का एक प्रमुख कारण **अच्छे वेंटिलेशन की कमी** है — अधिकतर इमारतों और घर दरवाज़े और खिड़कियाँ बंद रखते हैं, जिससे **वायु संचार खराब** होता है और वही हवा बार-बार घूमती है, जिससे **रोगजनक** फैलने का अवसर मिलता है।
- • In settings where it is possible, he says, opening doors and windows and bringing in **sunlight** as well as the use of **plants indoors** can help.  
जहाँ यह संभव हो, वहाँ **दरवाज़े और खिड़कियाँ खोलना, धूप** को अंदर लाना और **घरेलू पौधों** का प्रयोग मदद कर सकता है।
- • Sunlight is known to have beneficial effects on health and aid in recovery.  
**धूप** को स्वास्थ्य पर लाभकारी प्रभाव डालने और रोग से उबरने में सहायक माना जाता है।
- • But where this is not possible, say in **healthcare facilities** where sterile settings are important, designing and building to minimise indoor air pollution can go a long way.  
लेकिन जहाँ यह संभव नहीं है, जैसे **स्वास्थ्य सुविधाओं** में जहाँ **स्वच्छ वातावरण** ज़रूरी होता है, वहाँ डिज़ाइन और निर्माण से **इनडोर वायु प्रदूषण** को कम करना बहुत सहायक हो सकता है।



- When it comes to the building itself, he says, for several years now, there has been a focus on decreasing the use of **volatile organic compounds** like **formaldehyde** as a strategy to address health and well-being.  
इमारत के स्तर पर, पिछले कई वर्षों से **फॉर्मल्डिहाइड** जैसे **वाष्पशील जैविक यौगिकों** का उपयोग कम करने पर ध्यान दिया जा रहा है ताकि **स्वास्थ्य और कल्याण** को बेहतर बनाया जा सके।
- An intentional design process that incorporates, for instance, **skylights**, bringing **daylight** into pathways and hallways, and designing spaces that allow for the movement of people, can help.  
एक उद्देश्यपूर्ण डिज़ाइन प्रक्रिया जिसमें **स्काईलाइट्स**, **प्राकृतिक रोशनी** को रास्तों और हॉलवे में लाना और **आवागमन की सुविधा** हो, वह सहायक हो सकती है।
- This can be combined with the use of **air purifier units**, and high quality **HEPA filters** to keep out **particulate matter** and using **toxin-free cleaners** and greenery where possible, to help with improved air and better health.  
इसके साथ **एयर प्यूरीफायर यूनिट्स**, उच्च गुणवत्ता के **HEPA फिल्टर्स**, **विष मुक्त क्लीनर**, और जहाँ संभव हो **हरियाली** का उपयोग किया जा सकता है ताकि **हवा और स्वास्थ्य** दोनों में सुधार हो।

## ‘Do it while planning’

### ‘योजना के समय ही करें’

- Studies suggest that **indoor concentrations** of air pollutants are increasing, driven by factors such as the types of chemicals in home products, **inadequate ventilation**, **hotter temperatures**, and **higher humidity**, says the U.S.’s National Institute of Environmental Health Sciences.  
अमेरिका के **National Institute of Environmental Health Sciences** का कहना है कि अध्ययनों से पता चलता है कि **इनडोर वायु प्रदूषकों का स्तर** बढ़ रहा है, जिसका कारण **घरेलू उत्पादों में रसायन, अपर्याप्त वेंटिलेशन, अधिक तापमान, और उच्च आर्द्रता** जैसे कारक हैं।
- This may be of particular concern in **India**, where a spike in **heat**, combined with **humidity** in **coastal cities**, is already beginning to show impacts on health.  
यह भारत के लिए विशेष चिंता का विषय हो सकता है, जहाँ **गर्मी और तटीय शहरों में आर्द्रता** का बढ़ना पहले से ही **स्वास्थ्य पर असर** दिखा रहा है।
- Healthy design elements are easy to incorporate while building a **new structure** but can also be **retrofitted** in **existing old buildings**, though this may be more challenging, says Sumita Vasudevan, an associate at **APRObuild**, an architecture and interior design firm based in Chennai.  
**APRObuild** (चेन्नई आधारित आर्किटेक्चर और इंटीरियर डिज़ाइन फर्म) की सहयोगी सुमिता वासुदेवन कहती हैं कि **स्वस्थ डिज़ाइन तत्वों को नई इमारतों में शामिल करना आसान होता है, लेकिन इन्हें पुरानी इमारतों में जोड़ा भी जा सकता है, हालांकि यह थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है।**
- “Earlier, anything that was **green** was more expensive, but costs have come down, making the difference only marginal; green elements are now part of the design in most buildings.



"पहले हरित तत्व महंगे होते थे, लेकिन अब लागत घट गई है और अंतर मामूली रह गया है; अब अधिकतर इमारतों में ग्रीन डिज़ाइन का हिस्सा होते हैं।"

- Post-COVID-19, there has been a focus on **filtered air**, and this is incorporated now into buildings, especially places such as **hospitals**, through design," she points out.  
कोविड-19 के बाद फिल्टर्ड एयर पर ज़ोर बढ़ गया है और अब यह डिज़ाइन के माध्यम से खासतौर पर अस्पतालों जैसी जगहों में शामिल किया जा रहा है।"
- Buildings that are going to have most rooms **air-conditioned** must focus on **easy-to-maintain surfaces**, **separation of zones** and **ease of movement** so that there are not too many people using the same room together, **natural lighting** where possible, **proper waste disposal**, and, in settings where necessary, good **air filters**, said Ms. Vasudevan.  
जहाँ इमारतों में अधिकतर कमरे एयर-कंडीशन्ड होंगे, वहाँ आसानी से साफ होने वाली सतहों, क्षेत्रों का पृथक्करण, और सुगम आवागमन पर ध्यान देना चाहिए ताकि एक ही कमरे में अधिक लोग एक साथ न हों, प्राकृतिक रोशनी, ठोस कचरे का उचित निपटान, और जहाँ आवश्यक हो, अच्छे वायु फ़िल्टर्स का प्रयोग करना चाहिए।
- Where a **sterile setting** is not required and **air pollution outdoors** is not much of a concern, a **back to basics** approach may be beneficial: open your **windows** for **ventilation** and surround yourself with **greenery**.  
जहाँ स्वच्छ वातावरण की ज़रूरत नहीं होती और बाहरी वायु प्रदूषण अधिक चिंता का विषय नहीं है, वहाँ एक बेसिक अप्रोच उपयोगी हो सकती है: खिड़कियाँ खोलें ताकि वेंटिलेशन हो और अपने चारों ओर हरियाली रखें।



TELEGRAM CHANNEL: <https://t.me/patrioticIAS>

YOUTUBE CHANNEL: <https://www.youtube.com/@PatrioticIAS>

CONTACT: 9971932488



GS Paper III: Internal Security

Now, justice

Rana's extradition allows Indian prosecutors to probe his Pakistan links

**S**eventeen years after the Mumbai 26/11 terror attacks, India is preparing for the trial of Tahawwur Hussain Rana, who was extradited by the United States this week. The extradition of a co-conspirator in the planning of the attacks that left 166 people dead is proof of the success of India's counter-terror diplomacy with the U.S., and the tenacity of Indian investigators. Mr. Rana was first arrested by the U.S. in 2009, as an accomplice of David Headley, the Lashkar-e-Taiba (LeT) operative tasked by Pakistan to carry out the reconnaissance for targets in Mumbai by LeT terrorists, as well as for being a part of a plan to attack a newspaper office in Copenhagen. As Mr. Headley's childhood friend and colleague, Mr. Rana, a Canadian-American citizen and a former Pakistan military doctor, helped plan the attacks and facilitate his multiple entries to India, including once after the attacks, according to U.S. prosecutors. While Mr. Rana was not convicted for the Mumbai attacks in the U.S. trial, he was convicted for his LeT terror links and involvement in the Copenhagen conspiracy, and spent some part of a 14-year sentence in U.S. prisons. His extradition will allow Indian prosecutors to put on trial one of the men charge-sheeted in absentia for the 26/11 attacks; to extract more information on his Pakistan links; and to further the cause of justice after the dastardly attacks that brought the nation to a standstill. Ajmal Kasab, the only one of the 10 LeT gunmen caught alive, was convicted and hanged in 2012.

The prosecutors of the National Investigation Agency, who have followed the 26/11 trail since 2009, will now need to conduct a similar and unimpeachable time-bound trial. The government would also need to investigate certain unanswered questions: including whether Mr. Rana continued to have provable links with the Pakistani military; whether there is more evidence on the extent of Pakistan's official complicity, and why the U.S. chose to enter into a plea bargain with Mr. Headley, giving him immunity from extradition despite a treaty with India. When compared to Mr. Rana, he was clearly the more provably diabolical and culpable agent for the conspiracy. It is also curious that the U.S., that had been tracking Mr. Headley even before the 26/11 attacks, did not alert Indian authorities of his return to India for another reconnaissance operation in early 2009. It is hoped that Mr. Rana's trial will turn the spotlight back on Pakistan, and generate enough pressure on it to cooperate in the prosecution of seven LeT terror commanders, including Hafiz Saeed who planned, trained and equipped the terrorists for the attacks. To that end, Mr. Rana's extradition is a significant step in the quest for justice and closure for the victims of the 26/11 attacks and their families.

**doctor**, helped plan the attacks and facilitated his multiple **entries into India**, including once **after the attacks**, according to U.S. prosecutors.

हेडली का बचपन का दोस्त और सहकर्मी राणा, एक कनाडाई-अमेरिकी नागरिक और पूर्व पाकिस्तानी सैन्य

## Justice after extradition: On Tahawwur Hussain Rana

प्रत्यर्पण के बाद न्याय: ताहव्वर हुसैन राणा पर

Rana's extradition allows Indian prosecutors to probe his links with Pakistan

राणा का प्रत्यर्पण भारतीय अभियोजकों को पाकिस्तान से उसके संबंधों की जांच की अनुमति देता है

• **Seventeen years after the Mumbai 26/11 terror attacks**, India is preparing for the trial of **Tahawwur Hussain Rana**, who was **extradited by the United States** this week.

मुंबई 26/11 आतंकी हमलों के सत्रह वर्ष बाद, भारत ताहव्वर हुसैन राणा के मुकदमे की तैयारी कर रहा है, जिसे इस सप्ताह संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा प्रत्यर्पित किया गया।

• The extradition of a **co-conspirator** in the planning of the attacks that left **166 people dead** is **proof of the success of India's counter-terror diplomacy** with the U.S. and the tenacity of Indian investigators.

इन हमलों की योजना बनाने वाले एक सह-साजिशकर्ता का प्रत्यर्पण, जिसमें **166 लोग मारे गए थे**, भारत की आतंकवाद-रोधी कूटनीति और भारतीय जांचकर्ताओं की दृढ़ता का प्रमाण है।

• Rana was **first arrested in 2009** in the U.S. as an accomplice of **David Headley**, the **Lashkar-e-Taiba (LeT)** operative tasked with **reconnaissance** for the attacks.

राणा को पहली बार 2009 में अमेरिका में गिरफ्तार किया गया था, क्योंकि वह डेविड हेडली का सहयोगी था, जो लश्कर-ए-तैयबा (LeT) का सदस्य था और हमलों के लिए टारगेट की जासूसी करने का जिम्मा उसे सौंपा गया था।

• He was also part of a plan to attack a **newspaper office in Copenhagen**.

वह कोपेनहेगन के एक अखबार कार्यालय पर हमले की योजना का भी हिस्सा था।

• As **Headley's childhood friend** and colleague, Rana, a **Canadian-American citizen** and a **former Pakistan military**

**doctor**, helped plan the attacks and facilitated his multiple **entries into India**, including once **after the attacks**, according to U.S. prosecutors.

हेडली का बचपन का दोस्त और सहकर्मी राणा, एक कनाडाई-अमेरिकी नागरिक और पूर्व पाकिस्तानी सैन्य

Address : 3rd Floor, KV Tower, Padleyganj Road, Gorakhpur

Email Id : [info@patrioticias.in](mailto:info@patrioticias.in)

Contact Number : 9971932488


Website : [patrioticias.in](http://patrioticias.in)



**TELEGRAM CHANNEL:** <https://t.me/patrioticIAS>

**YOUTUBE CHANNEL:** <https://www.youtube.com/@PatrioticIAS>

**CONTACT: 9971932488**



डॉक्टर, ने हमलों की योजना बनाने में मदद की और भारत में कई बार प्रवेश करने में सहायता की, जिसमें एक बार हमलों के बाद भी शामिल था, ऐसा अमेरिकी अभियोजकों का कहना है।

• While Rana was **not convicted** for the **Mumbai attacks** in the U.S. trial, he was **convicted** for his **LeT terror links** and involvement in the **Copenhagen conspiracy**, and spent part of a **14-year sentence** in U.S. prisons.

हालांकि राणा को अमेरिका में मुंबई हमलों के लिए दोषी नहीं ठहराया गया, लेकिन उसे लश्कर से संबंध और कोपेनहेगन षड्यंत्र में भागीदारी के लिए दोषी ठहराया गया, और उसने 14 साल की सजा का कुछ हिस्सा अमेरिका की जेलों में बिताया।

• His extradition will allow Indian prosecutors to put on trial one of the men **charge-sheeted in absentia** for the 26/11 attacks.

उसका प्रत्यर्पण भारतीय अभियोजकों को 26/11 हमलों के लिए गैर-मौजूदगी में आरोपित एक व्यक्ति को मुकदमे में लाने की अनुमति देगा।

• It will help **extract more information** on his **Pakistan links** and further the **cause of justice** after the **dastardly attacks** that brought the nation to a standstill.

यह उसके पाकिस्तान से संबंधों की अधिक जानकारी प्राप्त करने में मदद करेगा और उन क्रूर हमलों के बाद न्याय की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगा, जिन्होंने पूरे देश को जड़ कर दिया था।

• **Ajmal Kasab**, the only one of the **10 LeT gunmen** caught alive, was **convicted and hanged** in 2012.

अजमल कसाब, जो 10 लश्कर हमलावरों में से अकेला जीवित पकड़ा गया, को 2012 में दोषी ठहराकर फांसी दी गई थी।

### Questions After Extradition: The Road Ahead in the Tahawwur Rana Case

प्रत्यर्पण के बाद उठे सवाल: तहेवर राणा केस में आगे की राह

- The prosecutors of the **National Investigation Agency (NIA)**, who have been following the **26/11 trail since 2009**, must now ensure a **similar and unimpeachable time-bound trial**.

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) के अभियोजक, जो 2009 से 26/11 हमले की जांच कर रहे हैं, को अब एक समान और निर्विवाद समयबद्ध मुकदमा सुनिश्चित करना होगा।

- The government must investigate **unanswered questions**, such as whether **Rana had ongoing provable links** with the **Pakistani military**.

सरकार को कुछ अभी तक अनुत्तरित सवालों की जांच करनी चाहिए, जैसे कि क्या राणा के पाकिस्तानी सेना से अब भी प्रमाणित संबंध थे।

- Authorities must examine whether **more evidence exists** on the **extent of Pakistan's official complicity** in the attacks.

**Address : 3rd Floor, KV Tower, Padleyganj Road, Gorakhpur**

**Email Id : info@patrioticias.in**

**Contact Number : 9971932488**

**Website : patrioticias.in**



अधिकारियों को यह भी देखना चाहिए कि क्या हमलों में पाकिस्तान की आधिकारिक संलिप्तता को लेकर और प्रमाण उपलब्ध हैं।

- The government must seek answers on **why the U.S. entered into a plea bargain with David Headley, granting him immunity from extradition, despite having an extradition treaty with India.**

सरकार को यह भी समझना होगा कि भारत के साथ प्रत्यर्पण संधि होने के बावजूद, अमेरिका ने डेविड हेडली के साथ समझौता क्यों किया और उसे प्रत्यर्पण से छूट क्यों दी गई।

- Compared to Rana, **Headley was a more clearly culpable and diabolical conspirator in the attacks.**

राणा की तुलना में, हेडली अधिक स्पष्ट रूप से दोषी और षड्यंत्रकारी व्यक्ति था।

- It is concerning that the **U.S. was tracking Headley even before the 26/11 attacks**, yet did not alert **Indian authorities** when he re-entered India in **early 2009** for **another reconnaissance mission.**

यह चिंताजनक है कि अमेरिका 26/11 से पहले ही हेडली पर नज़र रख रहा था, फिर भी जब वह 2009 की शुरुआत में दोबारा भारत आया, तब भारतीय अधिकारियों को सूचित नहीं किया गया।

- **Rana's trial is expected to refocus global attention on Pakistan and generate pressure to prosecute the seven Lashkar-e-Taiba commanders, including Hafiz Saeed, who planned, trained, and equipped the terrorists.**

राणा का मुकदमा पाकिस्तान पर वैश्विक ध्यान दोबारा केंद्रित कर सकता है और लश्कर-ए-तैयबा के सात कमांडरों, जिनमें हाफिज सईद शामिल है, के खिलाफ कार्यवाही के लिए दबाव बना सकता है, जिन्होंने आतंकियों को योजना, प्रशिक्षण और उपकरण दिए।

- Thus, **Rana's extradition marks a significant step in the quest for justice and closure for the victims of the 26/11 attacks and their families.**


इस प्रकार, राणा का प्रत्यर्पण 26/11 हमले के पीड़ितों और उनके परिवारों के लिए न्याय और closure की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

## National Investigation Agency (NIA)

### राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए)

The **National Investigation Agency (NIA)** is India's premier **counter-terrorism law enforcement agency**, established to investigate offenses affecting the **sovereignty, security, and integrity** of the nation.

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) भारत की प्रमुख आतंकवाद विरोधी कानून प्रवर्तन एजेंसी है, जिसे राष्ट्र की संप्रभुता, सुरक्षा और अखंडता को प्रभावित करने वाले अपराधों की जांच के लिए स्थापित किया गया है।



It functions under the **Ministry of Home Affairs, Government of India.**

यह भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करती है।

### Establishment and Historical Background


#### स्थापना और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

- The NIA was officially formed on **December 31, 2008**, after the enactment of the **National Investigation Agency Act, 2008**.  
एनआईए को 31 दिसंबर 2008 को **राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम, 2008** के पारित होने के बाद आधिकारिक रूप से गठित किया गया।
- The agency was created in response to the **26/11 Mumbai terror attacks**, which **exposed major gaps in India's intelligence and counter-terrorism framework**.  
एजेंसी का गठन 26/11 मुंबई आतंकी हमलों के बाद किया गया, जिसने भारत की **खुफिया और आतंकवाद विरोधी क्षमताओं में बड़ी खामियों** को उजागर किया।
- The Government recognized the need for a **dedicated agency to handle terror-related challenges**, which led to NIA's formation.  
सरकार ने **आतंकवाद से संबंधित चुनौतियों** से निपटने के लिए एक **विशेष एजेंसी** की आवश्यकता को पहचाना, जिससे एनआईए का गठन हुआ।

### Mandate and Jurisdiction

#### कार्यदायित्व और अधिकार क्षेत्र

- The NIA's **primary objective** is to investigate and prosecute offenses that have **national and cross-border implications**, especially related to **terrorism and insurgency**.  
एनआईए का **मुख्य उद्देश्य** ऐसे अपराधों की जांच और अभियोजन करना है, जिनका **राष्ट्रीय और सीमा पार प्रभाव** होता है, विशेषकर **आतंकवाद और उग्रवाद** से संबंधित मामलों में।
- Under the **NIA Act**, the agency can investigate offenses listed in its **Schedule**, including violations under laws like the **Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967**, and the **Atomic Energy Act, 1962**.  
एनआईए अधिनियम के तहत, यह एजेंसी अपनी **अनुसूची** में सूचीबद्ध अपराधों की जांच कर सकती है, जिनमें **गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967** और **परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962** जैसे कानूनों के उल्लंघन शामिल हैं।
- The NIA operates under the **Ministry of Home Affairs**.  
एनआईए **गृह मंत्रालय** के अधीन कार्य करती है।
- It has **pan-India jurisdiction** and does not need **special permission from states** to operate within their territories.



इसका संपूर्ण भारत में अधिकार क्षेत्र है और इसे राज्यों से विशेष अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होती।

### Jurisdiction and Powers

#### अधिकार क्षेत्र और शक्तियाँ

- The NIA is empowered to investigate offenses that **challenge India's sovereignty, security, and integrity**, including:  
एनआईए को भारत की संप्रभुता, सुरक्षा और अखंडता को चुनौती देने वाले अपराधों की जांच करने की शक्ति प्राप्त है, जिनमें शामिल हैं:
  - **Terrorist activities**  
आतंकी गतिविधियाँ
  - **Bomb blasts**  
बम विस्फोट
  - **Hijacking of aircraft and ships**  
विमानों और जहाजों की अपहरण की घटनाएँ
  - **Attacks on nuclear installations**  
परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमले
- The agency can take over investigations of offenses under the **Acts specified in the Schedule of the NIA Act**.  
यह एजेंसी एनआईए अधिनियम की अनुसूची में निर्दिष्ट अधिनियमों के अंतर्गत आने वाले अपराधों की जांच अपने हाथ में ले सकती है।

### Organizational Structure

#### संगठनात्मक ढांचा

- The **Headquarters** of the NIA is located in **New Delhi**.  
एनआईए का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है।
- It is led by a **Director General (DG)**, who is an officer from the **Indian Police Service (IPS)**.  
इसका नेतृत्व भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के एक अधिकारी द्वारा किया जाता है, जिन्हें **महानिदेशक (DG)** कहा जाता है।
- Supporting officers include:  
सहायक अधिकारी निम्नलिखित होते हैं:
  - **Special Director General / Additional Director General** – assist in strategic and operational matters.



विशेष महानिदेशक / अतिरिक्त महानिदेशक – रणनीतिक और संचालनात्मक कार्यों में सहायता करते हैं।

- **Inspector General (IG)** – supervise zones or specialized divisions.  
महानिरीक्षक (IG) – क्षेत्रों या विशेष इकाइयों का निरीक्षण करते हैं।
- **Deputy Inspector General (DIG)** – manage field operations and assist IGs.  
उप महानिरीक्षक (DIG) – मैदान स्तर की कार्रवाइयों को संचालित करते हैं और IG की सहायता करते हैं।
- **Superintendent of Police (SP)** – lead investigative teams.  
पुलिस अधीक्षक (SP) – जांच दलों का नेतृत्व करते हैं।
- **Additional SP and Deputy SP** – support in investigations and administrative work.  
अतिरिक्त SP और उप SP – जांच और प्रशासनिक कार्यों में सहयोग करते हैं।
- **Subordinate ranks** include Inspectors, Sub-Inspectors, ASIs, Head Constables, and Constables.  
निम्न अधिकारी रैंक में निरीक्षक, उप-निरीक्षक, सहायक उप-निरीक्षक, प्रधान सिपाही और सिपाही शामिल होते हैं।

### Key Functions and Powers

#### मुख्य कार्य और शक्तियाँ

- The NIA is empowered to **investigate and prosecute** offenses related to **terrorism, waging war against the country, and other threats to national security**.  
एनआईए को आतंकवाद, देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने और राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने वाले अन्य अपराधों की जांच और अभियोजन का अधिकार प्राप्त है।
- It has the authority to conduct **searches, seizures, and arrests** in connection with scheduled offenses.  
यह निर्धारित अपराधों से संबंधित तलाशी, जब्ती और गिरफ्तारी करने का अधिकार रखती है।
- The agency **coordinates with state police forces** and other law enforcement agencies for **intelligence gathering and unified operations**.  
यह एजेंसी राज्य पुलिस बलों और अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ **खुफिया जानकारी एकत्र करने और समन्वित कार्रवाई** के लिए सहयोग करती है।
- The NIA maintains **databases of terrorist organizations** and their operatives to support **intelligence sharing and planning**.  
एनआईए आतंकी संगठनों और उनके सदस्यों का डेटाबेस रखती है, जिससे **खुफिया साझाकरण और योजना** में मदद मिलती है।



## NIA (Amendment) Act, 2019

### एनआईए (संशोधन) अधिनियम, 2019

- In July 2019, the Indian Parliament passed the NIA (Amendment) Bill, enhancing the agency's powers.  
जुलाई 2019 में, भारतीय संसद ने एनआईए (संशोधन) विधेयक पारित किया, जिससे एजेंसी की शक्तियाँ बढ़ गईं।
- **Expanded Jurisdiction:** Empowers the NIA to investigate offenses committed outside India, if they are against Indian citizens or affect Indian interests.  
विस्तारित अधिकार क्षेत्र: एनआईए को भारत के बाहर किए गए अपराधों की जांच करने का अधिकार देता है, यदि वे भारतीय नागरिकों के खिलाफ हों या भारतीय हितों को प्रभावित करते हों।
- **Additional Offenses:** Brings new offenses such as human trafficking, circulation of counterfeit currency, manufacture and sale of prohibited arms, and cyber-terrorism under the NIA's purview.  
अतिरिक्त अपराध: मानव तस्करी, जाली मुद्रा का प्रसार, प्रतिबंधित हथियारों का निर्माण और बिक्री, और साइबर आतंकवाद जैसे नए अपराधों को एनआईए के अधिकार क्षेत्र में लाया गया।

## Special NIA Courts

### विशेष एनआईए न्यायालय

- The NIA Act provides for the establishment of Special Courts for the trial of scheduled offenses.  
एनआईए अधिनियम के तहत अनुसूचित अपराधों के न्यायिक परीक्षण हेतु विशेष न्यायालयों की स्थापना का प्रावधान है।
- As of December 2024, there are 51 Special NIA Courts across India, with two courts in Ranchi and Jammu designated exclusively for NIA cases.  
दिसंबर 2024 तक, भारत में 51 विशेष एनआईए न्यायालय हैं, जिनमें रांची और जम्मू में दो अदालतें केवल एनआईए मामलों के लिए निर्धारित हैं।
- These courts ensure speedy and fair trials, and have all powers of a Court of Sessions under the Code of Criminal Procedure, 1973.  
ये न्यायालय तेज़ और निष्पक्ष मुकदमे सुनिश्चित करते हैं और इन्हें दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के तहत सत्र न्यायालय की सभी शक्तियाँ प्राप्त हैं।



## Vision and Objectives of NIA

### एनआईए की दृष्टि और उद्देश्य

- The NIA aims to evolve as a professional investigative agency adhering to international standards.  
एनआईए का लक्ष्य है कि वह अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप एक पेशेवर जांच एजेंसी के रूप में विकसित हो।
- Its objectives include:  
इसके उद्देश्य शामिल हैं:
  - Creating a **deterrent effect** for existing and potential **terrorist groups**.  
मौजूदा और संभावित आतंकी समूहों के लिए निवारक प्रभाव पैदा करना।
  - Developing as a **repository of terrorist-related information**.  
आतंकवाद से संबंधित जानकारी का भंडार बनना।
  - Fostering a **highly trained and partnership-oriented workforce**.  
उच्च प्रशिक्षित और साझेदारी उन्मुख कार्यबल को प्रोत्साहित करना।

## Extradition of Fugitive Criminals from India

### भारत से भगोड़े अपराधियों का प्रत्यर्पण

#### Legislative Basis for Extradition in India

#### भारत में प्रत्यर्पण का विधायी आधार

- **The Extradition Act, 1962:** This Act serves as the foundational legal framework for extraditing fugitive criminals from India. It was enacted on **September 15, 1962**, and consolidates and amends laws related to extradition.  
प्रत्यर्पण अधिनियम, 1962: यह अधिनियम भारत से भगोड़े अपराधियों के प्रत्यर्पण के लिए मौलिक कानूनी ढांचा है। इसे 15 सितंबर 1962 को अधिनियमित किया गया था और यह प्रत्यर्पण से संबंधित कानूनों को समेकित और संशोधित करता है।
- **Bilateral and Multilateral Agreements:** Extradition typically requires a **bilateral treaty, agreement, or arrangement** with the requesting country. In absence of such agreements, **multilateral conventions (to which both India and the requesting state are parties)** can serve as the legal basis.



द्विपक्षीय और बहुपक्षीय समझौते: प्रत्यर्पण के लिए आमतौर पर उस देश के साथ द्विपक्षीय संधि, समझौता या व्यवस्था की आवश्यकता होती है जिसने प्रत्यर्पण की मांग की है। ऐसे समझौतों की अनुपस्थिति में, बहुपक्षीय संधियाँ, जिनका भारत और अनुरोध करने वाला देश दोनों पक्ष हैं, कानूनी आधार बन सकती हैं।

- **Extradition Treaties and Arrangements:** India has extradition treaties with 50 countries and extradition arrangements with 11 additional countries.

प्रत्यर्पण संधियाँ और व्यवस्थाएँ: भारत ने 50 देशों के साथ प्रत्यर्पण संधियाँ और 11 अन्य देशों के साथ प्रत्यर्पण व्यवस्थाएँ की हैं।

#### Central Authority for Extradition Matters

प्रत्यर्पण मामलों के लिए केंद्रीय प्राधिकरण

- **Ministry of External Affairs (MEA):** The MEA is the central authority overseeing extradition matters. Within MEA, the **Consular, Passport & Visa (CPV) Division** serves as the nodal point for handling extradition requests.

विदेश मंत्रालय (MEA): प्रत्यर्पण मामलों की देखरेख के लिए विदेश मंत्रालय केंद्रीय प्राधिकरण है। इसमें कॉन्सुलर, पासपोर्ट और वीजा (CPV) प्रभाग प्रत्यर्पण अनुरोधों को संभालने के लिए नोडल बिंदु के रूप में कार्य करता है।

#### Key Definitions Under the Extradition Act, 1962

प्रत्यर्पण अधिनियम, 1962 के तहत प्रमुख परिभाषाएँ

- **Fugitive Criminal (Section 2(f)):** A person accused or convicted of an extradition offence in a foreign state. It includes those who conspire, attempt, incite, or assist in committing such offences.

भगोड़ा अपराधी (धारा 2(f)): ऐसा व्यक्ति जिसे किसी विदेशी राज्य में प्रत्यर्पण अपराध के लिए आरोपित या दोषी ठहराया गया हो। इसमें वे व्यक्ति भी शामिल हैं जो ऐसे अपराध करने के लिए षड्यंत्र, प्रयास, उकसावा या सहायता करते हैं।

- **Extradition Offence (Section 2(c)):**
  - For treaty states: Any offence mentioned in the extradition treaty.
  - For non-treaty states: Any offence punishable with imprisonment of at least one year under the laws of both India and the foreign state.

प्रत्यर्पण अपराध (धारा 2(c)):

- संधि राज्य के लिए: वह अपराध जो प्रत्यर्पण संधि में उल्लिखित हो।



- गैर-संधि राज्य के लिए: ऐसा अपराध जो भारत और उस विदेशी राज्य दोनों के कानूनों के तहत कम से कम एक वर्ष के कारावास से दंडनीय हो।

- **Foreign State (Section 2(e)):** Any state **outside India**, including its **constituent parts, colonies, or dependencies**.

विदेशी राज्य (धारा 2(e)): भारत के बाहर का कोई भी राज्य, जिसमें उसके अवयव, उपनिवेश या आश्रित क्षेत्र शामिल हैं।

### Procedural Framework Under the Extradition Act

#### प्रत्यर्पण अधिनियम के अंतर्गत प्रक्रियात्मक ढांचा

- **Chapter II:** Applies to **countries with which India has treaties**. Requires a **prima facie case** with evidence. The **Inquiry Magistrate** must be satisfied that there is enough evidence as if the offence was committed in India.

अध्याय II: उन देशों पर लागू होता है जिनके साथ भारत की प्रत्यर्पण संधियाँ हैं। इसमें प्राथमिक दृष्टिकोण से साक्ष्य की आवश्यकता होती है। जांच मजिस्ट्रेट को यह सुनिश्चित करना होता है कि ऐसा पर्याप्त साक्ष्य हो जैसे कि अपराध भारत में किया गया हो।

- **Chapter III:** Pertains to **special arrangements** with countries. Requires an **arrest warrant** and **confirmation of the fugitive's identity**. The warrant must be **endorsed by the Central Government**, and the offence should qualify as an extradition offence in India.

अध्याय III: उन देशों से संबंधित है जिनके साथ भारत की विशेष प्रत्यर्पण व्यवस्थाएँ हैं। इसमें गिरफ्तारी वारंट और भगोड़े की पहचान की पुष्टि आवश्यक होती है। वारंट को केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए और अपराध को भारत में प्रत्यर्पण अपराध माना जाना चाहिए।

### Extradition of Indian Nationals

#### भारतीय नागरिकों का प्रत्यर्पण

- The **Extradition Act, 1962 does not prohibit** the extradition of **Indian nationals**. However, whether an Indian citizen can be extradited depends on the **specific clauses** of the respective **extradition treaty**.


प्रत्यर्पण अधिनियम, 1962 भारतीय नागरिकों के प्रत्यर्पण पर प्रतिबंध नहीं लगाता। हालांकि, किसी भारतीय नागरिक का प्रत्यर्पण संबंधित प्रत्यर्पण संधि की विशिष्ट धाराओं पर निर्भर करता है।



**TELEGRAM CHANNEL:** <https://t.me/patrioticIAS>

**YOUTUBE CHANNEL:** <https://www.youtube.com/@PatrioticIAS>

**CONTACT: 9971932488**



- Some treaties may **permit** or **restrict** the extradition of a country's own nationals.  
कुछ संधियाँ अपने देश के नागरिकों के प्रत्यर्पण की अनुमति देती हैं या उसे प्रतिबंधित करती हैं।

PATRIOTIC IAS

**Address : 3rd Floor, KV Tower, Padleyganj Road, Gorakhpur**  
**Email Id : info@patrioticias.in**  
**Contact Number : 9971932488**  
**Website : patrioticias.in**



TELEGRAM CHANNEL: <https://t.me/patrioticIAS>

YOUTUBE CHANNEL: <https://www.youtube.com/@PatrioticIAS>

CONTACT: 9971932488



GS Paper III: Economy

## A cut in time

Countries must build on their economic strengths, not create trade barriers

The Reserve Bank of India (RBI)'s Monetary Policy Committee's unanimous decision to cut the repo rate by 25 basis points, to 6%, is a timely reprieve for India's business community. For weeks now, exporting sectors have been imploring the government to hasten bilateral trade negotiations with the U.S. to attempt to shield themselves from President Donald Trump's "reciprocal" tariffs. The tariffs have been paused for 90 days, except for the 10% universal tariff, which is still applicable. The pause, even while raising tariffs against China to 125% in a trade stand-off with Beijing, suggests a strategy pivot to stem the massive sell-off of U.S. treasury bonds and the gutting of trillions of dollars in American stock valuations. Worried about an economic slowdown as investor sentiment turns negative, the RBI has changed its stance from "neutral" to "accommodative" that could indicate further rate cuts are likely. A decrease in the repo rate will most likely be reflected in loan service reductions for businesses, homeowners and retail borrowers, as banks pass on the rate cut. This began happening hours after the rate cut announcement. The central bank hopes this rate reduction ensures liquidity for businesses in a time of uncertainty, so that they can continue investing in the real economy even as they attempt to diversify their exports.

More ominous, however, is the RBI's lowered GDP growth estimates for the current fiscal, from 6.7% to 6.5%. This indicates that despite the RBI's growth stimulus, steadily declining retail inflation – down to 3.61% in February – and steep falls in food staple prices, the central bank expects a growth contraction due to the uncertain economic climate. It is a universally accepted economic principle that stable governance, along with a predictable policy framework, is a necessary condition to foster growth. It would be no exaggeration to say that this principle has been turned on its head since Mr. Trump's return as President. China's move to impose retaliatory tariffs, totalling 84%, signals the beginning of a full-blown trade war, the likes of which the world has not witnessed since the Smoot-Hawley Act of 1930. Those tariffs, with objectives similar to the current ones – to protect American farming and manufacturing – ushered in an era of economic nationalism in the inter-war years, hitting global trade and contributing significantly to the Great Depression. Perhaps a lesson for nations must be that protecting one's own economy can be achieved without hurting others, so long as countries recognise their competitive advantages and build on them. In America's case, it is doubling down on research, education and innovation.

- Despite this pause, tariffs on China were increased to 125%, indicating a strategic pivot in the U.S. trade policy.

## A Cut in Time: On RBI and Repo Rate Cut

समय पर कटौती: आरबीआई और रेपो रेट में कटौती पर

### RBI's Repo Rate Cut Decision

आरबीआई का रेपो रेट में कटौती का निर्णय

- The Reserve Bank of India (RBI)'s Monetary Policy Committee unanimously decided to cut the repo rate by 25 basis points, bringing it down to 6%.

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) की मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से रेपो रेट में 25 बेसिस प्वाइंट की कटौती कर इसे 6% कर दिया।

- This move is considered a timely reprieve for India's business community.

यह कदम भारत के व्यापार समुदाय के लिए समय पर राहत माना जा रहा है।

### Concerns of Exporting Sectors

निर्यात क्षेत्रों की चिंताएं

- For the past few weeks, exporting sectors have been requesting the government to expedite bilateral trade negotiations with the U.S.

पिछले कुछ हफ्तों से निर्यात क्षेत्र सरकार से अमेरिका के साथ द्विपक्षीय व्यापार वार्ताओं को तेज करने की अपील कर रहे थे।

- This request aimed to protect them from President Donald Trump's "reciprocal" tariffs.


इसका उद्देश्य उन्हें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की "प्रतिशोधात्मक" टैरिफ नीति से बचाना था।

### Status of Tariffs

टैरिफ की स्थिति

- The tariffs have been paused for 90 days, except the 10% universal tariff, which is still in effect.

टैरिफ को 90 दिनों के लिए रोका गया है, लेकिन 10% का सार्वभौमिक टैरिफ अब भी लागू है।



इस रोक के बावजूद, चीन पर टैरिफ 125% तक बढ़ा दिया गया, जो अमेरिका की व्यापार नीति में रणनीतिक बदलाव का संकेत देता है।

- The shift appears to be a response to **massive sell-off of U.S. treasury bonds** and a **sharp decline in U.S. stock valuations**.

यह बदलाव अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड की भारी बिक्री और स्टॉक वैल्यू में तेज गिरावट की प्रतिक्रिया में किया गया लगता है।

## RBI's Changed Policy Stance

### आरबीआई की बदली हुई नीतिगत स्थिति

- Due to concerns of an **economic slowdown** and **negative investor sentiment**, the RBI changed its stance from **"neutral"** to **"accommodative."**

आर्थिक मंदी और निवेशकों की नकारात्मक भावना को देखते हुए, आरबीआई ने अपनी नीति को "न्यूट्रल" से "अकोमोडेटिव" में बदल दिया है।

- This change indicates the **possibility of further rate cuts** in the near future.  
यह बदलाव आगामी समय में और कटौती की संभावना को दर्शाता है।

## Impact on Loans and Borrowers

### ऋण और उधारकर्ताओं पर प्रभाव

- The **repo rate cut** will likely lead to **lower loan servicing costs** for **businesses, homeowners, and retail borrowers**.

रेपो रेट में कटौती के कारण व्यवसायों, मकान मालिकों और खुदरा उधारकर्ताओं के लिए ऋण चुकाने की लागत में कमी आने की संभावना है।

- Banks have already started **passing on the benefits** of the rate cut within **hours of the announcement**.

बैंकों ने घोषणा के कुछ ही घंटों के भीतर इस कटौती का लाभ देना शुरू कर दिया है।

## RBI's Objective with Rate Cut

### रेपो रेट कटौती का आरबीआई का उद्देश्य

- The RBI hopes the **rate reduction** will **ensure liquidity** for **businesses** during **economic uncertainty**.

आरबीआई को उम्मीद है कि दर में कटौती से आर्थिक अनिश्चितता के समय में व्यवसायों के लिए तरलता सुनिश्चित की जा सकेगी।

- This move may help businesses to **continue investing in the real economy** and **diversify their exports**.



इससे व्यवसायों को वास्तविक अर्थव्यवस्था में निवेश जारी रखने और अपने निर्यात में विविधता लाने में मदद मिल सकती है।

## RBI Lowers GDP Growth Forecast Amid Global Economic Uncertainty वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता के बीच आरबीआई ने जीडीपी वृद्धि का पूर्वानुमान घटाया

- The RBI has lowered the GDP growth estimate for the current fiscal year from 6.7% to 6.5%.  
आरबीआई ने चालू वित्त वर्ष के लिए जीडीपी वृद्धि अनुमान को 6.7% से घटाकर 6.5% कर दिया है।
- This is seen as a more ominous signal about the economy, despite supportive factors.  
यह स्थिति समर्थक कारकों के बावजूद और अधिक चिंताजनक संकेत के रूप में देखी जा रही है।

### Indicators of Growth Contraction

#### विकास संकुचन के संकेत

- The downward revision comes despite the RBI's growth stimulus, retail inflation falling to 3.61% in February, and sharp declines in food staple prices.  
यह संशोधन आरबीआई के विकास प्रोत्साहन, फरवरी में खुदरा मुद्रास्फीति के 3.61% तक गिरने, और खाद्य आवश्यकताओं की कीमतों में भारी गिरावट के बावजूद किया गया है।
- This suggests the central bank anticipates a contraction in economic growth due to the uncertain global climate.  
यह संकेत देता है कि वैश्विक अनिश्चितता के चलते केंद्रीय बैंक आर्थिक वृद्धि में संकुचन की आशंका जता रहा है।


### Governance and Predictable Policies as a Growth Prerequisite

#### विकास के लिए शासन और पूर्वानुमेय नीतियाँ आवश्यक

- A universally accepted economic principle is that stable governance and a predictable policy framework are necessary to foster economic growth.  
एक सर्वमान्य आर्थिक सिद्धांत है कि स्थिर शासन और पूर्वानुमेय नीति ढांचा आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक होते हैं।
- This principle seems to have been reversed since Mr. Trump's return as U.S. President.  
यह सिद्धांत श्री ट्रंप के राष्ट्रपति के रूप में लौटने के बाद से उलटता हुआ प्रतीत हो रहा है।

### Start of a Full-blown Trade War

#### एक व्यापक व्यापार युद्ध की शुरुआत



- **China's retaliatory tariffs, totalling 84%, mark the start of a full-scale trade war.**  
चीन द्वारा लगाए गए प्रतिशोधात्मक टैरिफ, जो कुल मिलाकर 84% हैं, एक पूर्ण व्यापार युद्ध की शुरुआत का संकेत देते हैं।
- Such a trade war has not been seen since the **Smoot-Hawley Act of 1930.**  
ऐसा व्यापार युद्ध 1930 के स्मूट-हॉले अधिनियम के बाद से नहीं देखा गया है।

## Historical Parallel: Smoot-Hawley Tariffs

### ऐतिहासिक समानता: स्मूट-हॉले टैरिफ

- Those tariffs aimed to **protect American farming and manufacturing during the inter-war years.**  
वे टैरिफ अंतरयुद्ध काल में अमेरिकी कृषि और विनिर्माण की रक्षा के उद्देश्य से लगाए गए थे।
- They led to **economic nationalism, a drop in global trade, and contributed to the Great Depression.**  
उन्होंने आर्थिक राष्ट्रवाद, वैश्विक व्यापार में गिरावट, और महामंदी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

## Key Lesson for Modern Nations


### आधुनिक देशों के लिए मुख्य सबक

- Nations must learn that **protecting one's economy is possible without harming others.**  
राष्ट्रों को यह सीखना चाहिए कि अपनी अर्थव्यवस्था की रक्षा दूसरों को नुकसान पहुंचाए बिना भी की जा सकती है।
- This is achievable if countries **recognise their competitive advantages and build on them.**  
यह तब संभव है जब देश अपनी प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त को पहचानें और उसे विकसित करें।

## U.S. Should Focus on Innovation

### अमेरिका को नवाचार पर ध्यान देना चाहिए

- In the **case of the United States**, the focus should be on **research, education, and innovation.**  
संयुक्त राज्य अमेरिका के मामले में, ध्यान अनुसंधान, शिक्षा और नवाचार पर होना चाहिए।
- This strategy would strengthen America's global position **without escalating global trade tensions.**  
यह रणनीति अमेरिका की वैश्विक स्थिति को बिना वैश्विक व्यापार तनाव बढ़ाए मजबूत बनाएगी।



## Tools of Monetary Policy

### मौद्रिक नीति के उपकरण

The Reserve Bank of India (RBI) employs various monetary policy tools to regulate the economy's money supply, aiming to achieve objectives like price stability, controlled inflation, and sustainable economic growth.

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) अर्थव्यवस्था में धन की आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए विभिन्न मौद्रिक नीति उपकरणों का उपयोग करता है, जिसका उद्देश्य मूल्य स्थिरता, नियंत्रित मुद्रास्फीति, और टिकाऊ आर्थिक विकास प्राप्त करना होता है।

These tools are broadly categorized into **quantitative** and **qualitative instruments**:

इन उपकरणों को व्यापक रूप से मात्रात्मक और गुणात्मक उपकरणों में विभाजित किया गया है:

- **Quantitative Tools:** Impact the **overall volume** of money and credit in the economy.
- **मात्रात्मक उपकरण:** अर्थव्यवस्था में धन और ऋण की कुल मात्रा को प्रभावित करते हैं।
- **Qualitative Tools:** Influence the **direction and allocation** of credit to specific sectors.
- **गुणात्मक उपकरण:** ऋण की दिशा और वितरण को विशेष क्षेत्रों की ओर निर्देशित करते हैं।

## Primary Quantitative Tools Utilized by the RBI

### RBI द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्रमुख मात्रात्मक उपकरण

#### Cash Reserve Ratio (CRR)

#### नकद आरक्षित अनुपात (CRR)

• The **Cash Reserve Ratio (CRR)** is the **percentage** of a bank's **Net Demand and Time Liabilities (NDTL)** that must be maintained as **reserves in cash** with the **RBI**.

• **नकद आरक्षित अनुपात (CRR)** वह प्रतिशत होता है, जो बैंक की नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज (NDTL) का हिस्सा होता है और जिसे नकद में रिज़र्व के रूप में RBI के पास रखना अनिवार्य होता है।

• **Purpose:** By adjusting the **CRR**, the RBI controls the **liquidity** in the banking system. An **increase** in CRR **reduces** the funds available for banks to lend, thereby **tightening liquidity**; a **decrease** has the **opposite effect**.

• **उद्देश्य:** CRR को समायोजित करके, RBI बैंकिंग प्रणाली में तरलता (**liquidity**) को नियंत्रित



करता है। यदि CRR बढ़ाया जाता है, तो बैंकों के पास ऋण देने के लिए उपलब्ध राशि घट जाती है, जिससे तरलता में कमी आती है; जबकि घटाने पर इसका उल्टा असर होता है।

• **Current Rate:** As of April 9, 2025, the CRR stands at 4.00%.

• **वर्तमान दर:** 9 अप्रैल 2025 की स्थिति में, CRR 4.00% है।

• **Example:** If a bank has NDTL of ₹100 crore and the CRR is 4%, it must keep ₹4 crore with the RBI, leaving ₹96 crore available for lending or investment.

• **उदाहरण:** यदि किसी बैंक के पास ₹100 करोड़ की NDTL है और CRR 4% है, तो उसे ₹4 करोड़ की राशि RBI के पास जमा करनी होगी, जिससे बैंक के पास ₹96 करोड़ की राशि ऋण या निवेश के लिए उपलब्ध रहेगी।

- It is different from the **Reserve Deposit Ratio** which banks maintain as a percentage of their total deposits.
- यह रिज़र्व डिपॉज़िट अनुपात से अलग है, जिसे बैंक अपनी कुल जमा राशि के प्रतिशत के रूप में बनाए रखते हैं।

### Reserve Deposit Ratio (RDR)

#### रिज़र्व डिपॉज़िट अनुपात (RDR)

• The **Reserve Deposit Ratio (RDR)** is the proportion of a bank's **total deposits** that it holds as **reserves**, rather than lending out.

• **रिज़र्व डिपॉज़िट अनुपात (RDR)** एक बैंक की कुल जमा राशि का वह हिस्सा है जिसे वह आरक्षित के रूप में रखता है, बजाय इसके कि उसे उधार दे।

• These reserves can be held in various forms, including:

• ये आरक्षित राशि विभिन्न रूपों में रखी जा सकती है, जैसे:

• **Vault Cash:** Physical currency stored in the bank's vault.

• **वॉल्ट कैश:** बैंक के वॉल्ट में रखी गई भौतिक मुद्रा।

• **Deposits with the Central Bank:** Funds maintained with the country's **central bank** (e.g., the Reserve Bank of India).

• **केंद्रीय बैंक में जमा राशि:** देश के केंद्रीय बैंक (जैसे कि भारतीय रिज़र्व बैंक) के पास रखी गई राशि।



## Purpose and Importance

### उद्देश्य और महत्त्व

- **Liquidity Management:** By maintaining a certain **RDR**, banks ensure they have sufficient funds to meet **depositor withdrawals** and other obligations.
- **तरलता प्रबंधन:** एक निश्चित **RDR** बनाए रखकर, बैंक यह सुनिश्चित करते हैं कि उनके पास जमा कर्ताओं की निकासी और अन्य दायित्वों को पूरा करने के लिए पर्याप्त धन हो।
- **Monetary Policy Implementation:** Central banks monitor and may influence the **RDR** to control the **money supply** and implement **monetary policy** effectively.
- **मौद्रिक नीति का कार्यान्वयन:** केंद्रीय बैंक **RDR** की निगरानी करते हैं और उसे प्रभावित कर सकते हैं ताकि **मुद्रा आपूर्ति** को नियंत्रित किया जा सके और **मौद्रिक नीति** को प्रभावी रूप से लागू किया जा सके।

## Calculation

### गणना

- The **Reserve Deposit Ratio** is calculated using the formula:
- रिज़र्व डिपॉज़िट अनुपात निम्नलिखित सूत्र से निकाला जाता है:

$$\text{RDR} = (\text{Total Reserves of the Bank} / \text{Total Deposits of the Bank}) \times 100$$

$$\text{RDR} = (\text{बैंक की कुल आरक्षित राशि} / \text{बैंक की कुल जमा राशि}) \times 100$$

## Example

### उदाहरण

- Consider a bank with total deposits of **₹100 crore** and total reserves of **₹10 crore**. The **RDR** would be:
- मान लीजिए किसी बैंक की कुल जमा राशि **₹100 करोड़** और कुल आरक्षित राशि **₹10 करोड़** है। तब **RDR** होगा:

$$\text{RDR} = (\text{₹10 crore} / \text{₹100 crore}) \times 100 = 10\%$$

$$\text{RDR} = (\text{₹10 करोड़} / \text{₹100 करोड़}) \times 100 = 10\%$$

## Distinction from Other Ratios


### अन्य अनुपातों से अंतर



**TELEGRAM CHANNEL:** <https://t.me/patrioticIAS>

**YOUTUBE CHANNEL:** <https://www.youtube.com/@PatrioticIAS>

**CONTACT: 9971932488**



- **Cash Reserve Ratio (CRR):** Specifically refers to the **mandatory percentage** of a bank's **Net Demand and Time Liabilities (NDTL)** that must be maintained with the **central bank** in cash form.
- **कैश रिज़र्व अनुपात (CRR):** यह एक बैंक की नेट डिमांड और टाइम लायबिलिटी (NDTL) का वह अनिवार्य प्रतिशत है जिसे केंद्रीय बैंक के पास नकद रूप में रखा जाना चाहिए।
- **Statutory Liquidity Ratio (SLR):** Pertains to the **minimum percentage** of NDTL that a bank must maintain in the form of **liquid assets** like **cash, gold, or approved securities** before offering credit to customers.
- **वैधानिक तरलता अनुपात (SLR):** यह बैंक की NDTL का वह न्यूनतम प्रतिशत है जिसे नकद, सोना, या स्वीकृत प्रतिभूतियों जैसे तरल परिसंपत्तियों के रूप में बनाए रखना आवश्यक होता है, इससे पहले कि वह ग्राहकों को ऋण दे।

PATRIOTIC IAS



## Net Demand and Time Liabilities (NDTL)

### नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज (NDTL)

NDTL refers to the total money a bank owes to its customers, including all public deposits.

NDTL उस कुल राशि को दर्शाता है जो किसी बैंक को अपने ग्राहकों को देनी होती है, जिसमें जनता द्वारा जमा की गई सारी राशि शामिल होती है।

#### Demand Liabilities

##### डिमांड लाइबिलिटीज

These are deposits that customers can withdraw anytime on "demand".

यह वे जमा राशि होती हैं जिन्हें ग्राहक कभी भी 'मांग' पर निकाल सकते हैं।

Examples include money in Savings Accounts, Current Accounts, and demand drafts issued by the bank.

उदाहरणों में सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट और बैंक द्वारा जारी डिमांड ड्राफ्ट शामिल हैं।

The bank must always be ready to pay these deposits whenever the customer asks.

बैंक को इन जमा राशियों का भुगतान करने के लिए हमेशा तैयार रहना होता है जब भी ग्राहक मांगे।

#### Time Liabilities

##### टाइम लाइबिलिटीज

These are deposits that customers cannot withdraw immediately, as they are locked in for a specific "time" period.

यह वे जमा राशि होती हैं जिन्हें ग्राहक तुरंत नहीं निकाल सकते, क्योंकि वे एक निश्चित 'समय' अवधि के लिए लॉक होती हैं।

Examples include Fixed Deposits (FDs), Recurring Deposits (RDs), and any deposit with a maturity period.

उदाहरणों में फिक्स्ड डिपॉजिट (FD), रिकरिंग डिपॉजिट (RD) और कोई भी परिपक्वता अवधि वाली जमा राशि शामिल हैं।



Banks can use this money for lending or investment during that fixed time.

बैंक इस धन का उपयोग उस निश्चित समय अवधि के दौरान ऋण देने या निवेश के लिए कर सकते हैं।

**Net Demand and Time Liabilities (NDTL)**

**नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज (NDTL)**

NDTL is calculated as:

NDTL की गणना इस प्रकार की जाती है:

NDTL = Total demand + time liabilities of the public with the bank – Deposits the bank holds with other banks (such as cooperative banks with commercial banks).

NDTL = बैंक के पास जनता की कुल डिमांड + टाइम लाइबिलिटीज - अन्य बैंकों के पास बैंक की जमा राशि (जैसे कि सहकारी बैंकों द्वारा वाणिज्यिक बैंकों के पास रखी गई जमा)।

PATRIOTIC IAS



## Statutory Liquidity Ratio (SLR)

### वैधानिक तरलता अनुपात (SLR)

• The Statutory Liquidity Ratio (SLR) is the **mandatory percentage** of a bank's **Net Demand and Time Liabilities (NDTL)** that must be maintained in the form of **liquid assets such as cash, gold, or approved government securities** before offering credit to customers.

• परिभाषा: वैधानिक तरलता अनुपात (SLR) एक अनिवार्य प्रतिशत है, जो बैंकों को अपनी नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज (NDTL) का नकद, सोना या अनुमोदित सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में बनाए रखना होता है, इससे पहले कि वे ग्राहकों को ऋण दें।

• Purpose: SLR ensures the bank's solvency and regulates credit expansion by controlling the bank's leverage position.

• उद्देश्य: SLR बैंकों की दिवालियापन से सुरक्षा सुनिश्चित करता है और बैंकों की लेवरेज स्थिति को नियंत्रित करके क्रेडिट विस्तार को नियंत्रित करता है।

• Current Rate: As of April 9, 2025, the SLR is 18.00%.

• वर्तमान दर: 9 अप्रैल 2025 तक SLR की दर 18.00% है।

• Example: For an NDTL of ₹100 crore, a bank must invest ₹18 crore in specified liquid assets, ensuring a cushion for the bank's liabilities.

• उदाहरण: यदि किसी बैंक की NDTL ₹100 करोड़ है, तो उसे ₹18 करोड़ को निर्दिष्ट तरल संपत्तियों में निवेश करना होगा, जिससे बैंक की देनदारियों के लिए सुरक्षा सुनिश्चित होती है।

## Repo Rate (Repurchase Agreement Rate)

### रेपो दर (पुनः खरीद समझौता दर)

• The Repo Rate is the interest rate at which the Reserve Bank of India (RBI) lends short-term funds to commercial banks against the collateral of government securities.

• रेपो दर वह ब्याज दर है जिस पर भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) वाणिज्यिक बैंकों को सरकारी प्रतिभूतियों के बदले अल्पकालिक ऋण प्रदान करता है।

• It serves as a tool for the RBI to manage liquidity and control inflation in the economy.

• यह अर्थव्यवस्था में तरलता प्रबंधन और मुद्रास्फीति नियंत्रण के लिए RBI का एक उपकरण है।



• **Mechanism:** Banks sell **government securities** to the RBI with an agreement to **repurchase them** at a predetermined **date and price**.

• **प्रक्रिया:** बैंक सरकारी प्रतिभूतियाँ RBI को बेचते हैं और एक निश्चित तिथि और मूल्य पर उन्हें पुनः खरीदने का समझौता करते हैं।

• **Current Rate (as of April 9, 2025):** The RBI reduced the repo rate by 25 basis points to 6.00%, marking the second consecutive cut in 2025.

• **वर्तमान दर (9 अप्रैल 2025 के अनुसार):** RBI ने रेपो दर को 25 आधार अंक घटाकर 6.00% कर दिया, जो कि 2025 में लगातार दूसरी कटौती है।

## Reverse Repo Rate

### रिवर्स रेपो दर

• The **Reverse Repo Rate** is the interest rate at which the **Reserve Bank of India (RBI)** borrows funds from commercial banks by offering them government securities as collateral.

• **रिवर्स रेपो दर** वह ब्याज दर है जिस पर **भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)** वाणिज्यिक बैंकों से सरकारी प्रतिभूतियों को गिरवी रखकर धन उधार लेता है।

• It serves as a tool for the RBI to **absorb excess liquidity** from the banking system, thereby helping to control inflation and stabilize the economy.

• यह RBI के लिए बैंकिंग प्रणाली से **अतिरिक्त तरलता को अवशोषित** करने का एक उपकरण है, जिससे मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने और अर्थव्यवस्था को स्थिर करने में मदद मिलती है।

• By adjusting the reverse repo rate, the RBI can influence the amount of funds that banks are willing to park with it, thus impacting the overall money supply.

• **रिवर्स रेपो दर** को समायोजित करके, RBI उस राशि को प्रभावित कर सकता है जिसे बैंक उसके पास जमा करने के लिए तैयार हैं, जिससे कुल धन आपूर्ति पर प्रभाव पड़ता है।

• This process helps the RBI to **manage short-term liquidity** and maintain stability in the financial system.

• यह प्रक्रिया RBI को **अल्पकालिक तरलता का प्रबंधन** करने और वित्तीय प्रणाली में स्थिरता बनाए रखने में मदद करती है।

**Current Rate (as of April 9, 2025)**

**वर्तमान दर (9 अप्रैल 2025 तक)**



- The **Reverse Repo Rate** remains unchanged at **3.35%**, as per the latest monetary policy announcement.
- नवीनतम मौद्रिक नीति घोषणा के अनुसार, रिर्स रेपो दर 3.35% पर अपरिवर्तित बनी हुई है।

## Bank Rate

### बैंक दर

- **Bank Rate** is the interest rate at which the **Reserve Bank of India (RBI)** lends funds to **commercial banks** without any **repurchase agreement**.
- बैंक दर वह ब्याज दर है जिस पर भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) बिना किसी पुनः क्रय अनुबंध (repurchase agreement) के वाणिज्यिक बैंकों को धन उधार देता है।
- It serves as a **monetary policy tool** to regulate **liquidity** and control **inflation** in the economy.
- यह अर्थव्यवस्था में तरलता (liquidity) को नियंत्रित करने और मुद्रास्फीति (inflation) को नियंत्रित करने के लिए मौद्रिक नीति उपकरण के रूप में कार्य करता है।


### Mechanism of Bank Rate

#### बैंक दर का कार्य करने का तंत्र

- When **commercial banks** face a **shortage of funds**, they can borrow from the **RBI at the Bank Rate**.
- जब वाणिज्यिक बैंकों को धन की कमी होती है, तो वे बैंक दर पर RBI से ऋण ले सकते हैं।
- Unlike the **Repo Rate**, there is **no repurchase agreement** involved; the borrowing is not backed by the sale of **government securities**.
- रेपो दर के विपरीत, इसमें कोई पुनः खरीद समझौता (repurchase agreement) नहीं होता; यह उधारी सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री द्वारा समर्थित नहीं होती।
- The **Bank Rate** influences the **lending rates** of commercial banks; a **higher Bank Rate** can lead to **higher interest rates for borrowers**.
- बैंक दर वाणिज्यिक बैंकों की ऋण दरों को प्रभावित करती है; उच्च बैंक दर से उधारकर्ताओं के लिए उच्च ब्याज दरें हो सकती हैं।

### Current Bank Rate

वर्तमान बैंक दर



• As of April 9, 2025, the **Bank Rate** stands at **6.25%**.

• 9 अप्रैल 2025 तक, बैंक दर 6.25% है।

• This rate is **determined by the RBI** and is subject to **change based on economic conditions**.

• यह दर RBI द्वारा निर्धारित की जाती है और आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार बदल सकती है।

### Comparison with Repo Rate

#### रेपो दर के साथ तुलना

• **Collateral Requirement: Repo Rate** requires collateral in the form of **government securities**; **Bank Rate** does not.

• गिरवी की आवश्यकता: रेपो दर के लिए सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में गिरवी की आवश्यकता होती है; बैंक दर के लिए नहीं।

• **Repurchase Agreement: Repo transactions** involve a **repurchase agreement**; **Bank Rate** transactions do not.

• पुनः खरीद समझौता: रेपो लेनदेन में पुनः खरीद समझौता होता है; बैंक दर में नहीं होता।

• **Purpose: Repo Rate** is primarily used for **short-term liquidity adjustments**; **Bank Rate** is used for **long-term lending** and as a **signal for monetary policy stance**.

• उद्देश्य: रेपो दर का उपयोग मुख्यतः अल्पकालिक तरलता समायोजन के लिए किया जाता है; बैंक दर का उपयोग दीर्घकालिक ऋण और मौद्रिक नीति के संकेत के रूप में किया जाता है।

### Recent Developments

#### हाल की प्रगति

• In response to **global economic uncertainties** and **domestic inflationary pressures**, the **RBI** has adjusted the **Bank Rate** to maintain **economic stability**.

• वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं और घरेलू मुद्रास्फीति दबावों के मद्देनज़र, RBI ने अर्थव्यवस्था में स्थिरता बनाए रखने के लिए बैंक दर को समायोजित किया है।

• The alignment of the **Bank Rate** with the **Marginal Standing Facility (MSF)** rate reflects the **RBI's approach to streamline its monetary policy tools**.

• बैंक दर का मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी (MSF) दर के साथ समन्वय दर्शाता है कि RBI अपने मौद्रिक नीति उपकरणों को सुव्यवस्थित कर रहा है



## Drop the piecemeal ways to social security for workers

**GS Paper III: Social Security of the Workers**

India's efforts to establish social security for online (app-based) gig workers are gaining momentum, with the central scheme awaiting Cabinet approval. Benefits announced include health coverage under Ayushman Bharat, registration on the eShram portal for access to various social security schemes, and a transaction-based pension policy, where a universal account number assigned to each gig worker helps track their earnings across platforms for deductions and company contributions. This pension scheme is particularly notable because, in a way, it acknowledges that gig workers (operating outside traditional employee-employer relationships) can have multiple employers, and ensures that each contributes, albeit in a limited capacity, towards worker welfare. In a country where social security is typically tethered to formal employment and informal workers are excluded or otherwise disadvantaged, this is clearly a step forward.

However, this progress highlights the reactive nature of current social protection systems which tend to respond only when new worker categories emerge. This underscores the need for India to proactively reimagine its social security framework to address these evolving challenges.

### The flaws in the existing system

Despite being a founding member of the International Labour Organisation (ILO), India is yet to ratify the Social Security (Minimum Standards) Convention, 1952 (No. 102), the ILO's Convention aimed at establishing basic social security principles. India's Code on Social Security (Code), one of its four new Labour Codes, enacted nearly 70 years after the 102



**Renjini Rajagopalan**

is a lawyer and Research Lead at the Centre for Gender Analysis, JustJobs Network (JJN)

As India strives to make its workforce 'future ready', robust social protection systems that can withstand workforce and sectoral changes need to be in place

Convention, intends to provide a comprehensive framework for social protection. But it has faced significant criticism for its ambiguous definitions, watered down protections, and on-going implementation challenges.

One of the Code's most prominent features is its insistence on relying on welfare boards for the distribution of social welfare – a process that has long been found falling short of its intended goals. For instance, a recent Right To Information petition showed that Welfare Boards for Building and Other Construction Workers of various States were yet to use ₹70,744.16 crore worth of cess they had collected from employers for the welfare of workers. In another instance, a Comptroller and Auditor General (CAG) 2024 report found that 99 local bodies in 10 districts had delayed remittance payments to the Tamil Nadu Construction Workers Welfare Board (TNCWWB), amounting to ₹221.8 crore. Even in Kerala, with its strong thrust on worker welfare, only five out of its 16 boards were found to function effectively, with some boards (as per 2016-17 data) not reporting any beneficiaries at all. This has led to repeated calls from activists and advocacy groups for improvements in the management and the functioning of welfare boards.

### The problem with incremental approaches

One of the main arguments in favour of India's fragmented, welfare-board run social welfare systems is its ability to provide targeted relief to segments of workers in need – for example, beedi and cigarette workers of Karnataka have sought the revival of a defunct welfare fund to deal with their welfare woes. Today it is the gig worker; but new worker categories are bound to

emerge with advancements in technology or other forces of disruption.

So, relying on a piecemeal approach – as opposed to a combination of universal social protection and targeted support – can fail to account for the precarious nature of all informal work. Such an approach could also create artificial distinctions between different types of informal work such as between gig work and domestic work, and in turn impose arbitrary thresholds on who is deserving of social protection, and who is not.

It is also risky to assume that focusing on just one worker segment will automatically solve the challenge of formalising informal labour. Because right now, there is understandably growing excitement about how gig work will employ more people in the future. But banking on it as a solution to formalising informal labour is overly optimistic.

### Towards universal social protection systems

As India strives to make its workforce 'future ready', it is crucial to create robust social protection systems that can withstand workforce and sectoral changes. Which raises the key question: what is the most realistic way forward? The Code, despite its implementation logjam, looks here to stay. And while it leaves the bulk of the oversight to the Centre, it allows States some flexibility to enact social security measures within its framework.

A sensible starting point might be to treat the Code's mandates as the bare minimum, and use these as a foundation to build stronger, more inclusive, accessible and ultimately, universal social protection systems that leave no worker behind.

## Drop the piecemeal ways to social security for workers

श्रमिकों के लिए टुकड़ों में दी जा रही सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था को छोड़ें

India's efforts to establish social security for online (app-based) gig workers are gaining momentum, with the central scheme awaiting Cabinet approval.

भारत में ऑनलाइन (ऐप-आधारित) गिग वर्कर्स के लिए सामाजिक सुरक्षा स्थापित करने के प्रयास तेज हो रहे हैं, और केंद्रीय योजना कैबिनेट की मंजूरी की प्रतीक्षा में है।

• Benefits announced include **health coverage under Ayushman Bharat**, registration on the **eShram portal** for access to various social security schemes, and a **transaction-based pension policy**.

घोषित लाभों में आयुष्मान भारत के तहत स्वास्थ्य बीमा, विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लिए ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण, और एक लेनदेन आधारित पेंशन नीति शामिल हैं।



**TELEGRAM CHANNEL:** <https://t.me/patrioticIAS>

**YOUTUBE CHANNEL:** <https://www.youtube.com/@PatrioticIAS>

**CONTACT: 9971932488**



• A **universal account number** assigned to each gig worker helps track their earnings across platforms for deductions and **company contributions**.

हर गिग वर्कर को दिया गया **यूनिवर्सल खाता नंबर** उनके विभिन्न प्लेटफॉर्म पर होने वाली कमाई को ट्रैक करने, कटौती और **कंपनी योगदान** के लिए मदद करता है।

• This pension scheme is particularly notable because, in a way, it acknowledges that gig workers (operating outside traditional employee-employer relationships) can have **multiple employers**, and ensures that each contributes, albeit in a limited capacity, towards **worker welfare**.

यह पेंशन योजना विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि यह मानती है कि गिग वर्कर (जो पारंपरिक नियोजक-कर्मचारी संबंध से बाहर काम करते हैं) के **कई नियोजक** हो सकते हैं, और यह सुनिश्चित करती है कि प्रत्येक सीमित रूप से ही सही, **श्रमिक कल्याण में योगदान** दे।

• In a country where **social security** is typically tethered to **formal employment** and **informal workers** are excluded or otherwise disadvantaged, this is clearly a **step forward**.

एक ऐसे देश में जहाँ **सामाजिक सुरक्षा** आमतौर पर **औपचारिक रोजगार** से जुड़ी होती है और **अनौपचारिक श्रमिकों** को बाहर कर दिया जाता है या वंचित किया जाता है, यह निश्चित रूप से एक **आगे की ओर कदम** है।

• However, this progress highlights the **reactive nature** of current social protection systems which tend to respond only when **new worker categories** emerge.

हालाँकि, यह प्रगति मौजूदा सामाजिक सुरक्षा प्रणाली की **प्रतिक्रियात्मक प्रकृति** को दर्शाती है जो केवल तब प्रतिक्रिया देती है जब **नई श्रमिक श्रेणियाँ** सामने आती हैं।

• This underscores the need for India to **proactively reimagine** its **social security framework** to address these evolving challenges.

यह इंगित करता है कि भारत को इन बदलती चुनौतियों से निपटने के लिए अपने **सामाजिक सुरक्षा ढांचे** को **सक्रिय रूप से पुनः परिभाषित** करने की ज़रूरत है।

## The flaws in the existing system

### मौजूदा प्रणाली की खामियाँ

• Despite being a founding member of the **International Labour Organisation (ILO)**, India is yet to ratify the **Social Security (Minimum Standards) Convention, 1952 (No. 102)**.

हालाँकि भारत **अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO)** का संस्थापक सदस्य है, फिर भी वह अभी तक **सामाजिक सुरक्षा (न्यूनतम मानक) कन्वेंशन, 1952 (सं. 102)** को **अनुमोदित नहीं** कर पाया है।

• The ILO's Convention aims at establishing **basic social security principles**.

ILO का यह कन्वेंशन **मौलिक सामाजिक सुरक्षा सिद्धांतों** की स्थापना के लिए है।

• India's **Code on Social Security**, one of its **four new Labour Codes**, enacted nearly **70 years** after the 102 Convention, intends to provide a **comprehensive framework** for social



**TELEGRAM CHANNEL:** <https://t.me/patrioticIAS>

**YOUTUBE CHANNEL:** <https://www.youtube.com/@PatrioticIAS>

**CONTACT: 9971932488**



protection.

भारत का सामाजिक सुरक्षा संहिता (Code on Social Security), जो चार नए श्रम कानूनों में से एक है, 102 कन्वेंशन के लगभग 70 वर्ष बाद लागू किया गया, और इसका उद्देश्य समग्र सामाजिक सुरक्षा ढांचा प्रदान करना है।

• But it has faced significant criticism for its **ambiguous definitions, watered down protections, and on-going implementation challenges.**

लेकिन इसे इसके अस्पष्ट परिभाषाओं, कमज़ोर सुरक्षा प्रावधानों, और निरंतर क्रियान्वयन की चुनौतियों के लिए गंभीर आलोचना झेलनी पड़ी है।

• One of the Code's most prominent features is its insistence on relying on **welfare boards** for the distribution of social welfare — a process that has long been found falling short of its intended goals.

इस कोड की एक प्रमुख विशेषता है कि यह **कल्याण बोर्डों पर सामाजिक सुरक्षा वितरण** के लिए निर्भर करता है — एक प्रक्रिया जो लंबे समय से अपने लक्ष्यों को हासिल करने में असफल रही है।

• For instance, a recent **Right To Information (RTI)** petition showed that Welfare Boards for **Building and Other Construction Workers** of various States were yet to use **₹70,744.16 crore** worth of **cess** they had collected from employers.

उदाहरण के लिए, एक हालिया **सूचना का अधिकार (RTI)** याचिका से पता चला कि विभिन्न राज्यों के **निर्माण और अन्य निर्माण श्रमिकों के कल्याण बोर्डों ने ₹70,744.16 करोड़ की सेस राशि**, जो उन्होंने नियोक्ताओं से एकत्र की थी, अब तक उपयोग नहीं की।

• In another instance, a **Comptroller and Auditor General (CAG) 2024** report found that **99 local bodies in 10 districts** had **delayed remittance payments** to the **Tamil Nadu Construction Workers Welfare Board (TNCWWB)**, amounting to **₹221.8 crore**.

एक अन्य उदाहरण में, **नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) 2024** की रिपोर्ट में पाया गया कि **10 जिलों की 99 स्थानीय संस्थाओं ने तमिलनाडु निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड (TNCWWB) को ₹221.8 करोड़ की देरी से भुगतान किया।**

• Even in **Kerala**, with its strong thrust on worker welfare, only **5 out of 16 boards** were found to function effectively, with some boards (as per **2016-17** data) not reporting any beneficiaries at all.

यहाँ तक कि **केरल**, जहाँ **श्रमिक कल्याण** पर विशेष ज़ोर दिया जाता है, वहाँ भी **16 में से केवल 5 बोर्ड ही प्रभावी रूप से काम कर रहे थे**, और कुछ बोर्डों ने (**2016-17** के आंकड़ों के अनुसार) **कोई लाभार्थी रिपोर्ट नहीं किया।**

• This has led to repeated calls from **activists and advocacy groups** for improvements in the **management and the functioning of welfare boards.**

इससे कार्यकर्ताओं और जनसमर्थन समूहों द्वारा **कल्याण बोर्डों के प्रबंधन और कार्यप्रणाली में सुधार** की बार-बार माँग की जा रही है।

**Address : 3rd Floor, KV Tower, Padleyganj Road, Gorakhpur**  
**Email Id : info@patrioticias.in**  
**Contact Number : 9971932488**  
**Website : patrioticias.in**



## The problem with incremental approaches

### क्रमिक तरीकों की समस्या

- One of the main arguments in favour of India's **fragmented, welfare-board run social welfare systems** is its ability to provide **targeted relief** to segments of workers in need.  
भारत की विखंडित, कल्याण बोर्ड संचालित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली के पक्ष में एक प्रमुख तर्क यह है कि यह ज़रूरतमंद श्रमिक वर्गों को लक्षित राहत प्रदान कर सकती है।
- For example, **beedi and cigarette workers of Karnataka** have sought the revival of a **defunct welfare fund** to deal with their welfare woes.  
उदाहरण के लिए, कर्नाटक के बीड़ी और सिगरेट श्रमिकों ने अपनी कल्याण संबंधी समस्याओं से निपटने के लिए एक अकार्यशील कल्याण कोष को पुनर्जीवित करने की मांग की है।
- Today it is the **gig worker**; but **new worker categories** are bound to emerge with advancements in **technology** or other forces of disruption.  
आज बात गिग वर्कर की है; लेकिन तकनीक में प्रगति या अन्य बदलावकारी शक्तियों के साथ नए श्रमिक वर्ग सामने आना तय है।
- So, relying on a **piecemeal approach** — as opposed to a combination of **universal social protection** and targeted support — can fail to account for the **precarious nature** of all informal work.  
इसलिए, केवल टुकड़ों में अपनाई गई नीति पर निर्भर रहना — जबकि सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा और लक्षित सहायता का संयोजन अधिक उपयुक्त है — सभी अनौपचारिक कार्यों की अस्थिर प्रकृति को समझने में विफल हो सकता है।
- Such an approach could also create **artificial distinctions** between different types of informal work such as between **gig work** and **domestic work**, and in turn impose **arbitrary thresholds** on who is deserving of **social protection**, and who is not.  
इस प्रकार की नीति गिग कार्य और घरेलू कार्य जैसे विभिन्न प्रकार के अनौपचारिक कार्यों के बीच कृत्रिम अंतर बना सकती है, और इसके तहत यह तय किया जा सकता है कि कौन सामाजिक सुरक्षा का हकदार है और कौन नहीं — यह एक मनमानी सीमा को जन्म देता है।
- It is also risky to assume that focusing on just **one worker segment** will automatically solve the challenge of **formalising informal labour**.  
केवल एक श्रमिक वर्ग पर ध्यान केंद्रित करने से अनौपचारिक श्रम का औपचारिकीकरण अपने आप हो जाएगा — यह मान लेना भी जोखिम भरा है।
- Because right now, there is understandably growing excitement about how **gig work** will employ more people in the future.



**TELEGRAM CHANNEL:** <https://t.me/patrioticIAS>

**YOUTUBE CHANNEL:** <https://www.youtube.com/@PatrioticIAS>

**CONTACT: 9971932488**



क्योंकि इस समय यह बात स्पष्ट है कि भविष्य में गिग कार्य अधिक लोगों को रोजगार देगा — इस पर काफी उत्साह है।

- But banking on it as a solution to formalising informal labour is overly optimistic.  
लेकिन इसे अनौपचारिक श्रम के औपचारिकीकरण का समाधान मान लेना अत्यधिक आशावादी दृष्टिकोण है।

## Towards universal social protection systems

### सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा प्रणाली की ओर

- As India strives to make its workforce 'future ready', it is crucial to create **robust social protection systems** that can withstand **workforce and sectoral changes**.

भारत जब अपनी कार्यबल को 'भविष्य के लिए तैयार' बनाने की कोशिश कर रहा है, तो उसे ऐसे मज़बूत सामाजिक सुरक्षा तंत्र बनाने होंगे जो कार्यबल और क्षेत्रों में होने वाले बदलावों को झेल सकें।

- Which raises the key question: what is the most **realistic way forward**?

यह एक महत्वपूर्ण सवाल उठाता है: आगे बढ़ने का सबसे व्यावहारिक रास्ता क्या है?

- The **Code**, despite its **implementation logjam**, looks here to stay.

**सामाजिक सुरक्षा संहिता (Code)**, भले ही इसके क्रियान्वयन में गतिरोध हो, लेकिन यह अब स्थायी रूप से लागू होती दिख रही है।

- And while it leaves the **bulk of the oversight** to the **Centre**, it allows **States** some flexibility to enact social security measures within its framework.

और जबकि यह निगरानी का अधिकांश कार्य केंद्र पर छोड़ता है, यह राज्यों को अपने ढांचे के भीतर कुछ लचीलापन भी प्रदान करता है ताकि वे सामाजिक सुरक्षा उपायों को लागू कर सकें।

- A **sensible starting point** might be to treat the **Code's mandates** as the **bare minimum**, and use these as a foundation to build **stronger, more inclusive, accessible and ultimately, universal social protection systems** that leave **no worker behind**.

एक व्यावहारिक शुरुआत यह हो सकती है कि सामाजिक सुरक्षा संहिता के निर्देशों को न्यूनतम स्तर माना जाए, और इन्हें आधार बनाकर और अधिक मज़बूत, समावेशी, सुलभ और अंततः सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा प्रणाली बनाई जाए जो किसी भी श्रमिक को पीछे न छोड़े।



**TELEGRAM CHANNEL:** <https://t.me/patrioticIAS>

**YOUTUBE CHANNEL:** <https://www.youtube.com/@PatrioticIAS>

**CONTACT: 9971932488**



## TOPICS COVERED (GS Paper IV and Essay)

### 1. After women, Taliban morality police target men in Afghanistan

औरतों के बाद, अफगानिस्तान में तालिबान की नैतिकता पुलिस ने पुरुषों को बनाया निशाना

### 2. Macron ally admits 'immense disappointment' over presidency

मैक्रॉ की सहयोगी ने राष्ट्रपति कार्यकाल को लेकर 'गहरी निराशा' व्यक्त की

### 3. Sudan paramilitaries used women as sex slaves: Amnesty

सूडान के अर्धसैनिक बलों ने महिलाओं को यौन दासियों के रूप में इस्तेमाल किया: एमनेस्टी



TELEGRAM CHANNEL: <https://t.me/patrioticIAS>

YOUTUBE CHANNEL: <https://www.youtube.com/@PatrioticIAS>

CONTACT: 9971932488



# After women, Taliban morality police target men in Afghanistan

GS Paper IV: Ethics

Associated Press

The Taliban morality police in Afghanistan have detained men and their barbers over hairstyles and others for missing prayers at mosques during the holy month of Ramzan, a UN report said on Thursday, six months after laws regulating people's conduct came into effect.

The Vice and Virtue Ministry published laws in August covering many aspects of life in Afghanistan, including public transport, music, shaving and celebrations. Most notably, the ministry issued a ban on women's voices and bare faces in public.

That same month, a top UN official warned the laws provided a "distressing vision" for the country's future by adding to existing employment, education, and dress code restrictions on women and girls. Taliban officials have rejected UN concerns about the morality laws.

Thursday's report, from the UN mission in Afghanistan, said in the first six months of the laws' implementation, over half of detentions made under it concerned "either men not having the compliant

beard length or hairstyle, or barbers providing non-compliant beard trimming or haircuts." The report said that the morality police regularly detained people arbitrarily "without due process and legal protections."

During the holy fasting month of Ramzan, men's attendance at mandated congregational prayers was closely monitored, leading at times to arbitrary detention of those who didn't show up, the report added.

The UN mission said that both sexes were negatively affected, particularly people with small businesses such as private education centres, barbers and hairdressers, tailors, wedding caterers and restaurants, leading to a reduction or total loss of income and employment opportunities.

The direct and indirect socio-economic effects of the laws' implementation were likely to compound Afghanistan's dire economic situation, it said. A World Bank study has assessed that authorities' ban on women from education and work could cost the country over \$1.4 billion per year.

## After women, Taliban morality police target men in Afghanistan

औरतों के बाद, अफगानिस्तान में तालिबान की नैतिकता पुलिस ने पुरुषों को बनाया निशाना

The Taliban morality police in Afghanistan have detained men and their barbers over hairstyles and others for missing prayers at mosques during the holy month of Ramzan, a UN report said on Thursday, six months after laws regulating people's conduct came into effect.

अफगानिस्तान में तालिबान की नैतिकता पुलिस ने रामज़ान के पवित्र महीने के दौरान हेयरस्टाइल और मस्जिद में नमाज़ नहीं पढ़ने के कारण पुरुषों और उनके नाइयों को हिरासत में लिया, यह बात संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट ने गुरुवार को कही, जब इन नियमों को लागू हुए छह महीने हो चुके हैं।

• The Vice and Virtue Ministry published laws in August covering many aspects of life in Afghanistan, including public transport, music, shaving and celebrations.


अगस्त में नैतिकता मंत्रालय ने अफगानिस्तान के जीवन के कई पहलुओं को कवर करते हुए नियम प्रकाशित किए, जिनमें सार्वजनिक परिवहन, संगीत, दाढ़ी बनाना और उत्सव शामिल हैं।



**TELEGRAM CHANNEL:** <https://t.me/patrioticIAS>

**YOUTUBE CHANNEL:** <https://www.youtube.com/@PatrioticIAS>

**CONTACT: 9971932488**



- Most notably, the ministry issued a ban on **women's voices and bare faces in public**. विशेष रूप से, मंत्रालय ने सार्वजनिक रूप से महिलाओं की आवाज़ और बिना नकाब के चेहरे पर प्रतिबंध लगाया।
- That same month, a **top UN official** warned the laws provided a “**distressing vision**” for the country's future by adding to existing **employment, education, and dress code restrictions on women and girls**. उसी महीने, एक शीर्ष संयुक्त राष्ट्र अधिकारी ने चेतावनी दी कि ये कानून देश के भविष्य के लिए एक "चिंताजनक दृश्य" प्रस्तुत करते हैं क्योंकि ये पहले से मौजूद रोज़गार, शिक्षा, और ड्रेस कोड प्रतिबंधों को महिलाओं और लड़कियों पर और सख्त बनाते हैं।
- **Taliban officials** have **rejected UN concerns** about the **morality laws**. तालिबान अधिकारियों ने संयुक्त राष्ट्र की नैतिकता कानूनों को लेकर चिंताओं को अस्वीकार कर दिया है।
- **Thursday's report**, from the **UN mission in Afghanistan**, said in the **first six months** of the laws' implementation, **over half of detentions** made under it concerned “**either men not having the compliant beard length or hairstyle, or barbers providing non-compliant beard trimming or haircuts.**” अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र मिशन की गुरुवार की रिपोर्ट में कहा गया कि इन नियमों के लागू होने के पहले छह महीनों में हुई गिरफ्तारियों में से आधे से अधिक ऐसे मामलों से जुड़ी थीं, जिनमें या तो पुरुषों की दाढ़ी या हेयरस्टाइल तय मानकों के अनुसार नहीं थी, या नाइयों द्वारा गैर-अनुपालन वाले बाल काटने या दाढ़ी ट्रिम करने से जुड़ी थीं।
- The report said that the **morality police** regularly detained people arbitrarily “**without due process and legal protections.**” रिपोर्ट में कहा गया कि नैतिकता पुलिस ने लोगों को नियमित रूप से "उचित प्रक्रिया और कानूनी सुरक्षा के बिना" मनमाने ढंग से हिरासत में लिया।
- During the **holy fasting month of Ramzan**, **men's attendance** at **mandated congregational prayers** was closely monitored, leading at times to **arbitrary detention** of those who didn't show up, the report added. रिपोर्ट में आगे कहा गया कि पवित्र उपवास के महीने रमज़ान के दौरान, पुरुषों की सामूहिक अनिवार्य नमाज़ों में उपस्थिति पर कड़ी निगरानी रखी गई, जिससे जो लोग उपस्थित नहीं हुए उन्हें मनमाने ढंग से हिरासत में लिया गया।
- The **UN mission** said that **both sexes** were negatively affected, particularly people with **small businesses** such as **private education centres, barbers and hairdressers, tailors, wedding caterers and restaurants**, leading to a **reduction or total loss of income and employment opportunities**. संयुक्त राष्ट्र मिशन ने कहा कि दोनों लिंगों पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ा, विशेषकर वे लोग जिनके पास छोटे



व्यवसाय हैं जैसे कि निजी शिक्षा केंद्र, नाई और हेयरड्रेसर, दर्जी, शादी के खानपान सेवाएं और रेस्तरां, जिससे उनकी आय और रोजगार के अवसरों में गिरावट या पूरी तरह से नुकसान हुआ।

• The **direct and indirect socio-economic effects** of the laws' implementation were likely to compound **Afghanistan's dire economic situation**, it said.

रिपोर्ट में कहा गया कि इन नियमों के लागू होने से होने वाले प्रत्यक्ष और परोक्ष सामाजिक-आर्थिक प्रभाव, अफगानिस्तान की गंभीर आर्थिक स्थिति को और बिगाड़ सकते हैं।

• A **World Bank study** has assessed that authorities' **ban on women from education and work** could cost the country **over \$1.4 billion per year**.

विश्व बैंक के एक अध्ययन में आंका गया है कि महिलाओं के शिक्षा और कार्य पर प्रतिबंध से देश को हर साल \$1.4 अरब से अधिक का नुकसान हो सकता है।

# Macron ally admits 'immense disappointment' over presidency

Essay

**Agence France-Presse**  
PARIS

France's parliamentary Speaker has written of her "immense disappointment" over the methods used by President Emmanuel Macron – an ally – during his almost eight years in power.

Yael Braun-Pivet, a senior figure in Mr. Macron's centrist party, expressed the view in a book published on Thursday, becoming one of the first figures within the ruling elite to air such grievances publicly.

Her book, titled *A ma place* (In my Place), covers the challenges she faced on becoming the first woman Speaker of the National Assembly and the alleged sexism she had to overcome – as well as her assessment



**Ruffling feathers:** Yael Braun-Pivet, Speaker of the National Assembly, expressed her view in a book published on Thursday. AFP

of the President.

"While I have immense respect for Emmanuel Macron, I can't help but also feel immense disappointment over the method," the Speaker said of the Lower House.

"From the very beginning, there were insiders from the palace who man-

aged to take control more easily by restricting access for others," she said.

Such complaints have long circulated in Paris about Mr. Macron, but those were behind the scenes and never published openly by a Macron ally such as Ms. Braun-Pivet.

She accuses Mr. Macron's powerful chief of staff Alexis Kohler of seeking to convince her not to stand for the post of Speaker, followed by then Prime Minister Elisabeth Borne.

In 2017, a close Macron ally, Stephane Sejourne, who would later become a Foreign Minister and is now an EU commissioner, insisted that she should not take a position at the head of a parliamentary commission, and even argued that she would not have time for her five children, she alleged.

But in a radio interview on Thursday morning, Ms. Braun-Pivet said that, despite all this, she and the President had built a "very frank and very sincere" relationship. "We continue to see each other one to one," she told France Inter.



## Macron ally admits 'immense disappointment' over presidency

मैक्रों की सहयोगी ने राष्ट्रपति कार्यकाल को लेकर 'गहरी निराशा' व्यक्त की

France's parliamentary Speaker has written of her "immense disappointment" over the methods used by President Emmanuel Macron — an ally — during his almost eight years in power.

फ्रांस की संसदीय अध्यक्ष ने राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों द्वारा अपने लगभग आठ वर्षों के कार्यकाल में अपनाए गए तरीकों को लेकर "गहरी निराशा" व्यक्त की है, जबकि वह उनकी सहयोगी भी हैं।

• Yael Braun-Pivet, a senior figure in Mr. Macron's centrist party, expressed the view in a book published on Thursday, becoming one of the first figures within the ruling elite to air such grievances publicly.

याएल ब्राउन-पिवेट, जो मैक्रों की मध्यपंथी पार्टी की एक प्रमुख नेता हैं, ने यह विचार गुरुवार को प्रकाशित हुई एक किताब में व्यक्त किया, और वह शासक वर्ग की ऐसी पहली हस्तियों में से हैं जिन्होंने इस तरह की शिकायतें सार्वजनिक रूप से व्यक्त की हैं।

• Her book, titled *A ma place (In my Place)*, covers the challenges she faced on becoming the first woman Speaker of the National Assembly and the alleged sexism she had to overcome — as well as her assessment of the President.

उनकी किताब, जिसका नाम *A ma place (इन माई प्लेस)* है, में उन्होंने नेशनल असेंबली की पहली महिला अध्यक्ष बनने के दौरान आई चुनौतियों और उन्हें झेलना पड़ा लिंगभेद के साथ-साथ राष्ट्रपति के प्रति अपनी मूल्यांकन को शामिल किया है।

• "While I have immense respect for Emmanuel Macron, I can't help but also feel immense disappointment over the method," the Speaker said of the Lower House.

निचले सदन की अध्यक्ष ने कहा, "हालांकि मुझे इमैनुएल मैक्रों के प्रति गहरा सम्मान है, लेकिन मैं उनके तरीकों को लेकर गहरी निराशा भी महसूस करती हूँ।"

• "From the very beginning, there were insiders from the palace who managed to take control more easily by restricting access for others," she said.

उन्होंने कहा, "शुरुआत से ही कुछ महल के अंदरूनी लोग थे जिन्होंने दूसरों की पहुँच सीमित करके आसानी से नियंत्रण प्राप्त कर लिया।"

• Such complaints have long circulated in Paris about Mr. Macron, but those were behind the scenes and never published openly by a Macron ally such as Ms. Braun-Pivet.



**TELEGRAM CHANNEL:** <https://t.me/patrioticIAS>

**YOUTUBE CHANNEL:** <https://www.youtube.com/@PatrioticIAS>

**CONTACT: 9971932488**



मैक्रों के बारे में इस तरह की शिकायतें पेरिस में लंबे समय से चल रही हैं, लेकिन वे हमेशा गोपनीय रहीं और कभी किसी मैक्रों की सहयोगी जैसे कि ब्रौन-पिवेट द्वारा सार्वजनिक रूप से प्रकाशित नहीं की गई थीं।

• She accuses Mr. Macron's powerful **chief of staff Alexis Kohler** of seeking to **convince her not to stand** for the post of **Speaker**, followed by then **Prime Minister Elisabeth Borne**.

उन्होंने मैक्रों के शक्तिशाली **मुख्य सचिव एलेक्सिस कोहलर** पर **स्पीकर पद के लिए खड़े न होने के लिए राज़ी करने** की कोशिश का आरोप लगाया, जिसके बाद तत्कालीन **प्रधानमंत्री एलिज़ाबेथ बॉर्न** का भी यही प्रयास था।

• In **2017**, a close **Macron ally, Stephane Sejourne**, who would later become a **Foreign Minister** and is now an **EU commissioner**, insisted that she should not take a position at the head of a **parliamentary commission**, and even argued that she would not have time for her **five children**, she alleged.

उन्होंने आरोप लगाया कि **2017** में मैक्रों के करीबी **सहयोगी स्टेफ़ान सेजुर्ने**, जो बाद में **विदेश मंत्री** बने और अब **ईयू कमिश्नर** हैं, ने इस बात पर जोर दिया कि वह **संसदीय आयोग की अध्यक्षता** न लें और यहां तक कहा कि उनके पास अपने **पांच बच्चों** के लिए समय नहीं होगा।

• But in a **radio interview on Thursday morning**, Ms. Braun-Pivet said that, despite all this, she and the President had built a **"very frank and very sincere"** relationship.

लेकिन एक **रेडियो इंटरव्यू में गुरुवार सुबह**, ब्रौन-पिवेट ने कहा कि इन सबके बावजूद, उन्होंने और राष्ट्रपति ने एक **"बहुत ईमानदार और बहुत स्पष्ट"** संबंध स्थापित किया है।

• "We continue to see each other **one to one**," she told **France Inter**.

उन्होंने **फ़्रांस इंटर** को बताया, "हम अब भी **एक-दूसरे से व्यक्तिगत रूप से मिलते रहते हैं।"**



## Sudan paramilitaries used women as sex slaves: Amnesty

Age Essay  
CAIRO

Sudan's paramilitary forces subjected women to sexual slavery and gang-raped women and girls as part of their war strategy, rights group Amnesty International said in a report on Thursday.

The paramilitary **Rapid Support Forces (RSF)** have been battling the Army since April 15, 2023, and the war has created what the United Nations describes as one of the world's worst humanitarian crises.

While the military reclaimed the capital Khartoum in March, the country remains essentially divided in two.

"The RSF have carried out widespread sexual violence across towns and villages in Sudan to humili-

ate, assert control, and displace communities," the report said.

Deprose Muchena, the group's senior director for regional human rights impact, said the RSF's attacks on civilians "are shameful and cowardly, and any countries supporting the RSF, including by supplying them with weapons, shares in their shame".

**'They raped all of us'**

The 30-page report of Amnesty International, titled "They Raped All of Us", details the harrowing testimonies of around 30 victims, some of them girls, and their relatives.

The acts of violence described in the report were all committed in four Sudanese States, including in the Khartoum and Darfur areas, from the start of war to October 2024.



File photo of women and babies at the Zamzam displacement camp close to al-Fashir in North Darfur in Sudan. REUTERS

Both the Army and the paramilitary are under U.S. sanctions and accused of war crimes.

Since the war began, the RSF has been accused of looting and taking over civilian homes, with rights groups documenting systematic sexual violence and other abuses.

The war has killed tens of thousands of people and, according to the United Nations, uprooted around 12 million more.

The report details the accounts of two survivors of sexual slavery who were held in the capital Khartoum, one of whom described being held captive

for 30 days during which she was repeatedly raped by the paramilitary men.

**'I heard them cry'**

One woman, a 34-year-old mother of five, described how in May 2023 she was abducted from her home by seven men wearing the RSF uniform and taken to a house where another three women were also being held.

"I was detained in that house for 30 days where they kept raping me almost every day," she said.

"They released me after 30 days when I became very sick. They also kept repeatedly raping the other women. I know because I heard them cry every day."

Another victim, aged 27, was held for several days inside a shop near a checkpoint after she was detained and ripped away

from her husband's side in May 2023.

Her husband said: "They raped my wife for more than four consecutive days. They detained me in a separate shop. I could hear her scream as they raped my wife every day, but I was not able to help."

According to the report, several women said RSF members raped them because they suspected they were Army supporters, while women medics were raped as a punishment for failing to save the lives of wounded fighters.

In October, a UN fact-finding mission found widespread sexual violence during Sudan's war. It accused the paramilitaries of being behind the "large majority" of cases.

The RSF rejected the accusations as propaganda.

## Sudan paramilitaries used women as sex slaves: Amnesty

सूडान के अर्धसैनिक बलों ने महिलाओं को यौन दासियों के रूप में इस्तेमाल किया: एमनेस्टी

Sudan's paramilitary forces subjected women to sexual slavery and gang-raped women and girls as part of their war strategy, rights group Amnesty International said in a report on Thursday.

अधिकार समूह एमनेस्टी इंटरनेशनल ने गुरुवार को एक रिपोर्ट में कहा कि सूडान की अर्धसैनिक बलों ने अपनी युद्ध रणनीति के तहत महिलाओं को यौन दासता में रखा और महिलाओं व लड़कियों के साथ सामूहिक बलात्कार किया।

• The paramilitary **Rapid Support Forces (RSF)** have been battling the **Army** since **April 15, 2023**, and the war has created what the **United Nations** describes as one of the **world's worst humanitarian crises**.


अर्धसैनिक बल रैपिड सपोर्ट फोर्स (RSF) 15 अप्रैल 2023 से सेना के साथ लड़ रहे हैं और यह युद्ध संयुक्त राष्ट्र के अनुसार दुनिया के सबसे भीषण मानवीय संकटों में से एक बन गया है।



**TELEGRAM CHANNEL:** <https://t.me/patrioticIAS>

**YOUTUBE CHANNEL:** <https://www.youtube.com/@PatrioticIAS>

**CONTACT: 9971932488**



• While the **military** reclaimed the **capital Khartoum** in **March**, the country remains essentially **divided in two**.

मार्च में सेना ने राजधानी खार्तूम को पुनः अपने नियंत्रण में लिया, लेकिन देश अब भी दो भागों में बंटा हुआ है।

• "The RSF have carried out **widespread sexual violence** across towns and villages in Sudan to **humiliate, assert control, and displace communities**," the report said.

रिपोर्ट में कहा गया कि RSF ने सूडान के कस्बों और गांवों में व्यापक यौन हिंसा की है ताकि लोगों को अपमानित किया जा सके, नियंत्रण स्थापित किया जा सके और समुदायों को विस्थापित किया जा सके।

• **Deprose Muchena**, the group's **senior director** for regional human rights impact, said the RSF's attacks on civilians "are **shameful and cowardly**, and any countries **supporting the RSF**, including by **supplying them with weapons**, shares in their shame".

संगठन के क्षेत्रीय मानवाधिकार निदेशक डिप्रोस मुचेना ने कहा कि नागरिकों पर RSF के हमले "शर्मनाक और काररतापूर्ण" हैं, और जो भी देश RSF का समर्थन कर रहे हैं, जैसे कि उन्हें हथियार मुहैया कराना, वे भी इस शर्म में शामिल हैं।

**'They raped all of us'**

**'उन्होंने हम सभी का बलात्कार किया'**

• The **30-page report** of Amnesty International, titled "**They Raped All of Us**", details the **harrowing testimonies** of around **30 victims**, some of them **girls**, and their **relatives**.

एमनेस्टी इंटरनेशनल की 30 पन्नों की रिपोर्ट जिसका शीर्षक है "उन्होंने हम सभी का बलात्कार किया", इसमें लगभग 30 पीड़ितों, जिनमें कुछ लड़कियां भी थीं, और उनके परिजनों की दिल दहला देने वाली गवाही शामिल है।

• The acts of violence described in the report were all committed in **four Sudanese States**, including in the **Khartoum** and **Darfur** areas, from the start of war to **October 2024**.

रिपोर्ट में वर्णित हिंसक घटनाएं चार सूडानी राज्यों में हुईं, जिनमें खार्तूम और दारफुर क्षेत्र शामिल हैं, और यह घटनाएं युद्ध की शुरुआत से लेकर अक्टूबर 2024 तक की हैं।

• Both the **Army** and the **paramilitary** are under **U.S. sanctions** and accused of **war crimes**. **सेना और अर्धसैनिक बल**, दोनों ही **अमेरिका के प्रतिबंधों** के अंतर्गत हैं और **युद्ध अपराधों** के आरोपी हैं।

• Since the war began, the RSF has been accused of **looting** and **taking over civilian homes**, with rights groups documenting **systematic sexual violence** and other abuses.

युद्ध शुरू होने के बाद से, RSF पर लूटपाट और नागरिक घरों पर कब्जा करने के आरोप लगे हैं, और अधिकार समूहों ने **सुनियोजित यौन हिंसा** व अन्य अत्याचारों को दर्ज किया है।

• The war has killed **tens of thousands of people** and, according to the **United Nations**, uprooted around **12 million** more.


**Address : 3rd Floor, KV Tower, Padleyganj Road, Gorakhpur**  
**Email Id : info@patrioticias.in**  
**Contact Number : 9971932488**  
**Website : patrioticias.in**



**TELEGRAM CHANNEL:** <https://t.me/patrioticIAS>

**YOUTUBE CHANNEL:** <https://www.youtube.com/@PatrioticIAS>

**CONTACT: 9971932488**



इस युद्ध में अब तक दसियों हजार लोग मारे गए हैं और संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, लगभग 1.2 करोड़ लोग विस्थापित हो चुके हैं।

• The report details the accounts of **two survivors of sexual slavery** who were held in the capital **Khartoum**, one of whom described being **held captive for 30 days** during which she was **repeatedly raped** by the paramilitary men.

रिपोर्ट में यौन दासता से बचे दो लोगों की गवाही दी गई है, जिन्हें राजधानी खार्तूम में रखा गया था, जिनमें से एक ने बताया कि वह **30 दिनों तक बंदी** रही और इस दौरान **बार-बार बलात्कार** किया गया।

## 'I heard them cry'

### 'मैंने उन्हें रोते सुना'

• One woman, a **34-year-old mother of five**, described how in **May 2023** she was **abducted** from her home by **seven men wearing the RSF uniform** and taken to a house where **another three women** were also being held.

एक महिला, जो पांच बच्चों की 34 वर्षीय मां है, ने बताया कि मई 2023 में उसे RSF की वर्दी पहने सात लोगों ने उसके घर से अगवा कर लिया और एक ऐसे घर में ले गए जहाँ पहले से तीन अन्य महिलाएं भी बंद थीं।

• "I was detained in that house for **30 days** where they kept **raping me almost every day**," she said.

उसने कहा, "मुझे उस घर में **30 दिनों तक** रखा गया, जहाँ उन्होंने लगभग हर दिन मेरा बलात्कार किया।"

• "They released me after **30 days** when I became very sick. They also kept **repeatedly raping the other women**. I know because I **heard them cry every day**."

"**30 दिन** बाद जब मैं बहुत बीमार हो गई तो उन्होंने मुझे छोड़ दिया। उन्होंने दूसरी महिलाओं का भी बार-बार बलात्कार किया। मैं जानती हूँ क्योंकि मैं उन्हें हर दिन रोते हुए सुनती थी।"

• Another victim, aged **27**, was held for **several days inside a shop near a checkpoint** after she was **detained and ripped away from her husband's side** in **May 2023**.

एक और पीड़िता, जिसकी उम्र 27 वर्ष थी, को मई 2023 में उसके पति से अलग कर एक चेकपॉइंट के पास एक दुकान में कई दिनों तक बंदी बनाकर रखा गया।

• Her husband said: "They **raped my wife for more than four consecutive days**. They **detained me in a separate shop**. I could **hear her scream every day**, but I was not able to help."

उसके पति ने कहा: "उन्होंने मेरी पत्नी का चार से अधिक लगातार दिनों तक बलात्कार किया। मुझे अलग एक दुकान में बंद किया गया। मैं उसे हर दिन चीखते हुए सुनता था, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सका।"

• According to the report, several women said **RSF members raped them** because they suspected they were **Army supporters**, while **women medics** were raped as **punishment for failing to save the lives** of wounded fighters.



**TELEGRAM CHANNEL:** <https://t.me/patrioticIAS>

**YOUTUBE CHANNEL:** <https://www.youtube.com/@PatrioticIAS>

**CONTACT: 9971932488**



रिपोर्ट के अनुसार, कई महिलाओं ने कहा कि **RSF के सदस्यों ने उनका बलात्कार** इस संदेह में किया कि वे **सेना समर्थक** थीं, जबकि **महिला स्वास्थ्यकर्मियों** के साथ इसलिए बलात्कार किया गया क्योंकि वे **घायल सैनिकों** की जान नहीं बचा सकीं।

• In **October**, a **UN fact-finding mission** found **widespread sexual violence** during Sudan's war. It accused the **paramilitaries** of being behind the "**large majority**" of cases.

अक्टूबर में **संयुक्त राष्ट्र** की एक **तथ्य-जांच मिशन** ने **सूडान** के युद्ध के दौरान **व्यापक यौन हिंसा** पाई और इन मामलों की "**बड़ी संख्या**" के पीछे **अर्धसैनिक बलों** को जिम्मेदार ठहराया।

• The **RSF** rejected the accusations as **propaganda**.

**RSF** ने इन आरोपों को **प्रचार** करार देते हुए **खारिज** कर दिया।

**TOPICS COVERED (PCS Special)**


**Address : 3rd Floor, KV Tower, Padleyganj Road, Gorakhpur**  
**Email Id : info@patrioticias.in**  
**Contact Number : 9971932488**  
**Website : patrioticias.in**



TELEGRAM CHANNEL: <https://t.me/patrioticIAS>

YOUTUBE CHANNEL: <https://www.youtube.com/@PatrioticIAS>

CONTACT: 9971932488



## Kuki bodies tell Meiteis not to climb hill for annual event

PCS

The Hindu Bureau  
GUWAHATI

An annual traditional event of the Meitei community involving a trek to a hill in a district dominated by the Kuki people has fuelled fresh tension in ethnic conflict-scarred Manipur.

Six Kuki tribal organisations, including the Kuki Students' Organisation, on Wednesday asked the non-tribal Meitei not to cross the 'buffer zone' for the Cheirao Ching Kaba, an annual event to climb the Thangjing Hill as a part of the celebration for Cheiraoba, the Meitei New Year that starts mid-April.

The buffer zone is a narrow strip separating the Meitei-dominated Imphal Valley from the low hills, which are primarily inhabited by the Kuki-Zo-Hmar tribes.

### 'Political settlement'

"Unless and until a political settlement is reached by the government of India for the Kuki-Zo-Hmar community under the Constitution of India, no such

### Curfew continues in some parts of Churachandpur district after conflict over hoisting flags in a disputed area

friendly approach to the jurisdiction of Kuki-Zo-Hmar land would be allowed for the Meitei community," a joint statement by these organisations read.

The organisations said any attempt to cross the buffer zone would be "opposed tooth and nail".

Curfew in the Churachandpur district, imposed after violence triggered by the assault on a Hmar community leader on March 16, was relaxed for 11 hours on Thursday.

The curfew, however, was not relaxed in an area surrounding two villages – Rengkai and V. Munhoih – where tension erupted on April 8 over the hoisting of community flags in a disputed area.

The curfew was also not lifted in the district's Kangvai, Samulamlan, and Sangkoi subdivisions.

## Kuki bodies tell Meiteis not to climb hill for annual event

### कुकी संगठनों ने मैतेई समुदाय से वार्षिक कार्यक्रम के लिए पहाड़ी पर न चढ़ने को कहा

An annual traditional event of the Meitei community involving a trek to a hill in a district dominated by the Kuki people has fuelled fresh tension in ethnic conflict-scarred Manipur.

मैतेई समुदाय का एक वार्षिक पारंपरिक कार्यक्रम, जिसमें कुकी-बहुल जिले की एक पहाड़ी पर चढ़ाई शामिल है, ने सांप्रदायिक संघर्ष झेल रहे मणिपुर में नई तनाव की स्थिति पैदा कर दी है।

• Six Kuki tribal organisations, including the Kuki Students' Organisation, on Wednesday asked the non-tribal Meitei not to cross the 'buffer zone' for the Cheirao Ching Kaba, an annual event to climb the Thangjing Hill as a part of the celebration for Cheiraoba, the Meitei New Year that starts mid-April.

बुधवार को, कुकी स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन सहित छह कुकी जनजातीय संगठनों ने गैर-जनजातीय मैतेई समुदाय से कहा कि वे 'बफर ज़ोन' को पार

न करें। यह Cheirao Ching Kaba के लिए है, जो Thangjing Hill पर चढ़ने का एक वार्षिक कार्यक्रम है और मैतेई नववर्ष Cheiraoba के मध्य अप्रैल में आरंभ होने वाले उत्सव का हिस्सा है।

• The buffer zone is a narrow strip separating the Meitei-dominated Imphal Valley from the low hills, which are primarily inhabited by the Kuki-Zo-Hmar tribes.

यह बफर ज़ोन, मैतेई-बहुल इम्फाल घाटी को नीची पहाड़ियों से अलग करता है, जहां मुख्य रूप से कुकी-जो-हमार जनजातियां निवास करती हैं।

• "Unless and until a political settlement is reached by the Government of India for the Kuki-Zo-Hmar community under the Constitution of India, no such friendly approach to the jurisdiction of Kuki-Zo-Hmar land would be allowed for the Meitei community," a joint statement by these organisations read.

इन संगठनों के एक संयुक्त बयान में कहा गया, "जब तक भारत सरकार द्वारा भारतीय संविधान के तहत कुकी-जो-हमार समुदाय के लिए कोई राजनीतिक समाधान नहीं निकाला जाता, तब तक मैतेई समुदाय को कुकी-जो-हमार भूमि के क्षेत्र में मित्रवत रुख की अनुमति नहीं दी जाएगी।"

Address : 3rd Floor, KV Tower, Padleyganj Road, Gorakhpur  
Email Id : [info@patrioticias.in](mailto:info@patrioticias.in)  
Contact Number : 9971932488  
Website : [patrioticias.in](http://patrioticias.in)



**TELEGRAM CHANNEL:** <https://t.me/patrioticIAS>

**YOUTUBE CHANNEL:** <https://www.youtube.com/@PatrioticIAS>

**CONTACT: 9971932488**



- The organisations said any attempt to **cross the buffer zone** would be “**opposed tooth and nail**”.  
संगठनों ने कहा कि यदि कोई भी **बफर ज़ोन पार** करने की कोशिश की गई तो उसका “**पूरी ताकत से विरोध**” किया जाएगा।
- **Curfew in the Churachandpur district**, imposed after violence triggered by the **assault on a Hmar community leader on March 16**, was relaxed for **11 hours on Thursday**.  
16 मार्च को हमार समुदाय के एक नेता पर हमले के बाद हुई हिंसा के कारण चुराचांदपुर जिले में लगाए गए कर्फ्यू को गुरुवार को 11 घंटे के लिए ढील दी गई।
- The curfew, however, was not relaxed in an area surrounding two villages — **Rengkai and V. Munhoih** — where tension erupted on **April 8** over the **hoisting of community flags** in a **disputed area**.  
हालांकि, कर्फ्यू को उन दो गांवों — **रेनगकै और वी. मुनहोइह** — के आसपास के क्षेत्र में 8 अप्रैल को विवादित क्षेत्र में समुदाय के झंडे फहराने को लेकर तनाव के कारण नहीं हटाया गया।
- The curfew was also not lifted in the district’s **Kangvai, Samulamlan, and Sangaikot subdivisions**.  
कर्फ्यू को जिले की कांगवई, सामुलामलान, और सांगाईकोट उपखंडों में भी नहीं हटाया गया।

PATRIOTIC IAS